

840
B
B68
no. 8

77


BIBLIOTHECA INDICA:

A COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED BY

THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

—
NEW SERIES No. 877.
—



THE PADUMAWĀTI

OF

MALIK MUHAMMAD JAISĪ

EDITED, WITH A COMMENTARY, TRANSLATION, AND CRITICAL NOTES,

BY

G. A. GRIERSON, C.I.E., PH.D.,

AND

MAHĀMAHŌPĀDHYĀYA SUDHĀKARA DVIVĒDI, F. A.

—
CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS,
AND PUBLISHED BY THE ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.

1896.

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES

LIST OF BOOKS FOR SALE
 AT THE LIBRARY OF THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,
 No. 57, PARK STREET, CALCUTTA,
 AND OBTAINABLE FROM
 THE SOCIETY'S AGENTS, MESSRS. LUZAC & CO.
 46, GREAT RUSSELL STREET, LONDON, W. C., AND MR. OTTO
 HARRASSOWITZ, BOOKSELLER, LEIPZIG, GERMANY.

Complete copies of those works marked with an asterisk * cannot be supplied—some
 of the Fasciculi being out of stock.

BIBLIOTHECA INDICA.

Sanskrit Series.

Advaita Brahma Siddhi, (Text) Fasc. 1-4 @ 6/- each	Rs. 1	8
*Agni Purāṇa, (Text) Fasc. 2-14 @ 6/- each	4	14
Aitarēya Āraṇyaka of the Rg Veda, (Text) Fasc. 1-5 @ 6/- each	1	14
Aitarēya Brāhmaṇa, Vol. I, Fasc. 1-5 and Vol. II, Fasc. 1-5 Vol. III, Fasc. 1 @ 6/-	4	2
Anu Bhāṣyam, (Text) Fasc. 1-2 @ 6/- each	0	12
Aphorisms of Sūndilya, (English) Fasc. 1	0	6
Āśṭasāhasrikā Prajñāparamitā, (Text) Fasc. 1-6 @ 6/- each	2	4
Āśvavaidyaka, (Text) Fasc. 1-5 @ 6/- each	1	14
Āvadāna Kalpalatā, (Sans. and Tibetan) Vol. I, Fasc. 1-5; Vol. II, Fasc. 1-4 @ 1/ each	9	0
*Bhāmatī, (Text) Fasc. 2-8 @ 6/- each	2	10
Brahma Sūtra, (English) Fasc. 1	0	12
Brhaddēvatā (Text) Fasc. 1-4 @ 6/- each	1	8
Brhaddharma Purāṇa, (Text) Fasc. 1-5 @ 6/- each	1	14
Brhadāraṇyaka Upaniṣad, (English) Fasc. 2-3 @ 6/- each	0	12
Cūtanya-Chandrōdaya Nātaka, (Text) Fasc. 2-3 @ 6/- each	0	12
*Cāṇkara Vijaya, (Text) Fasc. 2 and 3 @ 6/- each	0	12
*Caturvarga Chintāmani (Text) Vols. II, 1-25; III. Part I, Fasc. 1-18. Part II, Fasc. 1-10 @ 6/- each	19	14
*Chāndogya Upaniṣad, (English) Fasc. 2	0	6
Crānta Sūtra of Āpastamba, (Text) Fasc. 1-13 @ 6/- each	4	14
* Ditto Lātyāyāna, (Text) Fasc. 2-9 @ 6/- each	3	0
Ditto Cānkhāyana, (Text) Vol. I, Fasc. 1-7; Vol. II, Fasc. 1-4, Vol. III, Fasc. 1-3 @ 6/- each	5	4
Crī Bhāṣyam, (Text) Fasc. 1-3 @ 6/- each	1	2
*Hindu Astronomy, (English) Fasc. 2-3 @ 6/- each	0	12
Kāla Mādhava, (Text) Fasc. 1-4 @ 6/- each	1	8
Kālāntara, (Text) Fasc. 1-6 @ 12/- each	4	8
Khā Sarit Sāgara, (English) Fasc. 1-14 @ 12/- each	10	8
śrima Purāṇa, (Text) Fasc. 1-9 @ 6/- each	3	6
Lalita-Vistara, (Text) Fasc. 3-6 @ 6/- each	1	8
Ditto (English) Fasc. 1-3 @ 12/- each	2	4
Madana Pārijāta, (Text) Fasc. 1-11 @ 6/- each	4	2
Manutikā Saṅgraha, (Text) Fasc. 1-3 @ 6/- each	1	2
*Mārkandēya Purāṇa, (Text) Fasc. 4-7 @ 6/- each	1	8
Mārkandēya Purāṇa, (English) Fasc. 1-4 @ 12/- each	3	0
Mimāṃsa Darśana, (Text) Fasc. 3-19 @ 6/- each	6	6
*Narada Smṛti, (Text) Fasc. 1-3 @ 6/-	1	2
Nyayavārtika, (Text) Fasc. 1-3 @ 6/-	1	2
Nirukta, (Text); Vol. III, Fasc. 1-6; Vol. IV, Fasc. 1-8 @ 6/- each	5	4

INTRODUCTION.

(*Temporary*).

The following is an attempt to give a correct text and translation of the Padumāwati,¹ or Padmāvati of Malik Muḥammad of Jāyas in Oudh. He flourished under Shér Shāh in the year 1540 A.D., and numerous MSS. of his great poem are in existence.

The value of the Padumāwati consists chiefly in its age. Malik Muḥammad is, we believe, the oldest vernacular poet of Hindūstān of whom we have any uncontested remains. Cand Bar'dāi was much older, but the genuineness of his Prithirāj Rāy'sā is denied by many competent scholars. Vidyāpati Thākur, who lived in the year 1400 A.D., has only left us a few songs which have come down to us through five centuries of oral transmission, and which now cannot be in the form in which they were sung. The preservation of the Padumāwati is due mainly to the happy accident of Malik Muḥammad's religious reputation. Although profoundly affected by the teaching of Kabīr, and familiarly acquainted with Hindū lore, and with the Hindū Yōga philosophy, he was from the first revered as a saint by his Muḥammadan co-religionists.

He wrote his poem in what was evidently the actual vernacular of his time, tinged slightly with an admixture of a few Persian words and idioms due to his Musalmān predilections. It is also due to his religion that he originally wrote it in the Persian character, and hence discarded all the favourite devices of pāṇḍits, who tried to make their language correct by spelling (while they did not pronounce) vernacular words in the Sanskrit fashion. He had no temptation to do this. The Persian character did not lend itself to any such false antiquarianism. He spelled each word rigorously as it was pronounced. His work is hence a valuable witness to the actual condition of the vernacular language of Northern India in the 16th century. It is, so far as it goes, and with the exception of a few hints in Alberuni's Indica, the only trustworthy witness which we have. It is trustworthy, however, only to a certain extent, for it often merely gives the consonantal frame work of the words, the vowels, as is usual in Persian MSS., being generally omitted. Fortunately, the vowels can generally be inserted correctly with the help of a few Dōvanāgarī MSS. of the poem which are in our possession.

Besides its interest as a key to a philological puzzle, the Padumāwati also deserves notice for its contents. In itself it is a fine poetical work, and one of the few original ones, not dealing with either Rāma or Kṛishṇa, with which we are acquainted in any Indian language. It is also remarkable for the vein of tolerance which runs through it,—a tolerance in every way worthy of Kabīr or of Tul'sī Dās. The story of the poem has been a favourite

¹ The author himself invariably spells the word thus.

one with eastern authors. Ḫusain Ghaznawī wrote a Persian poem on the subject, entitled *Qissae Padmāwat*. Rai Gōbind Munshī in 1652 A.D. wrote a version in Persian prose, called (after the chronogram of its date) *Tukfatu-l-Kulūb*. Again Mir Ziyāu-d-din 'Ibrat, and Ghulām 'Ali 'Ishrat wrote a joint version in Urdū verse in 1796 A.D. Malik Muḥammad's poem was written in 1540 A.D.

Concerning the author little is known. He tells us himself that he was the disciple of Sayyad Muhiud-d-in. He studied Sanskrit Prosody and Rhetoric from Hindū Pāṇḍits at Jāyas. He belonged to the *Cistiyā Niẓāmiyā*, that is to say, he was the eleventh disciple in descent from the well-known Niẓāmu-d-din, who died in 1325 A.D. Muhiud-din's teacher was Shaikh Burhān, who resided at Kalpi in Bundelkhaṇḍ, and who is said to have died at the age of a hundred years in A.D. 1562-63. The poet was patronized by Shēr Shāh.

The only other fact which we know for certain is that he was blind of one eye. I have collected the following traditions about him. One of Shēr Shāh's allies was Jagat Dēv, (enthroned 1527 A.D.: died 1573 A.D.), Mahārāj of Ghāzipur and Bhojpur. He was present at the battle of Baghsar (Buxar) in which Shēr Shāh defeated Humāyūn. Malik Muḥammad is said to have attended his court. Two of Malik Muḥammad's four friends, whom he mentions in his poem (22) were also patronised by Jagat Dēv. These were Yūsuf Malik and Salōnē Singh (whom Malik Muḥammad calls Miyā as if he was a Muṣalmān). It is said that another attendant at Jagat Dēv's court was a *Katthak*, named Gandharv Rāj, who was skilled in the art of singing. Malik Muḥammad was greatly attached to him and gave him his blessing, prophesying that skill in song would always remain in his family, and, at the same time, begging him to take, as a sign of affection, his title of Malik. Ever since, Gandharv Rāj's descendants have called themselves Malik, and members of the family still live in Talukā Rāipurā and at Haldi in Baliyā District, and are renowned singers.

It is said that the Rājā of Amēthi was childless, but was granted a son, in consequence of the prayers of Malik Muḥammad. When the poet died, he was buried at Amēthi, and his tomb is still shown, and worshipped by believers. Malik Muḥammad's two friends, Malik Yūsuf and Salōnē, died in what is now the district of Gōrakh'pur, from a surfeit of mangoes. Malik Muḥammad was with them at the time, and himself narrowly escaped. The mangoes are said to have been infested by poisonous insects.

The text of the *Padumāwati*, being in the थेठ Hindi language, and written in the Persian character, is very difficult both to read and to understand. It has been frequently transliterated into the Nāgarī character, but the transcriptions, whether MS. or printed, are full of mistakes, generally guesses to make the meaning clear. The best transliterated edition is that by Pāṇḍit Rām Jasan of Banāras; but even in his case (putting instances of sanskritization out of sight) hardly a line is correct. There are several printed editions in the Persian character, but they too are all incorrect. We have been fortunate enough to become possessed of several old MSS. of the poem in the Persian character, and by diligent comparison we have endeavoured to reproduce, in the Nāgarī character, the actual words written by the poet. A glance at the critical notes will show the labour involved in the task.

For the purposes of these specimens, we have used the following MSS. :—

A. MSS. in Persian character (marked collectively as P).

- (1) India Office Library, Pers. Cat. 1018. Dated 1107 Hij. = 1695 A.D. (Ia).
- (2) Ditto No. 1975. Vowel marks freely used. Correctly written. Dated 1109 Hij. = 1697 A.D. (Ib).
- (3) Ditto No. 1819. Vowel points inserted in red ink by a later hand. Dated 1114 Hij. = 1702 A.D. (Ic).
- (4) India Office Library, Urdu Catalogue, No. 3130. Few vowel points. In two different handwritings. No date, (Id).

All these Persian MSS. are very fairly correct. We have taken Ib. as the basis throughout.

B. MSS. in the Dévanāgarī character (marked collectively as N).

- (1) India Office Library, Sanskrit Catalogue, No. 2471. A magnificent copy, profusely illustrated. Written by Thānā Kāyath of Mirzāpur. No date. Spelling highly Sanskritized (Is).

We must here express our thanks to the authorities of the India Office Library, for the loan of the above MSS.

- (2) A well written copy kindly lent me by the late Kavirāj Syāmal Dās, belonging to the library of the Mahārāj of Udaipur. Spelling not so Sanskritized. Dated Sambat 1895 = 1838 A.D. (U).

C. MSS. in the Kaithī character.

- (1) A clearly written copy. With very irregular spelling: and many important variations in the readings. Written in Sambat 1812 = 1755 A.D. (K).
- (2) A well written correct copy, but incomplete. The commencement, and several portions in the middle are missing. It also contains several interpolations. Written in Sambat 1758 (A.D. 1701), at Vaitāla-gaḍha, by Jaya-kṛṣṇa Dūbē, the son of Hari-rām. The last dōhā is numbered 739. (K²).
- (3) A fairly correct copy. Complete. Contains several interpolations. Commenced in Sambat 1879 (A.D. 1822). Writer's name not mentioned. (K³).

These three books are full of various readings, and owing to the use of the Kaithī character, the spelling is very irregular. All the readings of K² and K³, have not been inserted, but only those which illuminate doubtful points in the text.

As might be expected in a work sometimes written in the Persian, and sometimes in the Déva-nāgarī character, the spelling of the MSS. is very capricious. In editing the text, we have adopted a system of spelling, and of representing grammatical forms, which, we believe, represents as nearly as possible the practice of the best copies. In a critical edition, a uniform system of spelling is absolutely essential, and as no single manuscript follows any rules on the subject we have allowed ourselves some latitude. The principal points are as follows:—

Spelling:—Prākrit words are spelt as in the Persian copies. When the Persian copies give vowels, those vowels are adopted. When no vowels are given, we have used our judgment in adopting the vowels given in the Dévanāgarī and Kaithī copies.

On the other hand, for precisely similar reasons, we have generally adopted the spelling of Arabic and Persian words which is best vouched for by the Dēvanāgarī and Kaithī copies. Such words are phonetically spelt in that alphabet.

U and K uniformly write س as ش. We have not followed them in this.

The termination سِ nh, is capable of being read as equivalent to either the plural oblique termination هُنْ, or to the singular oblique termination هِنْ or هِن. Unless the context showed that هُنْ is required, we have transliterated it هِنْ. Even in the best Persian MSS. the nasal is inserted so capriciously, that it is at least doubtful whether it should be used in the singular, and we have accordingly followed the best Dēvanāgarī MSS., in omitting it, in this case, throughout.

In Tadbhava words, a Sanskrit or Prakrit medial م becomes و (Cf. Hēma-candra's Prakrit Grammar, IV. 397). Thus the representative of the Sanskrit کملاً is کوچل (not کوچل), and of سراسم، سوارن. This و, at the end of a word becomes هُ، thus ناچُ (not ناچ)، a name. When م or anusvāra, however, forms the first member of a compound, the preceding vowel is nasalized. Thus آنہ (for Prakrit آنھ)، a mango, سُوارد، (for سوارثتی)، he arranges.

In the preposition آن، the و becomes هُ. Thus, آنگاھی، for آنگاھی، having bathed. In other cases after م، ه، or ئ، medial و remains unchanged. Thus پهن، wind، بھن، a house، سےونا، a savage. After any other vowel, medial و is dropped. Thus سعنهن (for سعون)، earth، زیانه (for زیان)، life. A final و always becomes هُ. Thus جیئ (for جیئ)، life. Similarly for ئ، e.g. ننهن.

Scheme of transliteration adopted in this work:—

آ a, آا ā, د i, دِ ī, چ u, چِ ū, ڦ e, ڦِ ē, ڦُ o, ڦُو ū, ڦُو ڦُ, thus ڦِ a, ڦِ ī, ڦِ ū, ڦِ ڦُ, and so on. ڻِ m.

The following vowels occur only in a few Sanskrit words, آ r, آ ai, آؤ au. In Tadbhava words آ and آؤ do not occur. آد is transliterated ai and آج au. In Nāgari MSS. when آ and آؤ occur, they are plainly stenographic signs for آد and آج. This is frequently shown by the metre. There is no danger of confusing آد، آج، and آ، آؤ، for they appear in distinct classes of words، آد، آج، are always in Tadbhava words, or in corrupted Tatsama words، آ and آؤ occur only in words lifted bodily from Sanskrit:—

ک k, ڪ kh, ڳ g, ڳ gh, ڦ y.

ڦ c, ڦ ch, ڙ j, ڦ jh, ڙ n.

ڌ t, ڌ th, ڌ d, ڌ dh, ۽ n.

ڌ t, ڍ th, ڌ d, ڍ dh, ڌ n.

ٻ p, ٻ ph, ٻ b, ٻ bh, ٻ m.

ڍ y, ڍ r, ڦ l, ڦ w, (or in Sanskrit words v).

ڦ s, ڦ s, ڦ h.

ڦ only occurs in Persian words, representing the Persian ڦ، or in pure Sanskrit words. In the former case it is transliterated sh, and in the latter by ڦ.

Arabic and Persian letters.

ٿ s، ٿ h, ڦ kh، ڏ z، ڙ z، ڦ zh، ڦ t، ڦ ظ z، ڦ ظ t، ڦ ظ zh، ڦ ظ ظ z، ڦ ظ ظ t، ڦ ظ ظ zh، ڦ ظ ظ ظ z، ڦ ظ ظ ظ t، ڦ ظ ظ ظ zh، ڦ ظ ظ ظ ظ z، ڦ ظ ظ ظ ظ t، ڦ ظ ظ ظ ظ zh، ڦ ظ ظ ظ ظ ظ z، ڦ ظ ظ ظ ظ ظ t، ڦ ظ ظ ظ ظ ظ zh، ڦ ظ ظ ظ ظ ظ ظ z، ڦ ظ ظ ظ ظ ظ ظ t، ڦ ظ ظ ظ ظ ظ ظ zh، ڦ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ z، ڦ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ t، ڦ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ zh، ڦ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ z، ڦ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ t، ڦ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ zh، ڦ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ z، ڦ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ؘ f، ڦ ؘ q.

Grammar.

SUBSTANTIVES:—The oblique cases are all formed by adding वि or व् for the singular, and विं or वौं for the plural, before which, a final long vowel is shortened. Thus from राजा, a king, we have राजवि or राजव्, for the Instrumental (or Agent), Dative, Ablative, Genitive and Locative Singular. In the Plural, व्ह is sometimes substituted for विं, thus कानव्ह (38, 2), in (their) ears. The Nominative Plural is usually the same as the Nominative Singular. Postpositions are not often used. We find, however, कव्ह for the Accusative and Dative, सज्व for Instrumental and Ablative, मँच, माँचा, पाँचा, and पद् for the Locative, and others. The following postpositions are found for the Genitive क or के (fem. कट्), कर (fem. करि), केर (fem. केरि). At the end of a line we often have केरा (fem. केरी).

PRONOUNS:—Ist Person; मँ, or वज्व, obl. मोहि or मी, genitive मोर. Plural वम्, &c.

2nd Person: तुँ or तुच्च, obl. तोहि or तो, genitive तोर or तोहर. Plur. तुम्ह, &c.

Demonstrative: वह or उहद्, case of Agent, वेद् or उहद्, obl. ओहि or ओही: Plur., Nom. वह or वेद्, Agent, वेद्, Obl. उह.

Relative: जो, Agent जेद्, Obl. जेहि or जा, Genitive जासु, &c. Plur. जे, जेद्, Agent जेद्, Obl. (including gen.) जिन्ह. जा is never used as an adjective.

So also the Correlative सो or नेद्.

Interrogative: को, who? का what?

Indefinite, कोद् or कोज्, anyone, obl. काहँ. किहु, anything.

<i>Singular.</i>	<i>Plural.</i>
------------------	----------------

VERBS:—*Present:* 1. देखज्व. I see. देखतिं, देखद्.
 2. देखसि, देखहि, देखद्. देखत्त, देखज्व.
 3. देखसि, देखहि, देखद्, देख. देखतिं, देखद्.

The forms in वि and विं are rather rare.

<i>Singular.</i>	<i>Plural.</i>
------------------	----------------

Past: 1. देखेज्व; देखेहिं. 2. देखेसि. 3. देखेसि, देख (देखा) देखेहिं.

From देना, दीनेसि, he gave. So लेना.

<i>Singular.</i>	<i>Plural.</i>
------------------	----------------

Future: 1. देखिहज्व. 2. देखिहद्. 3. देखिहद्. देखिहद्.

देखब, Fem. देखबि, may also be used for all persons of both numbers. From देना, we have, 3rd. sg., दीहद्.

Pres. Part: देखत, Past, देख.

Conj. Part: देखि, देखि कद्. From देना and लेना we have देद् or देद्, and लेद् or लेद्.

The past tense of a neuter verb is thus conjugated.

<i>Singular.</i>	<i>Plural.</i>
1. गृजँ, fem. गद्जँ, I went.	गष्ट, fem. गद्धे.
2. गृज or गा, गद्ज.	Do.
3. गृज or गा, गद्ज.	Do.

The above does not, of course, pretend to be a complete grammar. It is only meant to show the spelling of the principal forms.

The **metre** of the poem consists of stanzas of seven *caupāīs* followed by a *dōhā*. In the latter, a *mātrā* is frequently omitted in the first half. In the *caupāīs*, accent is frequently used instead of quantity, a short accented syllable being treated as a long one, especially at the end of a line. Malik Muḥammad wrote long before Kēcava-dāsa laid down the canons of Hindi metre. Such accented short syllables we have marked, in transliteration with an acute accent, thus,—*niramárē* (2, 3).

TRANSLATION.

CANTO I. THE PREFACE.

(1). I bear in mind that one and only primal Maker, who gave life and made the world. First made He manifest the Light, then made He (for the Light) the mighty mountain Kailāsa.¹ He made the fire, the air, the water, and the dust, and, from them, made He forms² of varied hue. He made the Earth, and Heaven, and Hell; and He made incarnations in many persons.³ He made the mundane egg⁴ with its seven⁵ continents. He made the universe with its fourteen⁶ worlds. He made the sun for the day, and the moon for the night; He made the asterisms and the systems of the stars. He made coolness, sunshine and shade; He made the clouds and lightning (that abideth) in them.

¹ By 'Light,' the poet refers to Mahādēva, who dwells in Kailāsa. Indian Musalmāns frequently consider Adam, the first man, as the same as Mahādēva. The fact that the poet expressly says that Kailāsa was made 'for' the Light, shows that he cannot be referring to light, the first of created things. In the system of the Nānak-panthīs, to which Kabir, from whom Malik Maḥammad borrowed much, originally belonged, the Supreme Being is, in its essence, *jōti* or light, which, though diffused into all creatures, remains distinct from them. The Human Soul is also this light, a *scintilla animæ divinæ*, which has emanated from the absolute, and is itself immortal. See Trumpp, *Ādi Granth*, pp. ci and ff.

² An Urdū gloss translates *urēha* by نقش, design, stamp, drawing. I have noted it also in *asa mūrata kē dāl urēhī*, and in *bhai urēha puhupa saba nāmā*. In the second the Urdū translation gives ظاہر کی and in the latter, the whole line is translated توبہ معلوم ہوتا تھا کہ رنگ پھول ہر قسم کے ہیں. The word is still used in Oudh and Bihār by women, in the sense of *racanā*. It is derived from the Skr. *ullēkha*.

³ Apparently, incarnations in many castes. Alluding to the doctrine that incarnations have occurred in all religions in many parts of the world. Or it may, as the comm. suggests, only refer to the various *avatārs* of Viṣṇu.

⁴ *I. e.*, the universe, alluding to the well known tradition detailed in Manu.

⁵ The seven horizontal divisions of the world, *viz.*, Jambu, Plakṣa or Gōmēdaka, Cālmala, Kuča, Krauñca, Čāka, and Puṣkara.

⁶ There are seven worlds (*lōka*) above, *viz.*, Bhūr-lōka, Bhūvar-l., Svar-l., Mabar-l., Janar-l., Tapar-l., and Satya-l. or Brahma-l., and seven below, *viz.*, A-tala, Vi-tala, Su-tala, Rasā-tala, Talā-tala, Mahā-thla, and Pātāla. According to Musalmāns, there are seven regions (طبق) above (these are heavens), and seven below (earths).

All things are so made by Him, that naught is worthy to be compared with Him. First take I His name, and then in deep thought do I begin¹ my story.

2. He made the seven² shoreless oceans, and He made the mountains of Mēru and Kukhaṇḍa.³ Rivers made He, and streams and springs; crocodiles and fish made He of many kinds. He made the oyster shell, and the pearl which filleth it; He made many flawless gems. Forests made He and roots;⁴ tall trees made He, palmyras and date palms. He made the wild animals⁵ which dwell in the forest; He made the fowl which fly whither they will. He made colours, white and black; He made sleep, and hunger, and rest. He made the betel-leaf and flowers, and the pleasures of taste; many medicines made He and many sicknesses.

He made them in less than the twinkling of an eye; all made He in a single instant. He fixed the Heavens in space without a pillar, and without a prop.

3. He made man, and gave him dominion; He made grain for his food. He made the king who taketh pleasure in his kingdom; He made elephants and horses for his array. He made for him many delights; some made He lords, and others slaves. Wealth made He from which cometh pride; He made longings which none can satisfy. He made life which all men ever desire; He made death, from which none can escape. Happiness made He and myriads of joys; sorrow made He, and care and doubt.⁶ Some made He poor and others rich; He made prosperity and very deep adversity.

Some made He weak, and others strong. From ashes made He all, and again turned He all to ashes.

4. He made agallochum, musk, and the scented *khas* grass; He made the camphors,—*bhimasēni*⁷ and *cēna*.⁸ He made the snake in whose mouth dwelleth poison; He made the snake-charm which carrieth off the bite. He made the Water of Life, which giveth eternal life to him who getteth it; He made the poison, which is death to him who eateth it. He made the sugarcane filled with sweet juice; He made the acrid creeper with its manifold fruit. He made the honey which the bee stores in its home; He made the humble bee, the birds and winged creatures. He made the fox, the rat and the ant; He made many creatures which dig the earth and dwell therein. He made demons, goblins and ghosts; He made ghouls and *Dēvas* and *Daityas*.

¹ Two Urdū glosses translate *augāhi* by عوْش a meaning for which I can find no other authority. It means literally to plunge into water, hence to be immersed in anything, to have the mind fully occupied.

² These encircle the seven continents (*dvīpas*) mentioned in l. 5. Their names are, Lavaṇa (or Kṣāra), Ikṣu, Surā (or Mādya), Ghṛta, Dadhi, Dugdha, Jala. The author, in the description of the seven seas, later on, gives a different enumeration, viz., Khāra, Khira, Dadhi, Jala, Sura, Udadhi, Kilakila.

³ Mēru is the well-known mountain. It represents the northern hemisphere or pole, and is the abode of the Gods. Kukhaṇḍa is Kumēru, the southern hemisphere or pole, the region of the *daityas* or demons. The poet has mixed this up with Kiśkindhā, also to the south of Oudh, and has confounded the two names.

⁴ *Jari* is a root used for medicine, and *māri* is a root used for food.

⁵ *Sāuja* is any animal used for food.

⁶ Two Urdū glosses translate *danda* by مُحَبَّ grief, but the dictionary meaning of the word is enmity (*dwandwa*). Here it means opposition of ideas, doubt.

⁷ The *Bhimasēna-karpūra* of Sanskrit.

⁸ The *Cina-karpūra* of Sanskrit.

He made eighteen thousand creations of varied kinds.¹ For all did He make meet provision, and thus gave food to all.

5. He indeed is a master of wealth, to whom belongeth the universe ; to all He giveth continually, yet His storehouse minisheth not. To every creature in the world, aye, from the elephant even unto the ant, doth He day and night give its share of nourishment. His eye is upon all : none is forgotten, neither foe nor friend ; nor bird nor grasshopper, nor aught whether manifest or hidden is forgotten. He deviseth dainty food of many kinds. All doth He feed thereof, yet eateth not Himself. His meat and His drink is this—that to all He giveth nourishment and life. All have hope in Him at every breath, nor hath He ever (turned) the hope of any to despair.

Æon after æon doth He give, yet never minisheth (His store). Yea, so doth He this with both hands, that whatever hath been given in this world, hath all been given by Him.

6. Let me tell of Him as that great primal king, whose rule is glorious from the beginning to the end of things. Ever all-bounteous doth He rule, and whom He willeth, rule to him He giveth. He maketh umbrellaless him who hath the umbrella of royalty ; and He giveth its shade unto him who is without it; no other is there who is equal unto Him. The people all look as He upturneth the mountains, and maketh the ant (that crawleth from beneath them) equal unto the elephant. Adamant He maketh like unto straw and scattereth it, and again He maketh straw like adamant, and giveth it honour. For one created He food, and enjoyment and all happiness ; another striketh He with beggary and a home of poverty. No one understandeth what He hath done, for He doeth that which is beyond the power of mind and thought.

All else is non-existent.² He alone is ever the same, whose wondrous creations are such as these. He createth one and destroyeth him, and, if He will, He formeth him again.

7. Invisible, formless and untellable is that Creator ; He is one with³ all, and all are one in Him. Whether manifest or hidden, He is all pervading ; but only the righteous recognize Him, and not the sinful. He hath no son nor father nor mother, no family hath He, and no relations. He hath begotten none, nor is He begotten of any; but all created beings proceed from Him. All things, as many as exist, He made ; nor was He made by any one. He was at the beginning, and He is now ; He alone remaineth existent and no one else. All else that are, are mad and blind; for after but two or four days they do their work and die.

Whate'er He willed that He did, He doeth that He willeth to do. No one is there to prevent Him, and, by his mere will, He gave life to all.

8. In this manner know ye Him, and meditate upon Him, for so is

¹ There is no such enumeration of created beings in the works of Musalmān doctors, but, in poetry, both Persian and Hindūstānī, phrases like *hizhdha hazār 'alm*, the eighteen thousand created beings, are of frequent occurrence ;—more especially in the class of works called *maulūd*, which celebrate the Prophet's birth. The expression merely means an enormous quantity, like our 'thousand and one.'

² Urdu gloss بارا، transient.

³ The Urdu gloss translates *baratā* by نزدیک "near," but I know of no authority for this meaning. *Baratā* means *baṭā huā*, twisted as a rope is twisted, hence involved in, closely connected with. Compare Bihāri *Sat'sai*, 59, *dīḍhi barata bādhī aṭani*, twisting their (mutual) glances into a rope, they bind it from balcony to balcony.

the tale written in the holy book.¹ The Lord hath no life, and yet He liveth; He hath no hands, and yet He maketh all things. He hath no tongue, yet He telleth everything; He hath no bodily form, yet that which He shaketh, is shaken. Ears hath He not, yet heareth He all things; Heart hath He not, yet The Wise One discriminateth all things. He hath no eyes, yet all things doth He see; How can anyone discern as He doth? No one hath a form like unto His; nor, like Him, is any one so incomparable. He hath no abiding place, yet He is not without an abiding place (for He is omnipresent). He hath no form nor mark, yet His name is THE PURE.

He is not indiscrete, nor is He discrete, yet so doth He dwell (within the universe), and fill it (with Himself). To those who can see, He is near, but He is far from the foolish blind.

9. The simple-minded knoweth not the secret of the other priceless jewels which He hath given. He hath given us a tongue, and the pleasures of taste; He hath given us teeth, which brighten² a smile. Eyes hath He given us, to see the world; ears hath He given us with which to hear language. He hath given the throat in which dwelleth our speech; He hath given us fingers and noble arms. Graceful feet hath He given us with which we walk; that man knoweth the secret of all these blessings who hath none. Yea, it is the old who know the secret of youth; when they find not their young days though they (go bent forward) seeking them. The great man knoweth not the secret of poverty; but the poor man knoweth it, to whom poverty is come.

It is the sick man who knoweth the secret of the body, while the healthy man liveth careless; but the secrets of all are known to the Lord, who abideth ever in every body.

10. Very immeasurable are the makings of the Maker; no teller can tell them. If (all the writers of) the Universe took the seven heavens³ for paper, and filled the seas⁴ of the earth with ink; if they took as many branches as cover⁵ all the forests in the world, and all the hairs and down (of animals), and all the feathers of birds; if they took the motes of dust and salt where'er they found them, and all the drops in the clouds and all the stars of heaven; and turned them all to pens and wrote, still then they could not write the shoreless ocean of his wondrous works. So hath He manifested all His skill, that even now not one drop of that ocean hath decreased. Think thou of this, and let not pride be in thy heart; for mad is he, who, in his heart, nourisheth pride.

Very full of holiness is the Lord. What He willeth, for Him that quickly is. So full of holiness can He make a man, that that man, himself, performeth countless holy actions.

¹ Urdū gloss for *purāna*, پُرآنہ, the Qur'ān. This is quite possible. It will be seen that Malik Muhammad frequently uses Hindū words as Musalmān technical terms. E. G., *cēlā*, xx, 4.

² Lit., are fit for.

³ The seven Heavens, see note to i, 5.

⁴ The seven seas of Hindu tradition, see ii, 1. The general idea of this verse is taken from the *Kahf* or Cave Sūrah of the Qur'ān. Verse 109 runs 'Say, "were the sea ink for the words of my Lord, the sea would surely fail before the words of my Lord fail; aye, though we brought as much ink again."

⁵ *Bana-dhākhā*, is equivalent to *bana kē dhākhanē-wālē*, (branches) which cover the forest. The subject of all these objects is *sansārū* in the fifth line.

11. Thus, made He one man without a blemish, named Muḥammad, glorious as the full moon. It was his radiancy that God first produced, and then for love of him He created the universe. He kindled that light and gave it to the world. The world became clear, and recognized its (true) way. If that bright man had not been, the dark path would not have been visible. The deity (Muḥammad) wrote the second place (in heaven) for those who learned his creed.¹ For those who have not taken (refuge in) his name throughout his life, God hath prepared a place in hell. God made him His messenger to the world, and whoever hath taken his name passes safely across both worlds.²

God will ask of each his virtues and his vices, (when) there will be the (great) casting up of accounts. But he (Muḥammad) will humbly bend before him, and will effect the salvation of the world.

12. Muḥammad had four friends, who (followed him) in his place, and the four had spotless names in both worlds. ABŪ BAKR ṢIDDĪQ, the Wise, who first truthfully (*ṣidq*) brought the faith (into the world).³ Then ‘UMAR, who adorned the title (of Caliph); justice came to the world when he adopted the faith. Then ‘UŞMĀN, the learned and wise one, who wrote the Qur’ān, as he heard its verses. Fourth came ‘ALĪ, the mighty lion; when he attacked, both heaven and hell quaked. All four had one mind, and one word, one path and one fellowship. Each preached the same true word, which became authoritative, and read in both worlds.

The very *Qur’ān*⁴ which God⁵ sent down (to this world), that holy book they read; and they who (have lost their way) in coming (into the world), when they hear it, find the path.⁶

¹ Lit., teaching. The Urdu gloss gives **اعلم**, the Musalmān creed.

² The *ihalōka* and *paralōka* of the Hindūs. This world and the world to come.

³ Lit., brought.

⁴ Here again we have *purāna* used for the Musalmān sacred book.

⁵ Here *vidhi*, a Hindu technical term.

⁶ Abū Bakr ibn Abī Quhāfa was Muḥammad’s dearest friend and father-in-law, and one of his first converts. He enjoyed immense influence with his fellow citizens of Mecca, and earned by his probity the appellation of ‘as-ṣiddīq,’ ‘The True.’ He accompanied Muḥammad in the Flight, and on his death (632 A.D.) he became the first Caliph. He died 634 A.D.

‘Umar ibn Al-khaṭṭāb was converted in the 6th year of the call (615 A.D.). His conversion carried with it so much weight that the Musalmān traditions relate it with miraculous attendant details. Abū Bakr by his eloquence and address, and ‘Umar by his vigour and promptitude, supplied the want of the practical element in Muḥammad’s character. ‘Umar set the example of public (instead of private) prayer, which was followed by other Muslims. He was the leading spirit of the Emigrants (*muhājira*) who had left Mecca at the time of the Flight, and settled in Medina. He procured the nomination of Abū Bakr to be first Caliph, and, as a matter of course, succeeded him as second Caliph in 634. He was murdered at Medina in 644.

‘Uşmān ibn ‘Affān was one of Muḥammad’s first converts, and married his daughter. He was elected third Caliph on the death of ‘Umar. The Qur’ān was compiled in its present form in his reign. He was killed at the age of eighty-two in 655, in the rebellion which arose in consequence of the movement, the ultimate aim of which was the deposition of ‘Uşmān in favour of ‘Alī.

‘Alī ibn Abū Tālib was Muḥammad’s cousin, and one of his first converts. He followed him to Medina three days after the Flight. He succeeded ‘Uşmān as fourth Caliph in 655, and was murdered in 660 A.D.

The first compilation of the Qur’ān was undertaken by Zāid ibn Ṣābit, who was ap-

13. Shēr Shāh is Sultan of Delhi, who warmeth the whole world¹ even as the sun. His kingdom and throne beseeem him well; low on the earth have all kings laid their brows before him. By caste a Sūr² and with his sword a hero; wise is he and full of all skilfulness. In the nine regions the sun (or all heroes) hath set (or have bent low) before him,³ and the seven continents⁴ of the world have all bowed before him. All his kingdom he won with the might of his sword, as did Alexander, the Zū-l-qarnain.⁵ On his

pointed to the work by the Caliph Abū Bakr at the instigation of ‘Umar. Zāid had been an amanuensis of Muḥammad. This redaction had no canonical authority, and discrepancies in the text soon appeared. Accordingly, ‘Uṣman confided to Zāid and three other Quraishites the preparation of an edition which was to be canonical for all Muslims. This text is the one which is now extant.

¹ *Lit.*, the four quarters. The use of *khanḍa* is uncommon, but it is the only meaning which I can suggest here. An Urdū gloss gives چاروں طرف.

² Here, and in the following stanzas there is a series of puns on the word *sūra*, which is not only the name of the Afghān tribe to which Shēr Shāh belonged, but also means a hero, and the sun.

³ *Lit.* ‘In the nine regions there was a bending of *sūra*,’ where, again, there is a pun on the word *sūra*, ‘hero’ or ‘sun.’ According to the most ancient Hindū Geographers, India was shaped like an eight-petaled lotus. These eight petals, together with the central division, formed the nine *khandas* or regions, *viz.*, Pañcāla (central), Kalinga (S. E.), Avanti (S.), Ānarta (S. W.), Sindhu-Sauvīra (W.), Hārahaura (N. W.), Madra (N.), Kauninda (N. E.). The Purānas give a different list of names, *viz.*, Indra (E.), Kasēru (N.), Tāmrparṇa, (? S.), Gabhastimat, Kumārikā (Central), Nāga, Saumya, Vāruṇa (W.), Gāndharva. See Cunningham’s *Ancient Geography of India*, pp. 5 and 66. The Comm. gives Bhāratā-varṣa, Kinnara-varṣa, Hari-vara, Kuru-varṣa, Hiraṇmaya-varṣa, Ramyaka-varṣa, Bhadrāṇya-varṣa, Kētumālaka-varṣa; and Ilāvṛta; cf. Viṣṇu-Purāṇa, ii, 2.

⁴ See I, 5.

⁵ Zū-l-qarnain, “means ‘The Master of Two Horns.’ Musalmān tradition varies about this name. According to some, the Zū-l-qarnain was not Alexander the Great, but another saint, who lived at the time of Khwāja Khīzr, and who was so called from his having two curls hanging, one from each side of his forehead, or because he reached both sides of the world, or because he was noble by descent from both his parents, or because he went through both the light and dark parts of the world, or because he died when struck on one side of the forehead, and then was restored to life, and again died on being struck on the other side of the forehead, and again came to life.

Beale’s *Oriental Biographical Dictionary* (Ed. Keene), says ‘Master of Two Horns, a title of Alexander the Great, probably based on coins representing him in the character of Ammon.’ Alexander’s coins show his head adorned with two ram’s horns. They were widely current in the East, and the Muḥammadans probably gave him that name after his coins.

The Musalmān idea of Alexander the Great is based upon legends contained in the Qur’ān and its commentaries. Thus, Burton, *Arabian Nights*, night ccclxiv, says, ‘Iskandar (*i. e.*, Alexander) was originally called Marzbān (Lord of the Marches), son of Marzabah, and, though descended from Yūnān, son of Japhet, the eponymus of the Greeks, was born obscure, the son of an old woman. According to the Persians he was the son of the elder Dārāb (Darius Codomannus of the Kayanian or second dynasty), by a daughter of Philip of Macedon; and was brought up by his grandfather. When Abraham and Isaac rebuilt the Ka’abah they foregathered with him, and Allah sent him forth against the four quarters of the earth to convert men to the faith of the Friend or to cut their throats; thus he became one of the four world-conquerors with Nimrod, Solomon, and Bakht al-Nasr (Nabuchodonosor); and he lived down to generations of men. His Wazir was Aristū (the Greek Aristotle), and he carried a couple of flags, white and black, which made day and night for him and facilitated his conquests.’ The Comm. gives a well-known legend about the title given to him in the text. Alexander concealed the fact of his having horns from the public, and it was known only to his barber. One day, owing to sickness, this barber sent

hand is Solomon's ring,¹ and, with it, he gave gifts to the world with full hand. Majestic is he, and a mighty lord of the earth; like a pillar he supporteth the earth and maintaineth the whole universe.

Muhammad blessed him and said, Reign thou from age to age. Thou art the Emperor of the World. The world is a beggar at thy door.

14. I tell of the heroism of this king, Lord of the world, the weight of whose array is greater than the world can bear. When his army full of horsemen advanceth, covering the earth, mountains crash and fly away in powder, night cometh from the clouds of dust which eclipse the sun, so that man and bird alike goeth home to bed. The land taketh flight, and goeth up into the firmament; earth-dust covereth each continent,—yea the world, the

his son Babban Hajjām as his deputy. After the hair-dressing was finished Alexander warned Babban, that if he told any one about the horns he would lose his head. The secret burnt within the wretched man so that he was like to burst, till he relieved his feelings by whispering it to an old Jack-tree. The Jack-tree, unable to tell the secret, withered and died, and a carpenter bought it and made two fiddles and a dram out of the wood. These were bought for a concert at the palace, but when people tried to play them before Alexander, all that one fiddle could be got to say was, *sīg sīg, sīg* (horn, horn, horn), all that the other *kin, kin, kin* (who told? who told? who told?), and all that the drum, *Babban Hajjām, Babban Hajjām, Babban Hajjām*. The secret was thus divulged. Compare the story of Midas. Another well-known legend (referred to in the Padumāwati) is that he made friends with *Khwāja Khizr*, the Green Prophet, (see note to xx, 5) and was guided by him to *Zalmāt*, the Land of Darkness (called the *Kajjalī-ban* by Hindūs), where exists the Fountain of Life. He was, however, unable to drink of this Eternal Spring, and returned disappointed. His unsuccessful quest for the Water of Life has formed the basis of many stock poetical similes.

¹ This is the famous ring with which Solomon 'was wont to imprison Jinns, Marids and Satans in cucurbites of copper, and to stop them with lead and seal them.' It was made of stamped stone and iron, copper and lead. According to others it consisted of four jewels, presented by as many angels, representing the Winds, the Birds, Earth (including sea), and Spirits, and the Gems were inscribed with as many sentences: (1) To Allāh belong Majesty and Might; (2) All created things praise the Lord: (3) Heaven and Earth are Allāh's slaves; and (4) There is no God but the God, and Muhammad is his messenger. This ring gave Solomon power over all supernatural beings, and hence endowed him with unending wealth,—in fact the whole secret of his power lay in it. Solomon conquered the King of Sidon and married his daughter Jizādih. She so incessantly mourned for her father, that Solomon commanded the Jinns to make an image of him to console her, and to this she and her maids used to pay divine honours. To punish him for encouraging this idolatry, a Jinn named *Sakhr* one day obtained possession of the ring which Solomon had entrusted to his concubine Aminah, while he had gone out for a necessary purpose. During his absence the Jinn transformed himself to Solomon's likeness, and came in and took it from her. Solomon also was changed in form and was not recognized by his subjects, and wandered forlorn about the world for forty days (the time during which the image had been worshipped in his house), while the Jinn reigned in his stead. At the end of that period the demon flew away, and flung the ring into the sea, where it was swallowed by a fish, which was afterwards caught and brought to Solomon who by this means recovered his kingdom and power. Solomon then imprisoned *Sakhr* in one of his cucurbites, and cast him into the lake of Tiberias where he still lies. This recovery of a ring by means of a fish is common to many legends. Compare those of Polycrates of Samos and of Çakuntalā.

This *Sakhr* was the Jinn who brought Solomon the throne of Bilkis, the Queen of Sheba. She was a worshipper of the sun, and Solomon converted her to the worship of the true God, by this, and by his wisdom in answering her hard questions. He played one trick on her which is well-known all over the East. He heard that she had legs hairy like a goat, but could not ascertain the truth. So he made her walk over glass underneath which was water with fishes swimming in it. Believing that she had to wade through deep water, she tucked up her petticoats, and revealed to Solomon that the report

whole creation and the universe.¹ The Heavens tremble, and Indra quaketh in fear; the snake-god Vāsuki fleeth and hideth himself in the lowest Hell.² Meru sinketh down, the oceans dry up, the forests break and are mingled with the dust. (When his army marcheth to a halting place) some of his advance-guard may receive a share of water and of grass for their horses, but for none of his rear-guard is there even sufficient mud.

Citadels which have never bowed to anyone, when he advanceth all become dust,—when the Lord of the World, Shér Shāh, the Sun of the Universe attacketh them.

15. I tell of his justice,³ how it is upon the earth. Not even to a crawling ant doth anyone (dare to) give pain. Naushirwān⁴ was called ‘The Just,’ but even he was not equal to the justice of Shér Shāh. He did justice like unto ‘Umar,⁵ for the shout of praise to him was (heard over) the whole world. No one dareth even to touch a nose-ring lying fallen on the ground, (much less to pick it up and appropriate it). On the very highways do men cast about gold (yet no one snatcheth it). The cow⁶ and the tiger walk together on the same road, and both drink water together at the same landing-ford. He straineth milk and water (mixed together) in his court, and separateth the one from the other. He marcheth with piety, justice and sincerity, and the weak and the mighty he keepeth on even terms.

The whole earth blesseth him, folding its hands continually, and crying, May that head endure immortal as long as there is water in the Ganges and the Jamunā.

16. Again, how can I describe his comeliness, for all the world desireth the beauty of his countenance. His comeliness surpasseth in brightness even the full moon which God created. Sin abandoneth those who reverently gaze upon him, and the whole world maketh obeisance and blesseth him. As when the sun blazeth over the world, so, before him, all things hide their comeliness (in shame). Thus did the Sun⁷ become a spotless man, with ten times more⁸ beauty than the sun itself. No one can look upon him face to face, and if anyone see him, he remaineth with bent head. His comeliness

was true. Solomon begat a son upon her, who the Abyssinians say was Menelek, the founder of their royal race. She was not a very estimable character before her conversion. Sa'lābī, in his History of the Prophets, gives an entertaining account of her wrong doings. She introduced the worship of the sun into her dominion, and when she was married to her first husband against her will, she treacherously slew him on her wedding night. It required a mighty man like Solomon to tame so independent a young person. Much of this note is taken from Burton's Arabian Nights, and from Palmer's translation of the Qur'ān.

¹ The ✓ *mand* has two meanings, either ‘to adorn’ (*mandana*) or ‘to crush,’ (*marda-na*). The passage here is corrupt in all MSS., and the reading is very doubtful.

² See note to line 5 of the first stanza.

³ This reference to Shér Shāh's justice (*adal*) may have a complimentary reference to his son ‘Adal. See *J. A. S. B.*, Pt. I, 1890, p. 167.

⁴ The celebrated king of Persia, surnamed ‘Ādil, or the Just. He ascended the throne 531 A.D. He was the Chosroes of the Greeks. Muḥammad (B. 571) used to boast of his good fortune in being born when so just a king reigned. He died 579 A.D.

⁵ The second Caliph in succession to Muḥammad. See note to 12, 9.

⁶ *Gōru* is properly any domesticated herbivorous animal.

⁷ Here again the word *sūra* is introduced with a threefold meaning, hero, sun and proper name.

⁸ *Agari* means ‘excellent.’

increaseth by a quarter, day by day, the Creator formed his beauty above the world.

Comely is he with a jewelled (tiara) on his brow, and the moon waneth as he waxeth; while the earth, craving to see him, standeth and humbly offereth its praises.

17. Again God hath made him so greatly generous, that none in the world hath ever given gifts like unto him. Bali¹ and Vikramāditya² were famed for their generosity, and Hātim Tāē³ and Karna⁴ were described as lavish; but none of them equalleth Shēr Shāh, for the very ocean and even Mount Mēru, are ever minishing (as they give up their jewels and gold). The kettle-drum of his generosity soundeth at his court, and the fame thereof hath gone even across the ocean. The world touched this Sun,⁵ and became of gold compact, so that poverty fled and went beyond the borders of his kingdom. He who but once approacheth him and asketh, for all his life is free from hunger and from nakedness. Even that (King of old) who performed ten horse-sacrifices,⁶—even he gave not holy gifts like him.

So generous hath Sultan Shēr Shāh been born upon the world, that none hath e'er been like him, or will be, nor doth anyone give such gifts.

¹ The well-known Daitya, who gave Viśu his famous three and a half paces of ground.

² 'Claram et venerabile nomen.' The well-known king of Avanti, many legends of whose generosity are given in the Simhāsana Battisi.

³ Familiar to readers of the Bāgh-o-Bahār (story of the second Darwēsh). His liberality continued after his death. His tomb was surrounded by stone images of girls, which each night used to burst out into lamentations for so good a man. King Zū-l-karā'a camping near there one night, hearing the wailing, asked the reason, and was told it was the tomb of Hātim Tāē. He then cried out in jest, 'O Hātim Tāē, we are thy guests, and hungry.' Shortly afterwards one of his camels became violently ill and (as they say in Ireland) to prevent its dying, they killed it, and then, to make the best of a bad job, had a good feast on its flesh. Next day, while they were on the march, they were met by Hātim's son bringing a she-camel. He explained that his father had appeared to him on the preceding night, and said 'Zū-l-karā'a sought hospitality from me last night, and I had nothing to give him; so perforce I killed his camel, and do thou now give him one in exchange for the one I took.' History does not relate how the son appreciated his father's vicarious hospitality, but he certainly did accept the responsibility.

⁴ The famous Hero of the Mahābhārata. The son of Kuntī by Sūrya. He was famous for his generosity. Yudhiṣṭhīra once asked Kṛṣṇa, who was the most generous member of his family. To his mortification Kṛṣṇa replied 'Karṇa.' The following is an example. A poor Brāhmaṇ woman had a child born to her, and her husband went to Yudhiṣṭhīra and begged for some wood to make a fire to warm her. Yudhiṣṭhīra ordered his steward to supply the fuel, but on the latter reporting that there was none just then available, he told the Brāhmaṇ to go away, and to come again in an hour or two, when he could be supplied. The Brāhmaṇ went on to Karṇa and made a similar request. It happened that, here too, the supply of fire-wood was temporarily deficient, and the steward asked Karṇa to tell the man to come again in an hour or two (as Yudhiṣṭhīra had done). 'Fool,' replied Karṇa, 'shall I leave the poor woman to die of cold, while you are searching for fuel? Break up my beds till the Brāhmaṇ has enough wood for to-day, and tell him to come to-morrow for more.' 'This,' said Kṛṣṇa to Yudhiṣṭhīra, 'is the difference between you and Karṇa. Had you no beds to break up?' The above legend is sung by the Vyāsas at the passage 'in Mahā-bhārata where Karṇa divested himself of the ear-rings and armour (with which he had been born), and gave them to Indra, (See Mahā-bhārata, Ādi-parvata, Adhyāya 67, Ķloka 141-143).

⁵ Again the triple pun on the word *sūra*. Shēr Shāh is compared to a philosopher's stone which changed all that touched it into gold.

⁶ This is a reference to Brahmā, who completed ten Aṣṭva-mēdhā sacrifices at Benares. The site of the Sacrifice is the well-known Daṇḍaṣṭva-mēdhā ghāṭ in that city.

18. Saiyad Ashraf (*Jahāngīr*)¹ was an elect saint, and he it was who threw light upon my path. He lit the lamp of love within my heart; the light burned up, and my heart became pure. My way had been dark and invisible, and lo! it became bright and I understood. He cast my sins into the salt ocean, and making me as his disciple took me into the boat of virtue. He grasped my rudder firmly,² and I reached the landing place on the far bank. If a man hath such a steersman,³ he grasps him and bringeth to the other side. He is a protector, and one who succoureth in time of trouble, and, where (the water) is fathomless, there giveth he his hand.

His family title was *Jahāngīr*, pure like the moon. He was the Holy Master of the World, and I am the slave of his house.

19. In his house was a spotless jewel, Hājī Shaikh by name, fulfilled with good fortune. In his house were two bright lights, whom God created to show the way. Shaikh Mubārak glorious as a full moon, and Shaikh Kāmāl spotless in the world. Both were stedfast, unmoveable like pole-stars, exalted even above *Mēru* and *Kukhaṇḍa*.⁴ God gave them beauty and glory, and made them pillars of the world. On these two pillars supported He the earth, and under their weight the universe remained firm. Whoever saw them and reverently touched their feet, his sins were lost and his body became pure.

O Muḥammad, there is the road secure, where a saintly teacher beareth company. O my soul, when he hath a boat and a rower, a man quickly gaineth the other side.

20. Muḥīu-d-dīn was my preceptor, my steersman, and I served him. He crosseth speedily who hath him upon the ferry. Before him was Shaikh Burhān, who brought him on the path and gave him knowledge. His spiritual guide was the good Alhadād, who in the world was a light and beauteous in the faith. He was a disciple of Saiyad Muḥammad and even perfected men enjoyed⁵ his fellowship. To him did Dāniyāl point out the path,—Dāniyāl, who consorted with Hazrat Khwāja Khizr.⁶ The Hazrat Khwāja was please-

¹ Saiyad Ashraf was one of the founders of the line of spiritual preceptors, whose representative in the first half of the 16th century (*Muḥīu-d-dīn*) taught the poet. For full particulars see note to stanza 20.

² This is a difficult passage. *Kariā* is the same as *kaḍī*, an iron ring, or a beam, hence a rudder. Either meaning will do here. Other MSS., and printed editions have *unha mora kara būdata kai gāhā*, he grasped my hand as I was sinking. *Pōḍhi kui* means 'firmly.'

³ *Kanahāra* or *kanadhāra* is the Sanskrit *karṇadhāra*.

⁴ See line 1 of the second stanza.

⁵ Lit. sported in his company.

⁶ Khwāja Khizr, the Green Prophet, is a well-known figure in Muhammadan legends. He has been identified by some with Elijah and by others with St. George. He is said to be still living, and sometimes aids travellers who have lost their way. As stated in the note to xiii, 5, he conducted Alexander the Great to the Land of Darkness, when the latter was searching for the Water of Life. He usually appears on horseback, dressed in green (hence his name). In India he is looked upon as a saint not only by Musalmāns but also by Hindūs. Lāl Bēgī Mihtār pay him divine reverence. Their first pīr is Jesus, the Lord of the Wand, their second Khwāja Khizr, the Master of the Water-cup, their third Muḥammad, the Great Interceder, and their fourth Lāl Bēg, the man of the Wild-flowing Tresses (see Greeven, *Knights of the Broom*, 45). Temple's *Legends of the Panjab* are full of references to him. He is, in India more especially a water-god, or the god of the Flood. Under his special protection is the well at Safidam in the Jīnd state, which contains the Water of Life. Musalmān traditions make him out to have been a true believer in the Islām of his day and to have been Wazir of Kai Qubād (6th century

ed with him, and brought him (as a disciple) to Saiyad Rājī Hāmid Shāh. From him (Muḥiu-d-din) did I win all my (good) deeds. My tongue was loosened,¹² and, a poet, (I learned to) tell my tale.¹³

He was my master and I his disciple, evermore do I bow before him as his slave. Through him did I obtain a sight of the Creator.

B. C.), the founder of the second or Kayanian dynasty of the kings of Persia, and ninth in ascent before the Darius, who was conquered by Alexander. In the text, all that is meant is that Khwāja Khizr appeared to Dāniyāl, and performed his customary office of guide.

¹² Lit. uncovered.

¹³ The following account of Malik Muḥammad's spiritual ancestors is taken partly from what the poet himself tells us, and partly from the Urdū gloss and other sources

He belonged to the *Cishtiyā Nizāmiyā*, that is to say he belonged to the spiritual descent which took its name from the celebrated Niẓāmu-d-din Auliyā, the teacher of Amīr Khusrō, who died about 1325 A. D. His disciple was Sirāju-d-dīn, whose disciple was Shaikh Alāu-l-haqq. 'Alāu-l-haqq's son and disciple Shaikh Nūr Qutb 'Ālam, the date of whose death is usually given as 1444 A.D. Chronologists, however, vary as to this; some say A. H. 808, i.e., A. D. 1405, others A. H. 813, i.e., A. D. 1410, others A. H. 818, i.e., A. D. 1415, others A. H. 848, i.e., A. D. 1444, and others again A. H. 851, i.e., A. D. 1447. Mr. Beveridge in J. A. S. B. Ixiv, Pt. I, 207, considers A. H. 818, A. D. 1415, as the true date. He lived at Paṇḍuā in Māldah, and another disciple was Saiyad Ashraf Jahāngīr (see 18, 1.) Ashraf's most famous disciple was Shaikh Hājī, whose disciples were Shaikh Mubārak, and Shaikh Kamāl. Shaikh Nūr Qutb 'Ālam and Saiyad Ashraf Jahāngīr were fellow disciples (*pīr bhāī*) and from them eighth in descent came Malik Muḥammad (Fl. 1540 A. D.)

The full genealogical table is as follows:—

↓
Niẓāmu-d-dīn (d. 1325 A. D.)
↓
Sirāju-d-dīn.
↓
Shaikh Alāu-l-haqq.

Shaikh Nūr Qutb 'Ālam of Paṇḍuā, and Saiyad Ashraf Jahāngīr (*vide* xviii, 1), (son of preceding.)

<p style="text-align: center;">↓ Shaikh Hashāmu-d-dīn of Mānikpur. ↓ Saiyad Rājī Hāmid Shāh. ↓ Shaikh Dāniyāl (d. 1486 A. D.). ↓ Saiyad Muḥammad. ↓ Shaikh Alhadād. ↓ Shaikh Burhān. ↓ Saiyad Muḥiu-d-dīn (<i>vide</i> xx, 1). ↓ Malik Muḥammad, (1540 A. D.)</p>	<p style="text-align: center;">↓ Shaikh Hājī. ↓ Shaikh Mubārak and ↓ Shaikh Kamāl.</p>
---	--

From this it follows that the poet was not an actual disciple of Saiyad Ashraf Jahāngīr, as might be assumed from xviii, 1 and ff. Malik Muḥammad merely refers to him and praises him as his spiritual ancestor. A tradition makes him the poet's *mantra-guru*, while Muḥiu-d-dīn was his *vidyā-guru*, i.e., the one initiated him, and the other taught him, which agrees with Malik Muḥammad's own language. Shaikh Dāriyāl, the fifth in the line before the poet, appears to have claimed to have had for a friend Khwāja Khizr, who introduced him to his preceptor, Saiyad Rājī Hāmid Shāh. Shaikh Burhān, Malik Muḥammad's spiritual grandfather resided at Kūlpī in Bundelkhand, and is said to have died at 100 years of age in A. H. 970, or A. D. 1562-63. See Rep. Arch. Sur. Ind. xxi, 131.

21. Muḥammad was skilful, though he had but one eye,¹ and every poet who heard him was entranced. Even as God created the moon for the universe, so He put a dark spot upon her, while He made her bright. With that one eye the poet saw the whole world,² shining bright like Venus brilliant among the other stars.³ Until there come black spots upon a mango-fruit, it bath no fragrant scent. God made the water of the ocean salt, but nevertheless He made it immeasurably boundless. Mount Mēru was destroyed by the trident, and then it became a mountain of gold,⁴ and reached to heaven. Till black firestains defile the crucible (the ore) remaineth unsmelted, and becometh not pure gold.

The poet hath but one eye, but it is (bright) as a mirror, and that mirror's nature is pure. (Though he is uncomely), all that are beautiful clasp his feet, and with desire look upon his face.

As the prophet Muḥammad (see xii, 1) had four friends, so also had the poet Malik Muḥammad. He tells us their names were Malik Yūsuf, Salār Ḫādim, Miyā Salōnē and Shaikh Baḍē. Concerning these, see the introduction to this edition, and xxii, 1 and ff.

The Urdū gloss concludes (we insert dates and other particulars in parentheses). Those who consider that Ḥazrat 'Abdu-l-Qādir Jilānī (b. 1078, d. 1166) (God's mercy be upon him) is descended from Saiyad Muḥīu-d-dīn, and that Saiyad Rājū Qattāl (d. 1403) is descended from Saiyad Rājī, are far from being in the right. It is clear that the line of Qadariyās is descended from Ḥazrat 'Abdu-l-Qādir Jilānī. His preceptor was Ḥazrat Abū Saiyad.

'Saiyad Rājū Qattāl was full brother of Ḥazrat Saiyad Jalālu-d-dīn of Bukhārā (who was known as Makhdūm Jahāniyān Jahān (Gasht Shaikh Jalāl), and was his disciple). He was a Suharwardiyā by sect.

'Another disciple of Ḥazrat Niẓāmu-d-dīn (the founder of Malik Muḥammad's line) was Shaikh Ruknu-d-dīn Abū-l-fath Ma'āṣir (fl. 1310), who was also disciple of his own father Shaikh Ṣadru-d-dīn (Ārif, d. 1309). This last was disciple of his father Shaikh Bahāu-d-dīn Zikariyā (d. 1266) of Mu'lānā, who was disciple of Shaikh Shahābu-d-dīn (Suhrwardiyā, d. 1234), who travelled from city to city as missionary (peace be upon him).'

Makhdūm Jahāniyān was a disciple of Ruknu-d-dīn abovementioned. The Suhrwardiyās form a branch of the followers of the qūfi sect, and are named from Suhrward, a town near Bagdad, the birth place of the founder Shahābu-d-dīn above mentioned.

¹ According to tradition this was the result of an attack of small-pox, which not only destroyed the sight of one eye, but dreadfully disfigured his features. It is said that some Rājā once saw him, and loudly scoffed at his ugly face, not knowing who he was. Therenpon the poet said, 'scoffest thou at me, or at the Potter who fashioned me?' Struck by his reply, the Rājā repented, and became his disciple. The poet still, however thanks God for all His mercies, and points out that every great and good thing in Nature has some detraction.

² That is to say other folk with two eyes can see but a short way, but the poet's single eye 'in a fine frenzy rolling, can glance from heav'n to earth and earth to heav'n.'

³ Çukra, the regent of the planet Venus, had but one eye. He lost it this way. He was guru of the demon Bali, who gave Viṣṇu, in his dwarf-incarnation, the famous three and a half steps of ground. Çukra, to prevent the success of Viṣṇu's stratagem, came and hid in a water-vessel. When, at the time of making the formal gift, water refused to flow from the vessel, Viṣṇu, under pretence of clearing out the spout with a stick, pierced Çukra's right eye.

⁴ According to tradition, mountains had once wings, and used to fly about. When they alighted after flight, they used to crush people under their weight, so Indra cut off their wings with his thunderbolts. The first to suffer amputation was Sumēru. It was a mountain of gold (Viṣṇu-purāṇa, ii, 2). The poet has substituted Çiva's trident (*triçūla*) for Indra's thunderbolt (*vajra*). This confusion between Çiva and Indra is constant throughout the poem.

22. The Poet Muḥammad¹ had four friends, and by gaining their friendship he raised himself to equality with them. One was Malik Yūsuf, the learned and wise, who first of all knew the secret meaning of words. The next was Salār Khādim, the discreet, whose arms were ever raised either in (wielding) the sword or in (distributing) gifts. The third was Miyañ Salōnē, a lion amidst unsurpassed heroes, a fighter with the sword in the battle-field. The fourth was Shaikh Badē, famed as a sage. Yea, even sages thought themselves honoured by performing his commands.² All four were learned in the fourteen³ branches of knowledge, and God himself created their association (with the poet). Let a tree but dwell near a sandal-grove, and let but the odour of the sandal permeate it, and, lo, it becometh sandal-wood itself.

Muḥammad, when he had found these four friends, became of one soul with them. When he hath accomplished their companionship in this world, how can they be separated in the next?

23. The city Jāyas is a holy spot: there came the poet and told his lay. There humbly waited he upon Hindū scholars, and prayed them⁴ to correct and mend the broken (metre) and arrangement (of his song). I am a follower of poets, and I go forward saying my say, and beating the drum with the drum-stick to proclaim it.⁵ My heart is a treasure-house, and it holdeth a store of precious stones. I made my tongue the key of my palate and opened it. I spake words,—jewels, and rubies; sweet, filled with the wine of love, and priceless. He who is wounded by the words of love,⁶—What is hunger or sleep or shade to him? He changeth his appearance, and becometh a hermit, like a jewel covered and hidden in the dust.

O Muḥammad, the body which love bath, hath neither blood nor flesh. Whoever seeth the face of such a man laugheth, but when the lover heareth the laughter tears come (into his eyes).⁷

24. It was the year 947 (of the Hijra),⁸ when the poet began to tell this tale in words. Of Ceylon and Queen Padmāvatī, whom Ratna-sēna brought to Citaур castle; of ‘Alāu-d-din, the Sultān of Delhi, and how Rāghava-caitanya told him of her. How the Emperor heard, and besieged the castle, and how there arose the war between the Hindūs and the

¹ So also had the Prophet Muḥammad, see 12, 1. Regarding these four men, see introductory remarks.

² Adēsa also means the initiation of a cēlā, or disciple, by a guru, or spiritual preceptor.

³ The 4 Vēdas, the 6 Vēdāngas, the Purāṇas, the Mīmāṁsā, the Nyāya, and Dharma.

⁴ Bhajā or Bhājā, is equivalent to bhrājā, i.e., prakāṣita kiā, ‘made manifest;’ hence ‘presented’ a petition.

⁵ Dāgā is a drum-stick. The poet means that he is impelled to publish his lay by beat of drum, so to speak, i.e., as loudly as possible, in order that other poets and learned men may hear it, and correct his mistakes. A simpler rendering is obtained by amending the text to kichu kahi calata bōla dei dāgā, ‘saying my say, I progress, setting down the feet of language;’ in which language is metaphorically compared to a foot, or step (dāgā).

⁶ Here we have the first instance of the poet’s use of the word biraha. He uses it to mean love, especially unhappy love. In countless places it cannot possibly have the usual meaning of ‘separation from a beloved one.’ Ghāyā is translated in the Urdu Gloss by گھایا! ‘full of.’ We can find no authority for this.

⁷ The worldly imagine the distraught lover to be mad, and laugh at him. He, on the other hand, knowing that no jewel is so precious as the love which he has conceived, weeps at their madness.

⁸ 1540 A.D.

Musalmāns. From beginning to end, just as the story runs, so wrote he it in the language of the people, and told it in verse. The poet, the bard,¹ and the lotus full of nectar, are near to what is far and far from what is near. That which is near is yet far, like the flower and the thorn (so near and yet so different), and that which is far is near, like sugar and the ants (who dwell so far from it, yet find it out).

So the bee² cometh from the (distant) forest, and findeth the odour of the lotus-nectar, while the frog ne'er findeth the odour, though he dwelleth (in the pond) close to (the flower).

CANTO II.

SIMHALA.

25. Now sing I the tale of Simhala-dvipa,³ and tell of the Perfect Woman.⁴ My description is like an excellent mirror, in which each form is seen as it really is. Happy is that land where the women are lights,⁵ and where God created that (famous) Padmini (Padmāvatī). All people tell of seven lands, but none is fit to compare with Simhala. The Diyā-land⁶ (or land of lamps) is not so bright as it. The land of Saran⁷ cannot bear comparison with it. I say that Jambū-land⁸ is nowhere like it, and that Lankā-land cannot even fill (the excellence of) its reflection. The land of Kumbhasthala⁹ fled to the forest (before it), but the land of

¹ *Kabi* is one who makes poems, *biāsa* (*vyāsa*) is one who recites them.

² *I.e.*, a prophet has no honour in his own country. The author means that he is aware that his own country-folk, and his own people (the Musalmāns) will not care for his poem, for it is in a Hindū dialect and not in Urdū; but, on the other hand men of distant lands and of other religions (the Hindūs) will be attracted by it, as the bee is attracted by the distant lotus. There is a tradition that Malik Muḥammad commenced the composition of the poem in his own village, where it was not thought much of. One of his disciples wandered to Jāyas and began to sing there the particular canto (Nāgmāti's song of the twelve months), which he had been taught. The Rājā of Jāyas was so pleased with what he heard, especially with the *dohā* commencing *kawāla jo bigasata mānasara, binu jala gaeu sukhāi*, that he invited Malik Muḥammad to his city, and encouraged him to complete the work.

³ Ceylon. The word *dvīpa* means both island and continent.

⁴ A Padmini is one of the four classes of women and is supremely the best. The Singhalese women are all supposed to be Padminis, *omne ignotum pro mirifico*.

⁵ Here there is a pun on the word (*dipa* = *dvīpa*), a continent or island, and *dipaka*, a light.

⁶ The poet now proceeds to compare Simhala, not with the seven continents of tradition, referred to in line 4, and catalogued in the note to stanza i, 5, but with half-a-dozen imaginary continents named after parts of the human body. *Diyā-dipa*, the land of lights, means the land of fair women's eyes. *Sarana-dipa* (*çravaṇa-dipa*) means the land of their ears. *Jambū-dipa*, Rose-apple-land, is the land of their raven hair, to which the black rose-apple is often compared. *Layka-dipa*, is the land of waists. *Kumbha-sthala*, jar land, is the land of their rounded breasts; a. v. l. is *gabha-sthala* (*garbha-sthala*) the land of wombs; and finally *mahu-sthala* (*madhu-sthala*), is the land of secret parts. Under this highly figurative language the poet signifies that the women of Simhala surpassed all these imaginary lands, each in its own peculiar excellence.

⁷ The poet does not seem to be aware that *Sarana-dipa* (*Saran-dip*, Serendib) is actually Ceylon itself. Here, as pointed out above, the words also mean 'ear-land.'

⁸ Hindūstān, or bosom-land.

⁹ Or perhaps Gabbasthala, one of the nine divisions of Bhārata-varṣa (India); here used as equivalent to *garbha-sthala*, the land of wombs. The forest whither the bosoms fled is, of course, the necklaces, bodices, &c., under which they lay concealed.

Mahusthala¹ had destroyed mankind (and how therefore can I compare it with Simhala-dvipa).

In the whole universe, in the world are seven lands, but none of them is excellent beside the land of Simhala.

26. Gandharva-sēna was a fragrant² prince, He was its king, and that was his dominion. I have heard of King Rāvaṇa in Laṅkā;³ greater even than his was his majesty. Fifty-six times ten millions formed his battle-array, and over all were princes and commanders of forts. Sixteen thousand horses were in his stalls, black-eared and gallant steeds.⁴ Seven thousand Singhalese elephants had he, each like the mighty Airāvata⁵ of Kailāsa.⁶ He is called the crown of lords of steeds, and with his goad he causeth to bow low the elephants of lords of elephants. Over lords of men I call him a second Indra, and in the world I also call him the Indra⁷ of the lords of earth.

So universal⁸ a monarch was he, that all the earth feared him. All men came and bowed their heads before him, no one dared to emulate him.

27. When a man approacheth this land, 'tis as though he approacheth Kailāsa the mount of heaven. Dense mango-groves lie on every side, rising from the earth to the very sky. Each tall tree exhaleth the odours of mount Malaya,⁹ and the shade covereth the world as though it were the night. The shade is pleasant with its Malaya-breeze; e'en in the fiery month of Jyēṣṭha¹⁰ 'tis cool amidst it. It is as though night cometh from that shade, and as though from it cometh the greenness of the sky.¹¹ When the wayfarer cometh thither, suffering from the heat, he forgetteth his trouble in his blissful rest, and whoso hath found this perfect shade, returneth ne'er again to bear the sun-rays.

So many and so dense are these groves, that I cannot tell their end. The whole six seasons of the year¹² do they flower and fruit, as though it were always spring.

28. The pleasant thick mango groves bear fruit, and the more fruit they bear, the more (humbly) do the trees bow their heads. On the

¹ Or Mēwasthila.

² There is here an alliteration between Gandharva, and *Gandha*, scent. Some of the MSS. have *Sēni* for *Sēna* throughout the poem. This would lead one to restore the word to the Sanskrit *Sainya*, or *Cyēna* (सैन्य = A hawk, used like *Simha*) were there not a strong tradition in favour of *Sēna*.

³ The identification of Laṅkā with Ceylon is a very modern idea, e. g., Varāha-mihira, *Bṛhat-saṁhitā*, xiv, 11, 15, mentions Laṅkā and Simhala as different countries.

⁴ *Cyāma-karna*, black-eared, is a technical name for a horse. It is the kind used in sacrifices. *Tukhēra* means 'horse.'

⁵ The name of Indra's elephant.

⁶ Civa's heaven. Here taken for Indra's heaven, Indra-puri.

⁷ Here Indra is referred to in two aspects. First he is the mighty king of the lower gods, and hence supreme over lords of men; and secondly he is the storm-god giving refreshing showers to the earth, and hence an object of worship to everyone who lives by cultivation.

⁸ *Cakkawai*=*Cakravartī*.

⁹ The Western Ghauts (*ghāṭs*), famous for their growth of sandal trees.

¹⁰ The hottest month in the year, May-June, with its pitiless burning blue-grey sky.

¹¹ This is an example of the rhetorical figure *utprēkṣā*, or Poetical Fancy, with the word expressing comparison omitted. The poet fancifully states that this shade is so dark, that from it is produced all night, while the green shade of the sky is its reflection.

¹² Hindūs divide the year into six seasons of two months each.

main branches and trunks¹ of the jack trees, the jack fruit ripen, and fair appeareth the barhal² to him who looketh. The khirni³ ripeneth, sweet as molasses, and the black wild plum,⁴ like black bees (among its leaves). Cocoanuts ripen and ripeneth the khurhur;⁵ they ripen as though the orchards were in Indra's heaven. From the Mahuā⁶ doth such sweetness exude, that honey is its flavour, and flowers its scent; and in these princes' gardens are other fruits, good to eat whose names I know not. They all appear with nectar-like branches, and he who once tasteth them remaineth ever longing for more.

Areca⁷ and nutmeg, all fruits, are produced there luxuriantly. On every side are thick groves of tamarinds, of palmyras, and of date-palms.

29. There dwell the birds, singing in many tongues, and sporting joyfully as they look upon these nectar-branches. At dawn the honey-suckers are fragrant, and the turtle-dove cries out 'tis thou and only thou.'⁸ The emerald-parroquets⁹ sportively rejoice, and the rock-pigeons cry *kurkur*, and fly about. The hawk-cuckoo¹⁰ crieth for its beloved, and the skulking warbler shouteth *tūhī khī*. *Kuhū kuhū* ever crieth the cuckoo, while the king-crow¹¹ speaketh in many tongues. 'Tyre, tyre' crieth the milkmaid-bird,¹² while the green pigeon¹³ plaintively telleth its tale of woe. The peacock's cry *kūl kūl* soundeth sweet to the ear, and loudly caw the crows.

Filling the orchards, sitteth every bird that hath a name, and each praiseth the Creator in his own tongue.

30. At every step one cometh upon a well or reservoir,¹⁴ adorned with seats and steps. Many are the springs scattered about, one named after every holy place of pilgrimage. Around them are built convents and temples, where devotees sit in austerity and mutter prayer. Here are great saints,¹⁵ Sannyāsins, devotees of Rāma, and Māsavāsins; Māhēçvaras,

¹ The jack fruit grows only on the stems and main branches of the trees, not on the younger shoots.

² *Artocarpus lakoocha*, Roxb., A sweet-acid fruit, yellowish red and nearly round.

³ *Mimusops hexandra*, Roxb.

⁴ *Eugenia jambolana*, L.

⁵ *Ficus cunia*, Ham.

⁶ *Bassia latifolia*, Roxb.

⁷ *Guā* and *sūpārī* are varieties of the areca or betel nut.

⁸ Its cry is *ēka-i tū-hī*, 'one alone, only thou.'

⁹ The *sārau* is a bright green parroquet.

¹⁰ The *Papīhā* or Hawk-cuckoo, (*Hierococcyx varius*, Vahl) is not a sparrow-hawk as the dictionaries say. Its cry is *piu piu*, 'beloved, beloved.' The ordinary native tradition is that it says *pī kahā* 'where is my beloved.' It is the 'Brain-fever bird' of Anglo-Indians.

¹¹ The *Bhrīgaka* or Racket-tailed Drongo (*Dissemurus paradiseus*, L.), is not a sparrow-hawk, as the dictionaries say. It is a sort of king-crow, it is an excellent talking-bird.

¹² The *mahārī* is said to be a bird like the *māhōkhā* (*cuculus costancus*, Roxb.), but smaller. Its cry is *dahī, dahī*, 'tyre, tyre,' and hence it is also known as *gwālinī* or *ahirinī* i.e. milkmaid.

¹³ The cry of the *hāril* or green pigeon (*crocopus phoenicopterus*, Latham) is *hā hāri gaī* 'alas I have lost.' It lives in the various fig trees of India. It is said never to rest on the ground. When it descends to drink, it sucks up water, from a short distance aloft, through a straw. When it dies, it falls to the ground with its feet in the air, rather than allow them to touch earth.

¹⁴ A *bāwari* is a large masonry well with steps leading down to the water.

¹⁵ Many of the sects mentioned in this list are described in Wilson's *Religious Sects of the Hindūs*. The Commentary also gives a full account of them. *Sannyāsins* (W. p 32) consider themselves dead to the world and go through a funeral ceremony in their life

Jangamas, Yatins, worshippers of the left-hand and of the right-hand Dēvī. There are Brahmācārins, and there are Digambaras to whom it seemeth good to go naked. There are Santas, Siddhas, Yōgins, and Pessimists seated on the path of hopelessness.

Sēvarās, and the like, Vāna-prasthas, Siddhi-sādhakas, are all seated there, mortifying their earthly frames.

31. What can be compared to the water of the Mānasarōdaka lake, full as the sea and as unfathomless? Its water clear as spotless pearls, like ambrosia scented with camphor. From the isle of Laṅkā have they brought the lapis lazuli,¹ and with it built the landing stages. On each side have been made

time. They lay aside the brahmanical cord and carry a staff (*danda*) which they never lay upon the ground, and which they consider as a witness of all their actions. They are hence also called *Dandins* (W. 143, 191). Rāma-yatins are Vaiṣṇava mendicants, who worship Rāma, like the Vairāgins of Ayōdhya. Māsa-vāsins, are those who abide for a month in one place, and then wander on. Māhēśvaras are mendicants who cover themselves with ashes, and adopt the traditional appearance of Āśva, whom they worship. Jayyamas (W. 219) are ever on the move. They usually worship Vīra-bhadra, who destroyed Dakṣa's famous sacrifice. This legend is a favourite subject of sculpture at Elephanta and Ellora. As regards Yatins see W. 317. They are Jains who have taken orders. Dēvī is the object of worship of the vāma, or left-hand Čāktas, and Satī of the *dakṣina* or right hand ones. See W. 240, 254, 250. A Brahmācārin is a religious student, living under the supervision of his spiritual preceptor (W. 237). Digambaras are naked vagrants, such as *Paramahāṁsas*, *Nāgās* and the like. Some Vaiṣṇava sects call themselves *Digambaras*, but wear white clothes. Jainas are divided into *Digambaras* (naked) and *Çvētāmbaras* (white-dressed) (W. p. 276). Santas are merely religious people generally. Siddhas are Yōgins who have arrived at supreme perfection (adepts). They have eight supernatural powers (*siddhi*), viz., *anīmā*, the power of becoming infinitely small, *mahimā*, that of becoming infinitely great, *laghimā*, of becoming infinitely light, *garimā*, of becoming infinitely heavy, *prāpti* of reaching infinitely far, *prākāmya*, of obtaining at once whatever is desired, *īcātu*, of infinite sovereignty, *vacītu*, of infinite power of subjection. Yōgins are Āśva mendicants claiming spiritual descent from Gōrākṣa-nātha. They claim the power of acquiring, even in life, entire command over elementary matter by means of certain ascetic practices (W. 205). An adept Yōgin (or Jōgi) is a Siddha above described. Readers of the poem will have much to do with Yōgins, for king Ratna-sēna and his followers become such. A Viyōgin is a pessimist, soured by unhappy love. Viyōga, lit., dis-union, in this poem is specially used to mean the condition of a lover who is separated from his beloved. Sēvaras (the word is a corruption of the Sanskrit *Çabara*) go about in troops, with matted hair, and red-ochre-coloured garments. They call themselves Āśivas. To mark their triumph over sensual desires, they affix an iron ring and chain to the male organ, which they also mutilate. Wilson (236) calls them *Karū Liygins*. They extort money by pretended miracles, such as wringing Ganges-water out of their dry matted hair. Khēwaras are a sub-variety of the Sēvara's. They carry skulls. One of their tricks is to turn spirituous liquor into milk, and then to drink it. Another is to rub the palms of their apparently empty hands together, till they bring forth Wheat, Gram, and the like. The name is a fanciful one, derived from Sēvara. A Vāna-prasha is a Brāhmaṇa of the third order who has retired from domestic life to the forest. A Siddhi-sādhaka is the same as a Siddha. An *Avadhūta* is a man who has shaken off restraint. Thus Rāmānanda called his Vaiṣṇava disciples *Avadhūta*, because they had shaken off the ties of caste and personal distinction. So Āśva mendicants, such as *Paramahāṁsas* who go about naked are *Avadhūtas*. Each of these ascetics is represented as mortifying his *bhūtātman* or body considered as composed of grosser elements, into which it must ultimately be dissolved. The five grosser elements are earth, water, fire, air and ether. Hence *pañcatra*, or the condition of being five, is used to mean death. By mortifying these elements, the soul acquires ultimate release from the round of transmigration.

¹ The lapis lazuli is the stone of Laṅka. It is popularly supposed to be the conglomerate ashes of that city after it was burnt by Rāma, the gold spots in it being the reliquaries of the ornaments which were burnt at the same time.

winding steps on which the folk ascend and descend on all sides. The lotuses bloom there beautifully scarlet, with their clusters of thousands upon thousands of petals.¹ The swans overturn the shells, from which pearls fall out, which they pick up and sport as they do so. Beautiful swim these golden birds,² looking as it were statues cast in gold.

Above around lie the banks, with ambrosial fruit on every tree. He who hath but once seen the fairness of these lakes, loseth for aye both thirst and hunger.

32. The maidens come to draw the water, each in form and figure a Padmini.³ Their limbs are odorous of the lotus (*padma*), and the black bees hover round them as they come. Waisted like lionesses, and with eyes like lotuses,⁴ swan-like in their motions, sweet-voiced as the cuckoo. In numbers they come, row upon row, charming the eye with varied gaits. Over their moon-faces shine their golden jars,⁵ as, in joy and sport, they come and go. Struck, as it were by a dagger, by her coquettish eyes, is he on whom the glance of one of them is fallen. The black cloud of her hair falleth from her head to her feet, from behind which flasheth the lightning of her teeth.

Like images of the God of Love⁶ are these nymphs⁷ of matchless charm. If these water-maidens are so beauteous, how lovely must be their queen!

33. To tell of the lakes and lakelets is more than I can do. So broad are they that vision cannot cross them. How many are the lilies that bloom there, like stars risen in the sky. The clouds come down to them, drink their water and ascend, while within the fish (carried up into the air) gleam like lightning. Happily with each other swim the feathered fowl upon the surface, white are they and yellow, and red of varied hue. There sport the ruddy goose and his mate, whose lot it is to wake the night apart, and meet by day.⁸ There joyfully sporteth the Indian crane, (remembering that, not like the ruddy goose) he liveth and dieth in the company (of his spouse).⁹ There are the lotus, the gold crane,¹⁰ the stork, and the *lēdi*,¹¹ and countless fishes piercing the waves.

There, in those lakes, lie priceless jewels, shining, e'en by day, like lamps; and he who diveth therein, findeth the pearl-oyster.

34. On every side are ambrosial gardens, filled with perfect fruit, and carefully watched. There are the fresh coloured¹² lime and the pretty orange-citron, the almond, and figs of various kinds. Elephant lemons

¹ The excellence of a lotus depends on the number of its petals.

² The Golden Swan.

³ The best of the four classes of women. The *Padminī*, *Citrinī*, *Gāykhinī*, and *Hastinī*. In a later portion of the poem, Rāghava-caitanya, describes them to 'Alāu-d-dīn.'

⁴ *Sārāga* is like Mark Twain's *zug*. It may mean almost anything. Here it means a lotus or a deer.

⁵ The sun is often compared to a golden jar.

⁶ *Maina* = Madana = Kāma-dēva.

⁷ Acharī = apsaras.

⁸ The fable about the *cak'wā* and *cakaī* is one of the commonplaces of Indian poetry.

⁹ The legend is that a pair of these birds cannot bear to be separated. If one dies, the other dies also.

¹⁰ A fish-eating bird which I have not identified. It is the *Ardea sibirica*, the same as the *sīras* above translated by Indian crane.

¹¹ Not identified. It is a fish-eating bird.

¹² Or perhaps *nau-rāga* may be for *naraygi* orange.

and citrons are ever ripe, and the glowing oranges are full of juice. Raisins¹ and apples with fresh leaves, pomegranates and vines delight the sight. Pleasant appeareth the Indian gooseberry, and the clusters of plantains are humbly bent (by their excessive weight). There fruit the mulberry, the averrhoa, and the red currant, the corinda, the jujube and the cirōnji-nut.² There is the sorrel,³ and the date, and other edible fruits both sweet and sour.

They lead the water from the wells through irrigation channels with many a dam,⁴ and with the pulleys of the Persian wheel, water they the black currants.

35. Again, all around are flower-gardens, with trees imbued with sandal-odour. There bloometh the ghana-valli,⁵ with its many blossoms, the fragrant screw-pine, the fragrant yellow-flowered campaka,⁶ and the Indian and Arabian jasmines.⁷ Beauteous are the basilis, the kudums,⁸ and the kūjā-roses,⁹ and scented are the Abelias, which only king Gaudharva offered at the time of worship. The rose-chesnut, the marigold, the jasmine and the weeping-nyctanthes are in these gardens. The oleaster and the dog-rose bloom, the rūpa-mañjari,¹¹ and the clove-scented aganosma.¹² There do men plant bunches¹³ of the Spanish and of the Indian jasmine, and the flowers of the roseapple lend their charm. The maulasiri¹⁴ creeper and the citron, all these bloom in varied hues.

Blessed and fortunate is the man whose head is crowned with these flowers. Fragrant do they ever remain, like spring and its (fragrant) festival.

36. When a man seeth Simhala's city, and how it is inhabited, he crieth 'Blessed is the king whose kingdom is so fair.' High are the gates, high are the palaces, high as Kailāsa¹⁵ the abode of Indra. In every house each one, great or small, is happy, each one appeareth with a smiling face. They build their sitting platforms with sandal, and plaster them with aloes, *mēdā*¹⁶ and saffron. Each pavilion hath its pillars of sandal, and therein sitteth, reclining, a lord with his councillors. Fair is the sight, as a council of the gods, as though a man gazed on the city of Indra. All the councillors are experient, wise, and learned, and all the words they utter are in the Sanskrit tongue.

Fairies build the roads, so that the city is bright as the heaven of Civa, and in every house are fair Padminis, whose beauty enchanteth the vision.

¹ The poet does not seem to be aware that raisins are dried grapes.

² *Buchanania latifolia*, Roxb. Its kernels are eaten like almonds.

³ The *Gaykha-drava*.

⁴ See *Bihār Peasant Life*, § 919.

⁵ The dictionaries give *Ghana-valli* as a synonym of *Amṛta-sava*. The latter they say is 'a certain plant.' Dr. G. King suggests that it is probably the *Tinospora cordifolia*, Miers. Its blossoms are small in size, but numerous, as the poet says.

⁶ *Michelia champaca*, L.

⁷ *Jasminum pubescens*, Willd. (*kundā*), and the *jasminum sambac*, Ait. (*camēlī*).

⁸ *Anthocephalus cadamba*, Miq.

⁹ *Kūjā* is a kind of rose, *Rosa Brunoniana*, Lind.

¹⁰ *Abelia triflora*, Br.

¹¹ Not identified.

¹² *Aganosma caryophyllata*, Don.

¹³ *Bakucā* means a bundle or a bunch, and *bakucanha* is its obl. plur.

¹⁴ *Mimusops elengi*, L.

¹⁵ Again, Civa's heaven is confused with Indra's.

¹⁶ A root like ginger.

37. Again I saw the markets of the city, all stocked with the prosperity of the nine treasures.¹ The golden markets are plastered with saffron, where sit the great merchants of the isle of Simhala. They cast the silver and hammer out the ornaments, and carve out images in countless shapes. Gold and silver lie abundantly scattered about, and the house-doors are hung with glistening curtains. Jewels and gems,² rubies and pearls, set in the doors, give forth a fine sheen, and the shops are filled with camphor, scented khas grass, musk, sandal and wood of aloes. What gain would any market be to him who bought not here?

Some there are who buy, and some who sell. Some come there and make a profit, some come there and lose their capital.

38. Again the mart of beauty³ is a prosperous place, where sit the painted courtezans,—their lips red with the betel leaf, and their forms hidden 'neath safflower-coloured veils. From their ears hang jewel-studded earrings; with lute in hand they entrance the very deer. Who heareth their songs becometh enchanted, nor can he move his feet. Their brows are bows, their eyes are skilful archers, and, sharpening them on the whetstones of their glances, they discharge their arrows. On their cheeks swing pendant curls as they smile, and men's lives take they with each side look that they throw. The twin bosoms 'neath the bodice are two dice which they cast as it were upon the game-board,⁴ as each, in her (wanton) nature, letteth her bosom-cloth slip aside. Many a gambler hath lost the game with them, and, wringing his hand,⁵ hath gone away with broken heart.

Magic use they to captivate the heart, so long as the purse-knot in the swain's waistband is not untied. When once it is untied, beggared doth he wander forth and take the road, for no more do they recognize him or allow him to resort unto them.

39. There sit the flower-girls with flowers and their neatly arranged rows of betel unsurpassed. The perfume sellers sit with their goods, tying plenteous camphor and catechu.⁶ Here, are learned men reading holy books, and telling the people of the path of virtue. There, are others reciting stories, and elsewhere men dance and leap. Here, buffoons bring their sights, and there, puppet-showmen make their dolls to dance. Here, is the sweet sound of singing, and there, actors and magicians show their skill. Here some practise the lore of thags, and there (other villains) drug men, and drive them mad.

¹ The nine mystic treasures of Kuvēra, the God of wealth. They are named *Padma*, *Mahāpadma*, *Gaykha*, *Makara*, *Kacchapa*, *Mukunda*, *Nanda*, *Nīla* and *Kharba*. It is not at all clear what they are. They are possibly auriferous ores. See, however, Wilson's translation of the *Mēgha-dūta*, note to v. 534.

² *Padāratha*, a gem, usually means, in this poem, a ruby (لُؤلُؤ), but here it is evidently used in its general sense.

³ The Courtezans' quarter.

⁴ *Caupār* or *sāra* is a game very like backgammon. As in that game, a man by itself is a blot, and can be taken up by the opponent. When two men of the same player come together on the same place, it is called *juga*, i. e., the blot is covered, and the move is a decidedly winning one. The game is played with dice as in backgammon.

⁵ When a gambler is bankrupt, it is etiquette for him to wring his hands to show that they are empty.

⁶ *Khiraurī* are pills of catechu wrapped up with other spices in betel leaf for chewing.

Agile thieves, knaves, robbers^{*} and pick-pockets all are there and dance their dance; and only the pockets of those escape, who are wide awake, and look ahead in this bazār.

40. And then a man approacheth Simhala's fort; how can I describe what seemeth to reach to the sky? Below, it reacheth down to Vāsuki's¹ back; above, it gazeth upon Indra's heaven. Surrounded is it by a deep and zigzag moat, so deep that no one dareth to peep (over its edge) or his limbs will tremble. Impassible, deeper than one can see, its very sight causeth fear. Who falleth therein, down down to the seven Hells will he go. Nine crooked gate-ways hath the fort, and nine stories. Who climbeth the nine will approach (the limit of) the mundane egg.² The golden bastions are studded with glass, and look like lightning filled with stars. That castle seemeth taller than that of Laṅkā, and wearieth the sight and soul that gazeth on it.

The heart cannot contain it. The sight cannot grasp it. It standeth upright like Mount Sumeru. How far can I describe its height? How far shall I tell of its circumference?

41. The sun and moon (cannot go over it but) make a circuit round it, or else the steeds and their chariots would be broken into dust.³ The nine gate-ways are fortified with adamant, and a thousand thousand foot soldiers sit at each. Five captains of the guard⁴ go round their watch, and the gate-ways tremble at the trampling of their feet. At each gateway of the fort is a molten image of a lion, filling the hearts of kings with fear. With great ingenuity were these lions cast, in attitude as if roaring and about to leap upon thy head. With lolling tongue they lash their tails. Elephants are filled with terror at them, lest they should fall upon them with a roar. A staircase fashioned of gold and lapis-lazuli, leadeth up into the castle, which shineth above, up to the very sky.

The nine stories, have nine portals, each with its adamantine gates. Four days' journey is it to the top, to him who climbeth honestly (without gainsay).

42. Above the nine portals is the tenth doorway, at which ring the hours of the royal water-clock⁵. There sit the watchers and count the hours, watch by watch, each in his own turn. As the clock filleth he striketh the gong and 'the hour, the hour,' it calleth forth. As the blow falleth, it warneth the whole world. 'Ye earthen vessels,' it crieth, 'why sleep ye void of care?

¹ King of the serpents. He lives in hell.

² The universe, shaped like an egg.

³ In the preceding stanza, the poet has compared the fort with Sumēru, the central mountain peak round which the heavenly bodies revolve. He now carries the simile further.

⁴ In the esoteric meaning of the poem, this city means the human body. The nine gates are the nine openings of the body, the mouth, the eyes, the ears, the nostrils, and the excretory organs. The five guardians are the five vital airs, the *prāṇa*, the air expired, up-wards, *apāna*, that expired downwards, *samāna*, that which circulates round the navel and is essential for digestion, *vyāna*, that which is diffused through the body, and *udāna*, that which rises up the throat and passes into the head. The adamantine gates are the bones, the warriors are the downy hairs of the body, and the King is the soul.

⁵ A kind of clepsydra. It is an empty bowl of a fixed weight and specific gravity, with a hole of a fixed size in its bottom. It is set floating in a larger vessel, gradually fills, and sinks after the lapse of a *ghārī* or twenty-four minutes. A gong is then struck. On the expiry of each *pahara* (of eight *ghārī*) a chime (*gajara*) is rung.

Ye are but soft clay, still mounted on the Potter's wheel. Still whirl ye round (in the circle of existence) nor can ye remain steadfast. As the clock is fulfilled, your life diminisheth. Tell me, why sleepest thou secure, O wayfarer? Yea, watch by watch, the chimes ring forth, yet your hearts are careless, and no soul awakeneth.'

Saith Muhammad, Life is but the filling of water, as in a clock or in a Persian-wheel. The hour cometh, and life is filled. Then it is poured forth, and all man's days are gone.

43. In the fort are two rivers, the Nira and the Khīra, each endless in its flow like unto (the store of) Draupadi.¹ Also there is a spring which is built of crushed pearls, whose water is nectar, and whose mud is camphor. Only the king drinketh its waters, which give him continual youth so long as he liveth. By it is a golden tree, like unto the wishing tree in Indra's palace.² Deep down to hell go its roots, and up to heaven go its branches. So life-giving a tree, who can reach it? Who can taste it? Its leaves are like the moon, and its flowers like the stars, so that by it is the whole city illumined. Some by austerities obtain its fruit, and eating it in old age obtain renewed youth.

Kings have made themselves beggars when they heard of its ambrosial delights. For he who hath obtained it becometh immortal, nor suffereth pain or disease.

44. Above the fort dwell only captains of castles, captains of horses, captains of elephants, captains of land, captains of men. All their palaces are decked out with gold, and each is as a king in his own house. Handsome wealthy, and fortunate, their very portals are overlaid with philosophers' stones. Ever enjoying happiness and magnificence³ no one ever knoweth what is sorrow or care in his life. In every palace is there the game of *cāupār*,⁴ and there the princes sit and play upon the boards. They throw the dice, and fine is the game, each without an equal in his sword and in his generosity. Bards sing of glorious deeds, and receive as their gift elephants and horses of Simhala.

In every palace is a garden, odorous of perfumes and of sandal. There night and day is it spring, through all the six seasons and through all the twelve months.

45. Again went I forward and saw the royal gateway; (so great a crowd surroundeth it that) a man might wander round and round and not find the door. At the gate are tied elephants of Simhala, standing upright like unto living mountains. Some of them are white or yellow or bay; others sorrel or black as smoke. Of every hue are they, like clouds in the sky, and there they sit like pillars of that sky. My tale is of Simhali elephants of Simhala, each one mightier than the other. Mountains and hills can they thrust aside; trees do they root up, and shake, and thrust into

¹ From their names we may assume that one flowed with water and the other with milk. According to the Mahābhārata (Vana-p.. 3. 72-74). Draupadi, the wife of the five Pāṇḍavas was a model housewife. No matter how little she cooked, it was always exactly enough to satisfy her five husbands, and it was impossible to empty her store room. As soon as she had eaten her meal, after her husbands, the store room was found empty for the time being.

² Again Indra's heaven, Amarāvatī, is confused with Cīva's.

³ Bhōga means pleasures of the senses, vilāsa external magnificence.

⁴ See verse xxxvi. The board on which the game is played is called *sāra*.

their mouths. *Must* ones, wild with fury, bellow in their bonds, and night and day their drivers sit upon their shoulders.

The earth cannot bear their weight; as they put down their feet it trembleth. The shell of the mundane tortoise cracketh, the hood of the serpent of eternity is split,¹ as these elephants proceed.

46. Again, there are fastened horses at the king's gate, but how can I tell the glory of their colours? The paces of the iron-grey, the dun, are famous in the world. The bay with black points,² the jet,³ and the dark-brown,⁴ do I tell of. I tell of the sorrel, the dark bay,⁵ the liver chestnut of many kinds, the strawberry roan, the white, and the yellow-maned⁶ in rows. Spirited horses were they, fiery, and graceful; eagerly curveting, they rear without urging. Swifter than thought, shake they their reins, and snort and raise their heads to heaven. As they hear their riders' voices they run upon the sea. Their feet sink not, and across they go. Stand still they cannot; in rage champ they their bits; they lash their tails, and throw up their heads.

Such appear the horses, like the charioteers of thought. In the twinkle of an eye do they arrive where their rider would have them go.⁷

47. I saw the royal-council seated there, and like Indra's council did it seem. Blessed is the king who hath such a council, which is glorious like unto a blooming garden.⁸ There sit the princes with diadems on their heads,⁹ each with an army whose drums loudly sound. Comely is each with jewels shining on his brow, as he sitteth on the throne with sunshade o'er his head. 'Tis as though the lotuses of a lake have flowered, so entrancing is that council. It is filled with fragrant odours of betel, of camphor, of *mēda*¹⁰ and of musk. Throned on high, in the midst sitteth king Gandharva-sēna.

His sunshade reacheth to the sky; and as he giveth forth heat like the sun, the lōtuses of his council all do bloom at the might of his countenance.

48. The king's palace is mighty as Kailāsa,¹¹ of gold throughout from floor to roof. Seven stories high is it, only such a king could build it. The bricks are diamonds, and the mortar camphor; adorned with precious stones is it built up to heaven. Each painted design that is there designed, is marked out with jewels of each kind of colour. Varied are the carving and the sculptures arranged in rows. Rubies shine along the pillars which, e'en

¹ It is on these that the universe is supported.

² The *hāsul* is a bay (*kumēt*) with black feet.

³ The *bhawār* or *mushkā* is black.

⁴ The *kuāh* is described as of the colour of the ripe fruit of the palmyra palm.

⁵ The *kurāgg* is the same as the *nilā kumēt*.

⁶ The *bulāh* (Skr. *vollāha*) is a horse with light yellow mane and tail.

⁷ The names of these various kinds of horses has presented some difficulty. We have consulted many kind friends, more experienced in the veterinary lore of England and India than we are. For the curious in such matters, we may refer to the Sanskrit book on Veterinary Surgery, the *Aṣva-vaidyaka* of Jayāditya, quoted in the Commentary.

⁸ The poet alludes to the brilliant effect of the many-coloured garments of the courtiers.

⁹ That is to say they did not venture to remove their head-dresses in the presence of Gandharva-sēna. They were great, but he was greater.

¹⁰ *Mēda* comes from the Nēpāl Tarū. It is a well known fragrant medicament — a root of cooling properties.

¹¹ Civa's heaven. Here probably, as usual, confused with Indra's.

by day, blaze like luminants. The very sun, moon and stars hide themselves before the glory of the palace.

As we have heard tales of the seven heavens,¹ so were arranged the seven stories, each separately, one above the other.

49. I would tell of the women's quarter of the palace, like Kailāsa² filled with nymphs. Sixteen thousand queens, all Padminīs,³ are there, each more beauteous than the other. Very lovely are they and very tender, living on betel and on flowers. Above them all is Queen Campāvatī, the chief queen of exquisite loveliness. She sitteth upon her throne in all her grace, reverenced by all the queens. Ever varying in her moods and brilliant is she,—in her first prime,⁴ without a rival. Chosen from all lands was she, amongst them all a perfect sun.⁵

Maidens with all the thirty-two⁶ points of excellence are there, and amongst them all is she matchless. Every one in Simhala telleth the tale of her beauty.

¹ See v. i, 5.

² Again, it is Indra's heaven, not Civa's which is filled with houris.

³ See v. xxv, p. 1.

⁴ According to Hindu rhetoricians heroines are of three kinds, the *mugdhā* or the Artless, the *madhyā* or the Adolescent, and the *praudhā* or *pragalbhā*, the Mature, perfect in form, and experient in all the arts of love. Campāvatī was a *praudhā*.

⁵ The 12 kinds, refer to the twelve digits (*kalā*) of the sun. She was the sun in all its twelve digits, i.e., complete.

⁶ The thirty-two points of a woman will be found described in the commentary. Some of them will not bear translation into English.

CRITICAL NOTES.

1. 2. *Kinhesi*, so apparently Ib, which seems to vocalize the final *s*. The word may, however, be also read *kinhesa* for *kinhesa*. The other copies in the Persian character simply have كينهسي, which which may be read either *kinhesi*, *kinhasa*, or *kinhesa*. Is and K have *kinhegi* for *kinhesi*. U has *kinhasa*. Throughout the poem a short *e* is inserted to form the past tense. Thus *dēkhasi*, he sees; *dēkhesi*, he saw. Ia *tinhahi prīti kabilāsū*, Ibc *parabata kabilāsū*, Id *parabata kailāsū*, Is *tēhi priti ka bilasū*, U *tihī parabata ka bilāsū*. In the Persian character بيلاسو and پريت and پريت and بيلاسو are easily confused. In each case it is a question of a dot. There can be no doubt about the form *kabilāsū* for *kailāsū* being right. The word is of frequent occurrence in the poem and is invariably spelt thus in the best MSS. It is a curious corruption, and has puzzled all copyists with Sanskrit predilections. 3. Ib has *pawana agini*, K *agni pauna*, Is *bahutai*, UK *bahutē*, P give no clue. 4. Is *awatārū*.

5. Ia *kinhesi sapata dīpa brahamāṇḍā*
 Ib " " *lōga* "
 Ic " *sāta saraga* "
 Id " (illegible)? *sēta pēta mahi bhanḍā*
 Is *kinhesi sata sata brahamāṇḍā* (sic)
 U *kinhasa sata saraga*
 K *kinhesi* " *dīpa* "

Two printed editions follow Ia, except having *mahi* instead of *dīpa*, Ia is adopted as making the best sense. 6. Ib *duniara*, U *dinakara*, K *duniā*. Printed editions *dinēsa*. 7. Is *kinhesi sita ghāma*. 8. Id *kinhasi saba asa*. Ias *dusarahi*, U *dusarahu*. 9. Ia *tā kara nāū*, K *karatā kai nāū lei*, Ia *kathā kahaū*, Id هاچ, Is *arigāhū*, printed editions and K *wragāhu*.

2. 1. *Sāta-u*, so Ib, Ia U K have *hēma* (U reverses the order of the two hemistichs), Is *hīwa*, Ic *sātō* with *hēma* as a v. l. on margin. Id *sāta* (also Rām Jasan), Ic? *bāwara*; مکھد (Sanskrit **किञ्चित्** for **त्रुष्णे**) evidently puzzled the Nāgarī transcribers. Is has *khanḍa* *khanḍa*, U *kinhasa parabata mēru apārā*. The P copies are undecided between *khikhinda* and *khikhinḍa*. The former is probably the correct reading. 2. K *mācha*, 3. U *wahu bhārē*, K *jehi bhālē*, *niramālē*. 5. U *rāhai*, *cāhai*, N *uḍai*. 7. U *phūla au*, Id K *aukhadha*. 8. Ia *gogana antarīcha*, Ic *gagana antarīka*, Ib *khābha*, U *lagai*, *rākhai*. K *nimiki*, *karata tehi sabhai kīnha chana ēka*. Ias have *ohi*, Ibcd U *wahi*.

3. The order of these sets of *caupāis* is different in different copies. The above is the order of Iab U K, Icd begin 4, 3, and then go on as above. Is begins 15, 16, and then 3, 4, &c., like Ia. 1. Icd *dihesi badāī*; Iac *tehi pāī*, Id *tehi khāī*, Is *tinha jāī*. 2. Ib *bahu sājū*, Ic *tehi sājū*. 3. Iac U K *bilāsū*, U K *kou* for *koi*. 4. Iacs U *jehi hoi*. 5. Id transposes 11. 5 and 6. Is *jīu sadā sukha*, U *jīyana sadā tinhā* K *jīwa sadā saba*, U *kōū*. 6. Id U *kōtī*, Is *bahu dandū*; Id *dhandū*, U K *anandā*, *dandā*. 7. U *kou*, Ia *ati ghāni*, Id K *puni ghāni*, Is *sāga ghāni*, U *jū ghāni*. 8. U *kou* for *koi*. 9. Iacd *chārahi*, Is *tinha chāra*, K *bakuri kīnha saba*.

4. Icds *bhīwāsēni*, U *bhīmasainiyā*. 2. P *mukha*, which spoils the metre. 3. Id makes this line the sixth, Is *amīya*, Ibd *jiuna jehi*, Ibd *tehi*, Iads U K *pāē*, *khāē*. 4. K *karui nīmi jō phāri*. 5. K *lāvai jo mākkī*, Icd K *bhawāra patāga*, Is *bhawāra nāga*. 6. Ia K *indura*, Icd doubtful, Ibs N clearly *undura*, Iacd *rahāhī*. 7. So Iacd K, Ibs *kinhasi rākasa dēwa daētā*, *kinhasi bhōkasa bhūta parētā*, U similar except . . . *dēwa dayantā*, . . . *bhūta parantā*. 9. Icd K *dihisa*, Ib U *sabahī*.

5. 1. Ias U *ohi*, K *dhanaita hai jehi kē san°*; Is U *kā*; P *have ka*; Iad *sabai*, J *nahi ghaṭai*. 3. K *sabhanha*, U *kou*. 4. Is puts verse 4 after verse 5, U *paragaṭi gupati*. 5.

Ib *kharwāwai*, U *āpuni khāī*, K *āpuna khāī*, P might also be read thus. 6. K *uhai*, Iads *sō khāī*, Ic *sabahi bhuguti dēī au jianā*; Is K *sabahi dēī*, U *saba kahā dēī*. 7. Ia *sabahī so tā kari hērai āsā* | ohi na *kāhu*, &c. Is *hari sāsa*, ohi, U *sabai, tā kara, sāsā*, ohi na *kāhu kī āsa*, K *sabhai āsa tā kari hari phēri* | ohi *nahi āsa ahai kehu kēri*|| 8. Iac *ghaṭata*, U K *ghaṭai*, U *ubhai, tasi*. 9. Id *jo dēta*, U K *dēī*, K *sabha tā kara*.

6. 1. Id *ādi ēka baranaū sō rējā*; K *ādi anādi karata jehi chājā*. 2. Ibcd *karāī, dāī* Iacs K *jehi, tehi*. Ibcd *achata*, Is *chatrahi achata nachatrahi*, U *nichatriya*, K *chatra nichatra nichatrihi*; K *dōsara kōi na sarabari*. 4. Is *dēkha*, U K *dēkhu*, P give no clue a third person singular seems required by the sense, Is *lōgā, jōgā*, Is *cīhihi*, Ib *karahi*. U *sājōgū*. 5. Iac K *trina, trinaki*, U *uḍhāī, tinhai bajara kī dēī baḍhāī*, K *tōri u(?)a dāī*, 6. *kāhū bhākha bhīkha dukha*, Ia *bhīkha (?) bahuta*, U *dukha bhārā*, K *bhauna bhīkha dukha bhārā*. 7. Ibs K *karai so jō mana cintā nu hōī*, Ia *karai so jō mana cintā hōī*; K *karai sōi jo ohi mana hōī*. 8. U *asthirā* (which makes the metre right), Ias U *jehi*, K *tehi*. 9. U *aru bhājai*, K *tehi bhāī*.

7. 1. Id reverses the order of ll. 1 and 2. U *baranaū sō*, Ib *saba ohi saū waha saba mahā baratā*, K *oha saba sō saba mō waha baratā*, Is *has saū*. 2. Is K *jo saraba*, U *paragaṭa guputi*, Ia *cīnha na cīnhata*, Id *cīnha na cīnhē*. 3. Ia *na ohi sāga*, Id *na koī sāghātā*, U *na kou sāghātā*. 4. Ic *na koi wahi jānā*, Is *na waha koi jānā*, U *na kou wē jānā*, K *ō kī sirajānā*. 5. Ias reverse order of ll. 5 and 6, K *waha saba*, Ib *wahu na kīnha*, Is *oha kīnha*, K *unha na kīnha*. 6. Ia *hutā so pahilahi sō hai sōi*, Is *au hai aba sōi*, K *hutā pahilahi aba hai sōi* Ic *sō puni rahai rahai na na kōī*, U *sō puni*, K *rahai rahihi nahi kōī*. 7. Ia *auru jo hōī*, U *aura kahai sō*, K *aura je rahai se bāī*, Ia *marahī kai*, K *marai kari*. 8. U *jō wai cāhas, kīnhasi*, K *jō oha cāha so kīnhasi*, Iak *karahī*, U *karahi ju cāhahi kīnha*. 9. U *na kāū*, Ic *U sabai cāhi*, K *sabhai oahahi*, U *jiya*.

8. 1. Id *cīnha jo*, K *cētahu*, Ib *purāna mē*, Is *giānā, bakhānā*. 2. Icds *jiu nāhī*, K *jīa nāhī* or *jia nāhī*, Ia *kara nāhī pai sabahi karāhī*, Is *karai sawāī*, U *karahī sumāī*, K *karai sahurāī*? 3. Ia reverses the order of ll. 3 and 4, Ib *jo dolāwe so dōlā*, Id *jo dolāwahī dōlā*. 4. Ic reverses the order of ll. 4 and 5, Is *has sūnā, gūnā*, Ia U *hiyā nāhī*, Id *hiyā nāhī pai guna saba gūnā*, U *guninā*. 5. Ic U K *bhātī so jāī*. 6. Ib *nā koi āhi na ohi kē rūpā*, Ic om. this line. Ias om. *hoi*, U *nā kou hai ohi*, K *na kōi hōi hai ohi*, Ia *nā kāhū asa rūpa anūpā*, Id *nā ohi kā asa taisa anūpā*, Is *nā oha kāhu asa taisa sarūpā*, U *nā kōū asa taisa anūpā*, K *na oha kāhu asa rūpa anūpā*; possibly Ia fits in best with the rest of the passage. 7. K *na binu ohi ṭhāū*, Ic *rūpa rēkha nāhī*, K *niraguṇa nāū*. 8. Ic K *nā hai milā na bichurā*, U *nā hai milā na waiharā*. 9. U *andhi murakhi kahā dūri*, Ibid *mūrakhi*.

9. 1. Ic *puni jō dīnhesi ratana amūlā*, Is *sabahi jo dīnhesi*, U *dīnhasi*, K *jānahi* Throughout, Is K have *dīnhesi* and U *dīnhasi*, cf. I. 2, n 2. Is *bihāsī*, U *bihāsē*, K *dasana bihasi* *mukha jōgū*, Iab *lōgū* for *jōgū*. 4. Iac U *jehi māhā*, U *tihī māhā*, Ic reverses the order of ll. 4 and 5. 5. Iads *sōi jānā jehi dīnhesi nāhī*, K *sōi pai marama janai jehi nāhī*. 6. Id *jānā hōī*, Is *jānā hōī*, K *jōbana marama na jānai mūḍhāī*, Ia *milā nāhī tarunāpā ḍhūḍhā*, Ic *saba ḍhūḍhā*, K *cahai ne tarunāpā cāhai ḍhūḍhā* (sic), Is *has mūḍhē* and *ḍhūḍhē*. 7. Id *sukha kara marama*, this makes better sense, and is also the reading of Rām Jasan, K *jehi kē dūkhā bāī*. 8. K *bhōgi rahai anacinta*. 9. Ib *saba kara marama jānu karatā*, K, *ghaṭa raha ninta*.

10. 1. Ib *karatā kē karanā*, K *karatā kai karanā*, Iad *barani na kōi pāwai baranā*, Ic *barani na pāru kāhu kai baranā*, Is *barani na koi jō pārāi karanā*, U *barani na jāī āhi bahu baranā*, K *barani na kāhu parai jo baranā*. 2. Ib *saraga sāta*, Ia *sāta saraga kāgada jaū kāī*, Ic *kāgada hūī*, Is K *jaū kāgada*, Ic *hūī* for *bharaī*, K *dharati sāta saraga ma°*, U *has karahi, bharahi*. 3. Ic makes this line the sixth, Ib transposes ll. 3 and 4, Ib *rōma*, U *jāwāta kēsa rōma au pākhā*. 4. Ia *rēha khēha*, Icd U *khēha rēha duniyāī*, Ib *būna*, K *nakhata tardī*. 5. U *likhai sansārā*, Ic *ati samūī*, Is *kabi amūī*, U *bīdhī carita apārā*, K *kabi carita apārū كب* is evidently a misreading of ك. 6. Iacd *ēta guninā saba guna*, U *au saba guni-yana guna paragātā*, K *aba guna para°*, Ib *tēhi samūda būdahi nahī ghātā*, Ia *bunda*, Id *aba-hu samūda mahā bunda na ghātā* Is *aba-hu samūda tehi bunda na ghātā*, U *aba-hī būdā samūda nahī ghātā*, K as in text, except *nīra* for *būdā*. 7. K *garaba na ūjhāī*, K *garaba karai sō bāura jhūjhāī*. 8. Ib *bahu guna°*, U *asa guna°*, Iac *sō hōi tehi*, Ib *cahai sō tinhā hō bēga*, U *sō hō tehi*, K *karai sō caha tehi bēga*, Rām Jasan *cahai sāwārāi bēga*. 9. Id *jō guna karahi anēga*, Is *jō guna cahai*, U *karai na nēga*.

11. 1. Ia nāū, U K nāma; U K niramālā, kálā; Id pānō U pūnou, K puniu
 2. Ia unha kai, Is tinhā kahā, U jōti tinhā kī bidhi, K tā kara, Is tinhā priti. 3. Iab U
 dīpaka aisa, U bhā a(ā)jōra. 4. Ibod jaū na hōta asa purukha ujyārā. 5. Id nāū, U thāū
 daī K thāwā daā, Is līkhē.....sīkhē, K līkhā...sīkhā. Ia parhatā, K bhau dharamī bhau
 paṇḍita sīkhē. 6. Is jēi nahī, Ia ohi nāū, K janama bhara. K dīnha naraka māha. Icd
 transpose ll. 6 and 7. 7. Ia ohi kīnhā. Ibds U kinhē...līnhē. K utima basīḥha dīnha oi
 kinhā, Ibs U K dui, Icd dō. Is U K juga; Id U K tarai nāma. Icd ohi instead of jaī, Is
 U K unha. 8. K aiguna, Ia pūchihī, U hō kai. 9. Iac ohi, Is U unha, Id binawata, K
 unha āgē hama binaiba, Id karata.

12. 1. Ia cahā dīnha, Icd cahā kā duhū. 2. Ia taba ānē, Ic wei ānē, Is sidika daiya
 unha mānē, K uni ānē, U dīna oi jānē. 3. Ibc U puni jō. Id puni tehi, Ia jaba āē, Ib ohi
 āē, Is jāū āē, K jīnha jaga adala dīna kahā lāē. 4. Ib bahu gūnī, Id bāḍa paṇḍita gūnī, U
 puni usi mahā bāḍa paṇḍita. Ia U K līkhā kurāna. The correction is evidently a scribe's
 improvement. 5. Ia bariārā, K bala tē kāpī. Ias saūhi na kōū rahā jujhārā (Is° rū). 7.
 K paramāna. 8. K. kurāna for purāna,...sōi likhā kari grantha. 9. Is tē saha, K tē
 suṭhi.

13. 1. U sēra sāha, K sēra sāha, U sulatānā.....bhānā. Ia cārihi, Ic cāri-u.
 2. Ib transposes ll. 1 and 2. Ib ohi kahā chāja chatara au pātā, Is chāja chālā au.
 U ohī chātra sāju au, K ohi pai chāja chatra au, Ia J K pātā.....līlātā. Ib rajai, Ic sabha
 rājā, Id sabha (or sabahi) rājanha (or rājahi), Is K saba rājanha, U saba rājanu (?) ; 3. Ia
 K gunawanta, Icd sabahi, Ib bidhi pūrā, Is nidhi pūrā. 4. Is nawāi nawa khāduhu, K
 nāwa nau khādahi. The final word of the half line پھی may be transcribed either bhaī or bhaē.
 All N give the former, but printed editions give the latter. So also پھی may be either nāī or
 nāē. We prefer bhaī and nāī as giving the best sense. Iad sātali. U dīpa dunīā, Is dīpa dunīā
 sīra. 6. Ibds tahā lagī. Ia kharaga bala, Icds kh° para ; Ia jala karana na kīnhā (جن کرن
 تکینہاں), Ib جو لکرنا Icd دو اقران (، 6. Ib dēvai jabahī bhara
 mūṭhī, U juga kahā jīwa dīnha, K joga kahā jītī līnha gahī mūṭhī. Ia puhum|| bhāra saba
 līnha samhārī || ohī sakai puhumipati bhārī || K puhumi bhāra ohi ēka sābhārā a tau thira
 rahai sakala sansārī || 9. Ia pādashāha, Ic bādashāhā, K tuha jaga para jagē tohāra.

14. 1. Id sō sājā. 2. Ia hai kī rēnu, Is hai gai saina. U hai maimanti calai. Ia
 parabata phūṭi hōi sama dhūrī. Ib uṭhahī hoi, Is parabata phūṭi, K tūṭi jhikāti. 3. Ia sūra
 rainu hoi dīnali garāsā Ib parahi rainu, Is K raini rēnu, Id omits this line. 3. K paṇ-
 chi. 4. Iac U K ūpara hoi chāwai brahamāṇḍā. Ia dōlai dharatī au brahamāṇḍā, U nawa
 khāḍī dharatī sakala brahamāṇḍā, K khāḍī dharatī bhau sata khanḍā. 5. Ia transposes
 this and the next line. U patālahi jhāpā, Iac K patārahī jhāpā. 6. Is bhai jāhā. 7. U
 ghara bāṭā. K kharha kāṭā. Ia pāchāi parū sō kāḍā, Id kahā nahī, K kūhā kāḍau nahī ḍāṭā.
 8. Ia giri tarīwara kahā nu rahā calata hōta sabai cūra. Id hōhī sō cūra. Is saina calata giri
 tarīwara hōhī sabai sata cūra. U jo gaḍha naai na nāai calata hōhī tē cūra. K jo giri tarai
 na kāhu tē calata hōi sabha cūra. 9. Ias U K jaba-hā. Ia calai.

15. In Is this is No. 3. Ch. 1. Iabs jasa prithimī hōi. J jasu. K kasa hōi. Icd
 cēṭa. Is cēṭā, K bāṭa calata dukhawai nahī kōī. 2. U ādīla ahā, K ādīla kāhā. Ib sama
 sōu. U sō uni rāhā. K sari jūja na tāhā. 3. Iab adala jo kīnhā umara. Iab bhai āni,
 U sigārī, K kīriānā puhumī jahā tāṭī. 4. U kou. Ib sāna. Icd mānusa saū ujīārā. 5. Is
 U gāi sīgħha K gāe sēra. Is dīra-u (?) dīra-u) pāni, U dōnō. K dunau pāni pi°. Ia chīra,
 Ib K chānāhī, Is chānā. Ia hōi ninārā, Ibds karai nirārā. K pāni sō karahi ninārā. 7
 Ib barīli, Ic unhā same, Id bālī dū-hī sama. Is dubare baria dua-u, U baria ēka, K dūbara
 bālī ēka. 8. Icd saba prithimī asīsai, Is sabai prithimī asīsai, U saba prathimī mili asīsai, K
 sabhai prathimī asīsa dēi. Ia lāi lāi bhuī mātha, Ic dui hātha Id kara hātha U jōra dou
 hātha. 9. Ia gāga jamuna, Ibds gāggāna jamuna, Ics gāga jauna jau lahi jala. U gāggā
 jamuni jala jau lahi, K gāggā jauna jau lagi jala. Ib ammara nāthā, Is J ammara mātha,
 U tau lagi, Id amara to mātha.

16. In Is this is No. 4 1. Ib kāhā, cāhā. Id sabahi, K muha. 2. U caudasi cāda
 dai sāwārā. Iabc U dāi, Is daiya. U K tā hū. Ic cāhi adhika ūji°. 3. K jāi pāpa. Is
 pāpa għażi jaū, U K jō, P jō or jau. U jagata juhārai dēi. 4. Ic K sabhai. 5. Icd
 purukha sūra niramārā. Is bhā asa sūra pū°. U asi bhaye sūra purakhi naramālā (sic).
 K asa ohi sūra nāwa niramālā Ibc daha. U kálā. K ohi āgari kálā. 6. U hēru. Ia
 jaī jaī dēkha rahai, Ib jō dēkha so rahai, U jō dēkha so rahā lubħāl, K jō dēkha sō raha

sharumāī. 7. Ic saha ūpara. Ib surūpa. Other Ps doubtful, N sarūpa. Is darapawanta. 9. Is K mēdāni darasa lobhānī. U mēdina darasi lu^o.

17. Here Is resumes the correct numbering. 1. Iabc U daī, Is daiva, U daā. U bađi, asi dāni. 2. Icd K transpose áhē and káhē. Icd U Bali au Bikrama dāni, K Bali au Kärna dātā bađa. Is Hétama, U Hótama, K Héima. 3. U sara-pūji, Is K ghaṭai, U sumēru bhādūrī dōū. 4. Is dāka dūna. U dāna dagka. Ia samūda kai, Ib U samundara pūrā. 5. U kañcana barasi sūra kali. K kañcana barisa sāra kali. 6. Ia bāra eka māgā. Other P بیر bira or biri. Iac janama na hāi bhākha au nāgā. U janama hōi nahi bhākhā nāgā. 7. Ibcs jō kinhā. U K dasi asimēda jagya jō. Ia tinhā-hū surasari dāna na dīnhā. Ib dāna punnu sari tāhu na dīnhā. Id sari saūhi. Is sē-u na U sō uni cīnhā. K unha sabha kē dīnhā. 8. U K jaga ūpara. 9. U kou dai asi.

18. 1. Ia jehi (or jinha) mohi, Is tinhā mohi, U tē. P (exc. Ia) tinhā or tehī. 2. Ia lēsē-hū eka pēma. Ibd U K p̄rēma, Is p̄rāma (sic). Ib wahī jōti, U öhi jōta, Id bhai sō jōti bhā, Ic bhai niramala, K bhāu niramala. 3. Ib huta ādhēra sō sūjhā, Ic huta jo ādhēra asūjhā, Id illegible, Is māraga hato ādhīra so sūjhā, so U but ādhēra, K māraga andha hōta sō sūjhā. Ib bhā üjēra, Ic U jaga jānā, Id parā sūjhā saba jānā. 4. K rākhu kai. 5. N unhi, P öhi or unha. Ia كرنيي, Ic karī, Id öhi kara mōrā p̄o? Is pōha kai, U pauđhi kai, K unha mori kairihara (?) pauđhi kai gahī.....ghāṭa jahā rāhā. Ia jahā áhā, U ghāṭi. 6. Ib jā kē, Ic jā kara aisa hōhi, Id U K jā kara hōhi aisa, Ia gahī bēga lei lāwai pārā, Ib K turita bēgi sō utarai, Is turita bēgi so pāwai. U turita ēi lai lāwai. 8. Is oi cistī, K rūpa jai se jaga cāda. K oi ati bađē jagata māha. Ic hama unha. Ic unha kara.

19. 1. Id öhi or unha. Is U unha, K tinhā, U K niramālā, bhālā. Iad سیکھی Ibc سیکھی Ib so bhāgai, Ic sabhā guna, U sabai guna. K sabhāgā. Is U tinhā ghara. K tinhā kē ghara dui dīpa, Ic üjīrā, sāwārā. Is daiya sā^o. K daā sā^o. 3. Iad سیکھی Ibc سیکھی, U sēkha muhammadā, Ia U K kālā, niramālā. 4. Is khanḍa khanḍa. U khakhanḍa tāhu, K, khikhida tāhī. 5. Is khābha, U jaga kī nāī. 6. Ia tēkā, Is tēkū taba. U duhū ke bhāra sriṣti thira rāhī | dōna-hū kara tēkī saba mālū, K tau tehi bhāra jagata thira. 7. Is jinha darasyau au parasyau, K jinha darasā parasā unha pāyā. Is bhāu, K bhā. 8. K nicinta rahu. 9. All copies insert kariū before khēwaka, except U jehi rē nāwa hai kariyā, and K jehi rē nāwa kariyāā. The omission of either kariā or khēwaka is required by the metre but, except U and K, all copies have both. K bēgi sō lāwai tīra.

20. 1. U mohi dai khē? K guru mahiudi kaha eka mai sēwā. Iad jā kara, U tinhā kara, K jinha mohi khēwā. 2. K ägē, Iad سیکھی Ibc سیکھی. U bađahānā; Ic U mohi dīnhā 3. U K tinhā kē gūrū, Iad سر کھرو Ibc سر خرو Is K surukhu rū, U surakhu rū. 4. Ias siddhanha purukhanha jehi sāga khēlā (Is has jyaū), Ic jai rē siddha purukha sāga khēlā. K jinha siddhyā purukhanha sāga khēlā. 5. U lagāe, K dānāra.....dekkhalāe, Ibc U jehi pāe, K mana lāe. All P give خضر, N khidira. 6. Ia U K tehi haj^o. Is jē haj^o. U āni milāe saiyyada, K lau lagāe lei saidū rājē. 7. Id jō pāi karanī, N saba karanī, P jibha para-ma (?) (پورم), N kathā. 8. tehi ghara kā haū cēlā, Id tehi guru kā haū, K waha rē guru, U K huwi cēra. 9. Ia öhi tai, U jehi tai, K dekkhana.

21. 1. K kali, K kali pānū. 3. Ids asa, K uā sūra. 4. U K ābā dābhā nahi. Rām Jasān's edition gives basāyana sō but all P give بسای نسموی 5. Ia tau sufhi, Ib tau asa, Ic taba ati, Ids tau ati kīnha, K tau waha, bhaeu. 6. Ias jaū. 7. K kācū hōi kañcana kī kárā. 8. U tasa nīrainala tehi bhāu. 9. K rupavanta banāwahī, Ia rūpavanta gahī jōahī, sō karahī gahī pāu. Ib mukha cahahī kai, J mukha cāhai kai. K mukha dēkhana ke cāu.

22. 1. P سر U sira, K ora. 2. Ia yāsufa mallika pañđita gyānī, Ib bahu gyā^o, Id bađa gyā^o, K jō pandīta gyā^o. All N have isapha for yusupha. Iac K pahilahi, K pahili 3. Iac گاډن, Ib گاجن Is kandana. Ib khādāhi, U ubhai, K uñhai jō bā^o. 4. U apārā, jujhārā, Ia khēta au, K briga sitaraini (?) jō kharaga johārā. 5. Iabc سیکھی, Id شیخ Ib K bakhānī, jānī (K mānī), Iabd bāda jānā. Is sādhunha. 6. Ia catura guna dasa wei, Ib K dasau guna. U cārō catura au dasi guna (sic), Icd au sāya jōga, K au saha jōga Is repeats the last line by a mistake of the copyist. Printed editions have simha jōga. 7. Ib jo rōpahi, U jo upajai. K purukha jo äpē (آپی for چھپی). K jau bēdhai bāsā. 8. Icd bhā. 9. Ia sālha nibūhā. U yaha jaga ūra nibāhā. K sālha jīwana bhā (جیونہا for جیون و جیون) for جیونہا). Ia U bichurahī.

23. 1. Ibātahawā bahu, Ic tahā una kabitānha kī^o. Is tahā awārā, K tahā awāni. 2. Ibs U au bi^o, Id binatī kara. U kabitānha. K au pañdita sō binatī bhājā lb bhākhē ... sākhē, Is bhājā ... sājā. Iad mērehu. Is meraehu. U tūlī mirāi sāwārahu sājā. K tuṭala sāwārahu au merahai sājā. 3. N pañditanha, U pachilāgā ... dāgā. Is gai dāgā. K kichu kai cahau kathā kara āgā. 4. Ia jō kachu pājī, U hiyā bhādāra ahī naga pājī. Is khōlu, U lai kā^o. Is tārā kī. K khōlau, tāla au kā^o. 5. Is U bōlē bō^o. K bōlau bō^o. Ia K pēma rasa, Ibs U pēma mada. 6. So Ia. Ib kāhā tehi bhākha kāhā tehi kāyā, Ic kāhā tehi rūpa kāhā tehi kāyā, Id kāhā tehi bhākha kāhā tehi māyā. Is kā tehi bkākha nīda kā māyā. U K kāhā tehi rūpa kāhā tehi māyā. 7. Ia-lāui bhēsa. 8. kāyā, so U K. It makes good sense. P.kabi jō pēma kā. Is kabi jo pīrama kā bhā tūna rakata. 9. Ic sunā to. Is sunā tā.

24. 1. Ia áhā ... kāhā. K áhā ... kāhā. All texts agree in giving the date (A. H.) as 947. Rām Jasan's edition gives 927 which is certainly wrong. Ia-tāhī dīna kāhā. 2. sēni, so Is K. J has sāna. 3. Ia suratānū. Is dīlī sulitānū, K dīlī, cētāni, so all N. 4. N have sāha not sāhi, which is the usual spelling elsewhere. 5. Is kathā dīlī. Ia kathā jo ahī, K adī anta kathā asi áhā kāhā. U bhākhā mai caupāi kāhā. 6. Ic K bīasa jasa. Ia dūri jo niarahi niarē dūri, Ics dūrihi niara niara bhā dūri, Id dūrihi niara jo niarahi dūri. U dūri su niarē niarē dūri. 7. Ids sāga kā^o, U sama kā^o. Ic K duri niara jaisai gura. Ibs dūri jo niarē sō gura, U dūri so niarē jasa. 8. Ic U K khanḍa tai. Is khanḍahā. Id U kī bāsa, Is kai bāsa. Ib pāwahī. 9. Ib jō āchāi ohi pāsa. Id K sadā jo āchāi pāsa. Is āchāhi.

25. 1. Is K gāwau, sunāwau, U gāwā, sunāwā. Id au bahu padumini, J barana. 2. U niramala darapana, K badana kudana (?) jasa bhānu bisēkhā, Ia jō jehi bhāti. Ib jehi jasa rūpa soi tasa dēkhā, Id jō jehi, Is jō jasa rūpa, U taisahi, K jehi jasa rūpa so taisahi dēkhā. 3. Id dhāni waha dīpa. Is dhanya dēsa jehi dīpaka. K dhanya dīpa jehi. Ia daī āvārī, Ib au bidhī padumini autārī, Ia au jō padumini daī sāvārī, Is daiya sāvārī, U asa padumini daī autārī, K au padumini daī autārī. 4. Icds saba baranai (Ia baranahī) lōgū. Ibc K tehi sari. Id waha sari. 5. Ib wasa nahi ūji, U nahi asa, K tasa nahi. U transposes ll. 5 and 6. Is sarada-dīpa, U sārāga-dīpa, K sarā-dīpa. 6. U sari nāhī. Ia layka-dīpa sari pūja na tāhī, Ib layka-dīpa nahī pūjai chāhī. Ic layka-dīpa pūjai parichāhī. Id layka-dīpa pūjai parichāhī. U layka-dīpa na pūjai chāhī, K layka-dīpa na puja parichāhī. 7. Kumbhasathala, so Iab U, Ic k-s-th-l; Id, k-s-sa-h-l; Is kūcasthila, K kōsathila. Is U pārā, hārā, K āra bakhānā. Ia mahasthala, Ib mai asthala, Ic mahūsthala, Id U mēwasthala, Is mahūsthila, K mēwasthila. 8. Is K prīthimī, U prathyumī, Ia au sāta-u saba dīpa, Ib au saba sāta-u dīpa, U aura ju sātō, K au yaha sata-u. 9. Ia na ūpamā, Ib na ūpara, Ie na pātū, U uttama, K dīpa tehi sari.

26. 1. Is K sēni, U Gandharpa saīna sukha hhaṇḍi, Ia dhana rājā. Is rājā au tā. 2. U K rājā...sājā. U tāhu cāhi baḍi, K tāhi. 3. Ibc U K dala. K cārau disā kaṭaka, Au gaḍha is very doubtful. Uragahī is a possible reading of the Persian Character. The following are the readings of the various MSS. Iab دو در کی او ریکی (دیکی) Id (در ور کی) Is ḥrāgē rājā, U ghara ghara rājā, K o raggana rājā. All printed editions have au gaḍha-rājā. 4. U sōrāhi sahāsa, Id sahāsa, K sōraha laccha. Ib sāwa karana bākā tu^o, Ic jasa bākā, Id syāma karana bākā tumhārā, Is sāwa karana cālūko tōrākhāra (sic), U bara ganē tu^o, K syāma karana turaakī jō (sic) tokhārā. The text has no difficulty if the technical meaning of ḥyāma-karṇa is remembered, and if it is recognized that tōrākhāra means 'horse.' 5. Id aru kailāsa, Is imi kapilā airāpati, U janu ka bilāsa airāpati, K sakā bandhi rāutapai (sic) ati bālī. 6. Ia sohāwai, Is asa-pati, U asu-pati kā, gaja-pati kā, K asu-patīnha, K gaja-pati sira aqkusa gaja nāvāi. 7. Ia nara-pati kahājī jo āhi narindā, Ib nara-patī ka au kahājī, Is U nara-pati ka kahāwa, K nara-pati mahā kahalāwai indū, Ia bhū-patī ka mahā, Is bhua-pati, K bhua-pati jaga para dōsara indū. 8. Ias U bhai hōi, K mō hōi. 9. K sabhai.

27. 1. Ib jōhu (جھو), niarāvē, Icd jō wahī dīpa, K jō wahī dīpa kē niarē jā. Ia bhāu āī, Iabds U kabilāsa, K kailāsa tīnha niarē pāī. 2. U K ghani ābarāī, U uṭhī bhūmī, K uṭhai bhūmī, Is lāga. 3. U tarīwara ṭācē sabai suhāō, K taruari sabhai milē ohi jāī, Ib bhai tasi chāha, Ic sitala chāha, U raini kai āē, K hō jaga chāha raini bhai āī. 4. Ia sohāwana. 5. U abu jamu chāha, K au asi chāha raini bhā. 6. Ia jaū sahi āwai ghāmā, U panthika cali āwai sahi. K panthika pahācāi sahi kai ghāmā Ibs K, ghāmā, bisrāmā, U bisarai bhai suhā bisrāmā, K bisarai chāna kai bisrāmā. 7. Is K jīnha waha, U jō pāwa

waha chāha, Ia sō dhūpā, Ic dukha dhūpā, Id tehi dhūpa. 8. U asi ābarāī suhāvani, K asi ābarāī saghani ghani, Id pārai, Is parahi. 9. Ic cahu disa, K phūlahī pharahī chaaū, U mānahu.

28. Id ambha (? ابھا), K āma. Id U suhāē. Ibc suhāī. Is K sohāē. Ia aura jo. 2. Id pēda maū pākē. Id N Ia ati anūpa phala tākai Ib bñdhari phara anūpa Ic bađahara sē u. U au bađihari anūpa suđhi tākē. 3. Is pāka Iad jāmu jo pāki Is jābu jo pāka. 4. Iacs pharai pharī K pharē au pharī khajuri. Id pharahī jānu. Ib sadā jānu. 5. Ia mahuā cuai so adhika Ic puni mahuā cuai so Id cuai jo mahuā so adhika Is puni madhu cuai so U puni mahuā sō bahuta K inha mō cuai madhura mīhāsū. Ia asa mīhi—asa bāsū. Ib tasa bāsū. Id asa mīhi. Is mīha. 6. Is āwana, U atiśala bhāū. K anawana nāū. Ia sabā sōbhata. Ic sabha. Id K jāsa rāuna. U dēkhē. K² aura khawahajā anawana nāū, dēkhi sabai ravanika ābarāū. K³ awara rūkha jō āwa na nāū dēkhā sabai sohāwana tħāū. 7. Ia rasa amrita. Is lāgā. K lagā Ia jāi cākhā. Is kōi jāi cākhā U jāi jō cākhā, K jō cāhai cākhā. 8. Ic lavāga supārī, Ia U K jāiphalā. Ic sabha. U au phara lāgu apūra. K phala pharē. 9. K abili.

29. 1. Ia K pañchi. Ic karata. 2. Ib U K hōta bōlahī. Is K pānduka. Ics tāhī 3. Ia sō raha. Ic sōra bahu karahī, Is rahasa karēhī, U sūgā sārō au kurarahī, K rahasya karāhī. The latter half of the line runs as follows in the different MSS.

کھرن پریوا نہہ کراڑھین	Ia
کنہنہ بُریوا کروور کوھین	Ib
گُرھین پریوا کرکر رھین	Ic
کرھین پریوا او کرو وھین	Id
Is	ਟੁਰਵਿ ਪਰੇਵਾ ਅਤ ਕੁਰੇਹੌੰ ॥
U	ਬੋਲਿ ਧਪੀਛਾ ਪਿਤ ਪਿਤ ਕਾਹੜੌੰ ॥
K	ਬੋਲਵਿੰ ਪਰੇਵਾ ਅਤ ਗੁਰਸਾਹੌੰ ॥

The verb ✓ karawar = kalabalā is frequently used in the poem. It must be some form of it which should stand at the end of the line. 4. Ib U make this the 6th line. Ia karahī, K karai lāgē. Ia gudurā, Ib kihā, Is kaha gu° Is khēhā, K kai guru jō kāhā. 5. Iac bahū bahū. Is bahō bahō, K bahau bahau. Iacs kōili kai. 6. Ib dāhiu dāhiu 7. U K kuhukai, Is kūkuhē. U kagawara karahī baīhi sō kāgā. K kāgūri karahī pukārahi kāgā. 8. Ia pañchi ahai saba, Ics pañkhi jagata kē, U pañkhi āhi jaga, K pañchi kahi sravana, basahi sabhai ābarāu. 9. Is apanī apanī bhākhā

30. 1. K kāā kulawāri. Ia sājīl. Ia au caupārī. Is sājē pīnθi kahā jō pāwarī. K au caupārī. 2. Icds kūnḍa bahu. Ic sabha Is tinhā kara U sabā kē. 3. Iads K maṇdapa 4. Iac U K kōi (U kōu) rikhēsura. Is kōi rišēvara. Iacs U K kōi rāma. Icds U janī Iad koi bisuāsī Ib koi m s w āsī Is K masawāsī U koi dāsī. 5. Iacs U K kōi (U kōu) māhēsura. Id jōgī jatī, Ib kōi pu° Id koi sō. 6. Ia ḡaraja sō lā°. Is brahmācarja U brahmācāra K brahmācāri. Iacs U K kōi (U kōu) di°. 7. This line has many variants, Ib is however clear. Iad koi sarasutī siddhu, Is kōi sunata, U kou sati santa siddha, K kōi mānū suanī jōgī. U K pada. K gahe bī°,

8. The various readings are

Ia siurā kħiurā bāna sabha	sidha sādhaka abadhūta,
Ib siura khēra nānaka panthī	s n k adhikū audhūta,
Ic siura kħiunā bāna sikhā	sādhuka au audhūta,
Id siurā kħiunā sarasutī	sikhā sādhaka audhūta,
Is sevarā khewarā bāna para	sidha sādhaka abadhūta,
U jōgi jati sannyāsī	bahuta digambara dūta,
K sevarā khōnā banaspātī	sikhā sādhaka abadhūta,

9. Ia jañgama jati sannyāsī siurā au audhūta, Ib baithi saba maṇḍapha pāca at°, Id K pāca āl°

31. 1. Ia dēkhaū Is K baranaū U mānasarōwara ati augāhā. Ib pala hara (?) Ic K jasa ati Ids asa ati U jāhā wāra pāra nahī thāhā 2. Ia jala mōtī, Ia U ambritawāna Ib ambritabāna Id ambrita nīra K ambrita pāni khīra su° 3. Ias māgāt Ic? s dā u māl K sara silā. U kanaka silā gađhi siđhi lālī. Is so ghāta sohā U bādhāi. 4. Ia siđhi upara, Ib bahutērī, U cahū disi siđhi. Icd U K utarai cađhai, Is utarai lāga 5. Id U phālā rahā. rātī so Ib, all

others *rātā*. U *kamala*. Ia *pātā*. 6. Ia *chitarāhī* K *ulathahī mōti mānika hīrā* Icds *cunahī*. U *cakāi cakawā kēli*. K *dakha dēkhī mana rahai na thīrā*. 7. Ic *lōnā*, Is K *paurahī*, Ia U *sāvārē sōnē*, Icd *kīnha saba*, Is *likhā saba*, K *likhā gaḍhi*. 8. Ib *pāra*, K *beli cahū*, Ib, *suphalas k h n bahu rākha* Is K *phala* U *suphalā pharai saba*. 9. K *harai pyāsa*.

32. 1. Ibc *bharahī*, Ib *su-padumini*. 2. U *paduma bāsa*, Ia *saha sayga*, K *sayga uḍāhī* 3. Is *sārāga baini*. 4. Ia *bahu pātinha*, U *āwai sō saba pātinha*. U. *barana barana au bhātinha*. 5. Ids K interchange lines 5 and 7. Ja 5 and 6. 5. Ia *rahasi kñāi saba āwahī*. Ic *rahasi kūda saū*, Is U *rahasa kōda saū*, K *rahasa kēli karata saba jāhī*. U *jā saū cakhu hērahī panihāri*. Is K *hanai*. 7. Ia K. *sira pā tāi*, Is *sira yō tāi*. U *meghāwara*, *pāi na tāi*. 8. Is *āchari*, U *achari rūpa anūpa*. Is U *wē panihāri*, Iab *tē rāni*.

33. U omits the whole of this stanza. 1. Iad *talāwara barani*, Is K *talāu barani nahi*. Ia *jehī nāhī*, K *kachu nāhī* 2. Ia *phūlai kawāla kumuda*, K *gagana para*. 3. Is *maccha kaccha kī*. K *camakahī mēgha* 4. Ics K *bahu raygā*. 5. Is *karéhī* K *camakahī cakawā*. Ib *nisi bicharahī au dinahi*. Ic *bichōha so*, Id *bichōha jo*, K *nisi bichōha raha dibasa mi*^o 6. Ia *karakī hulāsā*. Is *kururahi*. Ic *jētahī muāi rāhahī eka*, K *mue-hu na bichurai hōhi sāga pāsā*. Ib gives v. 1. *jiuna muāi āchaī eka pāsā*. 7. For the first word we have adopted, *kēwa*, a lotus, which however gives bad sense. Some fish eating bird is referred to. We can make nothing of P. Ia has ? *k n y bā*, Ib *n k t hā*, Ic *b n sā* or *n b sā*. Id is entirely illegible. Is *baka* 8. Ib *unha*, K *uha sarawara*. K *barahi jōtī jasa* 9. K *hoi parai sō pāwai mōti sīpa*.

34. 1. U K *lāgi*. 2. Is *tuwūja jābhīrā*, Icd U *jābhīrā*. Ia *au bādāma bēdāna*. Ibd *bādāma bēḍa*, Is *bēdu*. U *bēra*, K *bādāma jo pēḍa*, 3. Is *gūgala surāga*, U *galo gala tūta*, K *nārāgi rakata rālē*. 4. Is *naubārā.....mana tārā*. U *nau-bātā*. Ia U K *dārima*. 5. Ia *sohāwana harapā*, Ib *haraphā*, Is *sohāi su harapā*, K *alaga sohāi haraphā*. Is K *aunai rahī*, U *unhai*. Ia K *kēlanha*, Is *kērā*. 6. K *kamaraygā newajī*, Ia *dūlhā*. Ib *rāi sugandha cho*^o. K *sīkha dāu* U has an altogether different couplet, viz.

पञ्चारी सो बहुत मिठासू ।

मधु जसु मौठि पुहुप जस बासू ॥

35. 1. K *candana kē bāsā*. Is *phara au phūla*, K *pahupa phūla lagē gha*^o. 2. Ics *keolā* 3. K *kuñjā*, Is *bikaurā*, K *bakāwari*. 4. *satibaraga*, so N. It is the Persiāن بُرْجَ مَدْ which is so spelt in P. 5. K *sōna basana*. Is *sewātī*. Is *rūpa-mājari au mālati jātī*. All other MSS. have similarly a *mātra* missing at the beginning of the second half-line. Accent must be used for quantity. 6. Is K *bahuta suda*^o. 7. *maulasarī* (*mimusops elengi*),—whenever this word occurs in the poem the MSS. vary between *bōlasari* and *maulasarī*. Ia *maulasarī jō bēli*. Ibc *bolasari bēli au*. Id *bōlasari bēli*. Is *mōlasari*. U *maulisirī bēli* K *maulasarī an bēli*. Icd K *sobhai* K *phula lāgai bahu*. 8. U *baḍi bhāga*. 9. U *sugandhī wē*, K *sobhai subāsa lai*. K *jasa basanta*.

36. 1. Ia *tasa bāsā*, Is *phiri bāsā*, U *jō bāsā*, K *sigghala dēkhi ḥpuniu bāsā*. 3. Ida U K *rayka*. K *sō saba hāsā-mūkhī*. 4. U makes this line the last of the stanza and has *cūrī* *kastūrī*. Id *raci raci sājai candana khābhā, ṣhayghi sabhā-pati baithai sābhā*. 5. K *sōnē khambhā—sabhbā*, Ic *khābhā—sābhā*, Id mixes up lines 4 and 5. U omits this and repeats 4 with slight variations. 8. *āhkā*, so Iads, Ib *ādhika* Ic *nāhaka* U K *au asi panthi*. Ia *sōbhata kalā anūpa*. Is *jasa si*^o, U *janu kabilāsa anū*^o, K *sēwahī lōga anūpa*, Ia *sabha darasana saba rūpa*, Icd U *saba acharinha kē rūpa*.

37. K has following order of verses 39, 40, 37, 38. 1. K *puni baranaū*. 2. Ia *kumakuma* Ic *kūhikūhi*, Id *kumakūhi*, U *hāṭa kuykuma sō lipi*, K *kuykuma lipā—dipā*, Is *baiṭha*, U *baiṭhi*, K *baisu*. 3. Ia *hāṭa racai saba rūpāi*, K *racā hāṭa sadha rūpanha*. U *citara bicitara*. 4. Is *rūpa saba bha*^o, U *bhala parā pa*^o. Is *dhavala-srī*. U *pātā khirawārī*, K *paṭabahu kha*^o. 5. *su unawana*, So Iabds K. The vowel points are carefully given in Ib. Ic *hīrā lālā p n sāna bahu jōtī*, U *hīra lālā suanimanu*. 6. K *agara daunā raha pūrī*. Ia *jāi isa hāṭa na linha*. Id U *kinha*, K *jō na hāṭa tehi*, Ia *nahi lāhā*, Is *kasa lāhā*, U K *kata*. S. U *kōū* throughout Ia K *lābha lai*. lab U K *mūla*.

38. 1. Ia *hāṭa kai*, U K *have kai siggāra dhani baiṭhi* (K *baisi bahu*) *bēsā i mohai* *darusana rayka* (K *rūpa*) *narēsā* || Ic *saba baiṭhi*. Icd *sira cīra*, U *au cīra*, 3. K *bēnu*, Ia *mōhita hōhī paiga nahi jāhī*. Icds U *nara mō*^o, Is *guna paigu*. U *nara paī*^o, K *nara paraga na*. 4. Ia *sāni wai*. 5. K *phāsi dēhī*. U K *kafacha giu hari lēhī*. 6. K *mānahā*, Is *tārī*, U K *dārī*. 7. Ia *kētē kēli rahī tehī*. U *kitē kha*^o K *kētē chaila rahahī*, Is *jhāri kai*. 8. K *caḍhē turāi rahali wahi tau lagi jau lagi galha raha pheṭa*, Ia *gāṭha hoi*, U *jaba*

lagi. 9. This line is very corrupt. Ia *uṭhi bhāgahī*, Ic om. *baṭāū*, Id *sāṭhi nāṭhi bhēṭi na pāwaī*, U *sāṭhi nāṭhi hwai calai baṭāū*, K *sāṭa nighaṭa uṭhi bhaeu baṭau*. The reading given in the text is that of Ib. The metre is however wrong. U *puni pahicāni*.

39. 1. Ia K *baṭhi siygaṛa hāṭa phulawārī*. Ib *phulahārī*. Id reverses the order of the two halves of the caupā. Ic *pāna anūpa jo dha°* K *dharā*. 2. Is U *gandhī*. K *baisu*. Ia K *bahuta ka°*, Ib *mēli kapūra*, Ic U *phāla ka°*. Is U K *khiraurā*. 3. Ia U K *purānā—bhānā*. Ib *dharama pāpa*. Is *dharama rāsi*. 4. K *kathā kabitta kaha kōi*, K *baḥu hōi* 6. Ib *nāḍa tēda dhunī bhālā*. Is *cēṭaka cālā* 7. Ic *ṭhagaurī lāī*, Is *katahū kānha ṭhaga*, U *katahū ṭhaga ṭhaga bi°*. Ia *mānukha*. 8. U *rahahī tē nāca*. 9. Is *jō tehi nāca*. All MSS exo. U insert *agamanu* after *rahai*. The word is superfluous and spoils the metre. Ia *sō bāca*, Id *tai bāca*, Is *wai bāca*, U *pai bāca*, Is U K *gatha*. The reading of this *dōhā* is very doubtful.

40. 2. *Kuruma*. P give no vowel marks. Is *kurūbha*. U *jānahū kūrama*. K *tarēhi rambha bā°*. Printed editions have *karēhī* which is a possible transliteration of P كُرَمْبَه for كُرْنَمْبَه. U *parai di*. 3. Ia *khāḍa phēra cahū°*, U *cārau disi bākā*. 4. Id *parai jo*, Is *parai to*. 5. Ia U *jō unhi caḍhai*, Ic *tinha kī ca°*, Is K *nau-hū jo caḍhai jāi*. 6. Ib *bhārī naraka tahā disa*, Is U *bharē*, asi *disā*, K *asa*. 8. All MSS insert *pahūcāi*, after *nāhī*. The word is superfluous and spoils the metre. U *lāgi sumēru*. 9. U *kahā lagī karaū bādāi*.

41. K has following stanza order. 36, 39, 40, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 41, 42, 49, 50. U om. 41. Ia *nāhī to hōi*. 3. Ia *tehi bhā°*. K *tē bhā°*. The latter half has an instant too many in all MSS. except Ic, Id *pāi*. Ic *jāta* for *cāpata*, Is *kāpni jāgha*. K *kāpni jāgha dēkhata khana pā°*. 4. Ia *rāu*. Ic *darapahī haṭi*. K *darahi guinda dēkhī unha ṭhā°*. 6. K *rātē pāchi*. Is K *jihā*. The second half varies greatly. Ia *līlē līhā*. Icd *guñjari kīnhā*. Is *kajala līhā*. K *dēkhī oi sīha*. All P have *jībhā* in the first half, which, however, does not rhyme. 8. K *nauu pawī bhau khaṇḍa tehi*. Id *au tehi nau kēwāra*.

42. 1. Ia *nau-unha*, Ic U K *nau pauṛi*. K *dasama*. K *tā para* 2. Ia *ghari jō*. Ic *gharī so ganahī*, Ia *paharahi pahara so*, Ic *pahara pahara para*, Ids *pahara so apanī apanī bārī*, U *pahara so apanī apanī*, K om. the latter half of this caupā and the former half of the next. 3. Ia *pōja taba mārā*. 4. U *parā su-dādi*. Ic K *kara*, Id *kharā*. Is *māṭī bhāḍā* U *kati nicinta*. 5. Ic *tumha tō*. K *taba tehi*. Ia *bhaeu so phēri nāhī thira bācē*, U *rahē na jama tē thira*. 6. Ic *tumha jānī*, U *jo bajai ghaṭai*, K *ghari jo ghaṭai*. Ia *ka nicinta aba sōu ba°*, Ib *sōai*, Is *nicinta hwai sōahu ba°*, U *kati nicinta*, K *nicinta bhai rahai baṭāū*. 7. Ia *hiā basana kā jī guna sōi*, Is *hia na sugāi*, U *hiya bajara pai jā°*, K *huā na suna nīshē jāgata kōi*. K adds *jau lagi dēva asta na hōi* + *tau lagi cēta karahu nara lōi* || Ib also inserts this on the margin. 8. Ia *taja marana*, K *jiana dīna bharana*, Ia *jaisa rahaṇi kī ritī*. Ib *kaunai rahaṇi kī*, K *rahai gharī*. 9. Ia *āī marana kī*, Icds *gharī so āī*. U *jala bharī*, K *bharī so dharī phiri bharī*. Ia U K *janama gaeu taha bīti*.

43. 1. Ia *gaḍha tara*. U *nīra chīra*. 1b *jānahū du°*. U *pāni bharai āvai draupādī*. 3. U *jō sugandhi pāni waha piā* 4. The latter half of the verse has an instant too much if we spell *indra* as *indara*. U has *kalapa brakṣa janu hai kabilāsā*, K *kalapa taru indra kabilāsā*. So Is has *indra kabilāsā*. 5. Ia *saraga kō sā*. Ib *saraga tehi sā°*. Id *mūra*. Ic *asa pāu*, Id *kou pāu na cā°*. Is U *pāwai kō cā°*. 6. Is *cāda pāta*. Id U *jagata jahā*, K *nētra jahā*. 9. U *sati guru milai to pāwai jō sādhai tapa jōga*.

44. 1. Is *cāri gaḍha*, U *jāra guḍhi-pātī*. 2. Ib U *saba kē*. Is K *dhaurāhara*, Ib *apanē apanē saba ra°*. Id K *suba apanē apanē*. 3. U *rūpawanta saba basahī sabha°*. 4. Icd N *bilāsa*, Is *sabai kau mā°*, K *sabai sudha*, Id *koi nāhī jā°*, Is *kou kahū na jā°*. 5. U *tahā khē°*. 6. U *pāsā sāra khēla tahā kōi*, Ia K *khēli bahu*, U *kharaga gahē sara pājani kōi*. 7. U *baranāwāt kī°*, U *hasti-dāna siy°*. 8. U *achīri baṭī pāsa*. 9. Ib *khaṭa ritu*, U *chāḍī basanta auru nahi khaṭi ritu*, &c.

45. 1. *Mahi ghāḍia* the reading is very doubtful, Iab have كھو بنهی مھو so also Ic, omitting diacritical marks. Id كھو بنهی مھو, Is *mahi khābāi*, U *mahi khādē*. K *mahi-pati jhurī na pāwahi pārū*. 2. K *hāṭhī si°*. 3. Ic K *kōi-kōi*. U *dhūmarē kārē*. 4. U *barana sō jānahū mēghā*. Ia *bhāra baṭhi gagana*, Ibc *gagana baṭhi*, Ids U K *gagana pīṭhi*. 5. Is U *baranau*, U *janu airāpati kualī bālī*. Ia *pahāra parabata kahā pē°*, Id *pahāra pannī kahā*, Is *pabai gahi pē°*, U *painā sō pē°*, K *palau gahi pē°*. Is U *upāri*. K *ucāri ghāḍi*. 7. Icds K *māṭa nimāṭa saba*. 8. Ic *mahi hāli*. U *kurama uṭhā hia sāla*. 9. Iac *bhāṭī phā°*, U *jabahi calai gayandawē jagata parai bhāṭī cāla*, K *kurama pīṭhi puni phaṭai unha hastinā kē cāli*.

श्रीजानकौवल्लभो विजयते ।

—००५०—
अथ सुधाकर-चन्द्रिका लिखते ।

दोहा ।

लखि जननी के गोद विच मोद करत रघु-राज ।
होत मनोरथ सुफल सब धनि रघु-कुल सिरताज ॥
जनक-राज-तनथा सहित रतन-सिंहासन आज ।
राजत कोशल-राज लखि सुफल करज्ज सब काज ॥
निहचै निज जन जानि जो ऊँच नौच तजि मान ।
मिले हरखि निज बंधु ज्यो ताहि भजज्ज हित जान ॥
का दुसाधु का साधु जन का विमान समान ।
लखज्ज सुधाकर-चन्द्रिका करत प्रकाश समान ॥
मलिक मुहम्मद मति-लता कविता कनक वितान ।
जोरि जोरि सुवरन वरन धरत सुधाकर सान ॥

अथ पदुमावति लिख्यते ।

मूल ॥

अथ असतुति-खंड ।

चउपाई ।

सवँरउँ आदि एक करतारु । जेइ जिउ दौन्ह कौन्ह संसारु ॥
 कौन्हेसि प्रथम ज्ञाति परगास्तु । कौन्हेसि तोहि परबतं कविलास्तु ॥
 कौन्हेसि अग्निं पवन जल खेहा । कौन्हेसि बहुतइ रंग उरेहा ॥
 कौन्हेसि धरतौ सरग पतारु । कौन्हेसि बरन बरन अउतारु ॥
 कौन्हेसि सपत दौप ब्रह्मंडा । कौन्हेसि भुञ्जन चउदह-उ खंडा ॥
 कौन्हेसि दिन दिनिअर ससि रातौ । कौन्हेसि नखत तराणन पाँतौ ॥
 कौन्हेसि सौउ धूप अउ छाँहा । कौन्हेसि मेघ बीजु तोहि माँहा ॥

दोहा ।

कौन्ह सबइ अस जा कर दोसर छाज न काहि ।
 पहिलइ तोहि कर नाउँ लोइ कथा करउँ अउगाहि ॥ १ ॥

टौका ॥

असतुति-खंड = सुति-खण्ड ।

यद्यपि खण्ड खण्ड में यन्थ की रचना करना यन्थ-कार के लेख से नहीं पाया जाता, तथापि बड़त पुस्तकों में खण्डों के नाम होने से अनुमान होता है कि पौर्व से लोगों ने इस यन्थ का पुराणवत् आदर करने के लिये पद्म-पुराण, स्कन्द-पुराणादि के ऐसा, इस में भी अनेक खण्ड कर डाले । इस खण्ड में ईश्वर और गुरु की यन्थ-कार ने सुति की है । इसी लिये इस का सुति-खण्ड नाम पड़ा ॥

सवँरउँ = सुमिरउँ । जोति = ज्योतिः । परगास्तु = प्रकाश । कविलास्तु = कैलास ।
 खेहा = धूलि । उरेहा = उज्जेख, रचना । दिनिअर = दिनकर, सूर्य । तराणन = तारा-गण ।
 शौउ = श्रीत । बीजु = विद्युत्, विजुलौ । अउगाहि = अवगाहन कर, छूब कर ॥

मैं सब से आदि और एक (अद्वितीय) जो कर्त्तार (कर्त्ता = परब्रह्म) है उसे समरण करता हूँ । जिस ने जीव दिया और संसार को किया ॥ जिस ने पहले *ज्योतिः-खरूप (महादेव) को प्रकाश किया और तिस के लिये कैलास पर्वत को किया । (सुसल्लाने में कहावत है कि हिंदुओं का महादेव हमारे लोगों का आदम है) ॥ जिस ने अग्नि, पवन (वायु), जल और खेह (मृत्तिका, धूलि) को किया । † (सुसल्लान लोग आकाश को तच्च नहीं मानते दूसी लिये यहाँ पर चार-ही तच्चों का नाम कहा है) । इन्हीं चारों तच्चों से बज्जतद (बज्जत प्रकार के) रंगों का उरेह (रचना) किया अर्थात् इन्हीं चारों तच्चों से अनेक प्रकार के पदार्थों का रचना किया ॥ जिस ने धरती (धरित्री = पृथ्वी), सरग (खर्ग), और पतार (पताल) को किया । जिस ने बरन बरन (तरह तरह) का अवतार धारण किया । मत्य, कूर्म, वराह, नृ-सिंह इत्यादि परब्रह्म ईश्वर के अवतार पुराणों में प्रसिद्ध हैं ॥ जिस ने सपत (सप्त) द्वौप और ब्रह्माण्ड को किया । पुराणों में जमू द्वौप, शाक, शास्त्रल, कुश, क्रौञ्च, गो-सेदक और पुष्कर ये सात द्वौप प्रसिद्ध हैं । जिस ने खण्ड खण्ड चौदह भुवन को किया । पुराणों में भूर्लोक, भुवर्लोक, खर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तप- और सत्य- ये सात ऊपर के लोक, और अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये सात नीचे के लोक, प्रसिद्ध हैं । दोनों सप्तकों के मिलाने से चौदह भुवन होते हैं । कभीं कभीं खर्ग-लोक, मर्त्य-लोक, और पाताल-लोक ले कर कवि लोग तीन-ही भुवन कहते हैं ॥ जिस ने दिन में सूर्य और रात्रि में (प्रकाश के लिये) शशि (चन्द्र) को किया । जिस ने नचन्त्र और तारा-गण की पक्षिणी को किया ॥ जिस ने सौउ (श्रीत) धूप (धाम) और छाँह (छाया) को किया । जिस ने मेघ (बादल) और तिस के माँह (मध्य) विद्युत् को किया ॥

ऐसा सब कुछ जिस का किया है दूसरे में काहि (कहीं भी) जिस का गुण शोभित नहीं, पहले उस का नाम ले कर (समरण कर) कथा को अउगाहि (ध्यान में डूब कर) करता हूँ । आगे की चौपाईयों में भी सर्वत्र “जिस ने” का योजना करना चाहिए ॥ १ ॥

चउपाई ।

कीन्हेसि सात-उ समुद अपारा । कीन्हेसि मेरु खिखिंद पहारा ॥
कीन्हेसि नदी नार अउ झरना । कीन्हेसि मगर मच्छ बहु बरना ॥

* नान्हकपन्थियों के मत में ज्योतिःखरूप से परब्रह्म लेते हैं ।

† फारसी में कानूनचा नाम पुस्तक के २४४ में लिखा है कि अग्नि, वायु, जल और इष्टों ये ही चार तच्च हैं ।

कौन्हेसि सौप मैँति तेहि भरे । कौन्हेसि बहुतइ नग निरमरे ॥
 कौन्हेसि बन-खँड अउ जरि मूरौ । कौन्हेसि तरिवर तार खजूरौ ॥
 कौन्हेसि साउज आरन रहहौ । कौन्हेसि पंखि उडहिँ जहँ चहहौँ ॥
 कौन्हेसि बरन सेत अउ सामा । कौन्हेसि नौद भूख विसरामा ॥
 कौन्हेसि पान फूल रस भोगू । कौन्हेसि बहु ओखद बहु रोगू ॥

दोहा ।

निमिख न लाग करत ओहि सबहि कौन्ह पल एक ।

गगन अंतरिख राखा बाजु खंभ बिनु टेक ॥ २ ॥

समुद = समुद्र । खिखिंद = किक्किन्धा, कुखण्ड, जिस के ऊपर दच्छिण ध्रुव है । इसे ज्यौतिष में कुमेर भी कहते हैं । निरमरे = निर्मल । बनखंड = पृथ्वी में वन-रूपी खण्ड (विभाग) । तरिवर = तरुवर, वृक्षों में बड़ा । साउज = श्वज, मार कर खाने लायक जन्तु । आरन = अरण्य, वन । पंखि = पंचौ । सेत = श्वेत । सामा = श्वाम । ओखद = औषधि । अंतरिख = अन्तरिक्ष । बाजु = वर्जयिता । टेक = आधार ॥

(जिस ईश्वर ने) अपार सातो समुद्र* को किया । मेरू और किक्किन्धा पहाड़ को किया ॥ नदौ, नारा और झरने को किया । (पहाड़ के तल से वा किसी बड़े ताल से जो निकले उसे नदौ, किसी ग्राम से नल-रूप हो कर वहते वहते किसी नदौ में मिले उसे नारा (नल), और पहाड़ के क्षेत्रों से धीरे धीरे जो पानी वहता है उसे झरना कहते हैं) । बज्ज (अनेक) बरन के मगर और मच्छ को किया ॥ सौप को किया तिस में मैँती भरे हैं । बज्जत प्रकार के निर्मल नग को किया ॥ पृथ्वी में बन-खंड (वन-रूपी विभाग), जड़ी, और मूरि को किया । प्रायः जड़ी औषधि के और मूरि खाने के काम में आती है । वृक्षों में बड़ा ताड और खजूर को किया ॥ साउज (खाने लायक जन्तुओं) को किया जो कि अरण्य (वन) में रहते हैं । पञ्चियों को किया जो कि जहाँ चाहते हैं तहाँ उडते हैं ॥ श्वेत और श्वाम वर्ण को किया । संसार में श्वेत और श्वाम-ही वर्ण मुख्य हैं, इस लिये इन्हीं दोनों में मुख्यता समझ, इन्हीं दोनों का ग्रहण किया । भूख, नौद और विश्राम (आराम) को किया ॥ पान, फूल, रस और भोग को किया । अनेक औषधि और अनेक रोग को किया ॥

* चार, दुग्ध, दधि, घृत, इचु-रस, मध, खादु जल, इन के सात समुद्र पुराणों में प्रसिद्ध हैं । परन्तु इन के भिन्न गन्ध-कार ने कई एक नाम लिख दिए हैं जो कि रत्नयेन की सिंघज-शाचा में मिलेंगे ।

पलक भजने में जो काल लगता है, उसे निमेष कहते हैं । सो ओहि (उस को) करने में एक निमेष न लगा । एक-ही पल में सब को किया । यहाँ पल से निमेष का पल लेना चाहिए । नहीं तो जो पल प्रसिद्ध है, वह निमेष से बड़ा है तब पूर्वापर ग्रन्थ में असङ्गति होगी । निमेष का साठवाँ भाग निमेष का एक पल होता है ।

अन्तरिच्छ में खंभा को बाजु (वर्जन कर अर्थात् कोड कर) विना आधार के गगन (आकाश) को रक्खा है । मुमत्त्वानेँ के मत से आकाश भी, और पदार्थों के ऐसा, एक पदार्थ है । परन्तु हमारे लोगों के मत से आकाश शून्य है ॥ २ ॥

चउपाई ।

कौन्हेसि मानुस दीन्ह बडाई । कौन्हेसि अन्न भुगति तैइ पाई ॥
 कौन्हेसि राजा भूँजइ राजू । कौन्हेसि हसति घोर तैहि साजू ॥
 कौन्हेसि तैहि कहूं बहुत विरास्त । कौन्हेसि कोइ ठाकुर कोइ दास्त ॥
 कौन्हेसि दरब गरब जेहि होई । कौन्हेसि लोभ अघाइ न कोई ॥
 कौन्हेसि जिअन सदा सब चहा । कौन्हेसि मौँचु न कोई रहा ॥
 कौन्हेसि सुख अउ कोड अनंदू । कौन्हेसि दुख चिंता अउ दंदू ॥
 कौन्हेसि कोइ भिखारि कोइ धनौ । कौन्हेसि सँपति बिपति बहु घनौ ॥

दोहा ।

कौन्हेसि कोइ निभरोसौ कौन्हेसि कोइ बरिआर ।
 द्वारहि तइँ सब कौन्हेसि पुनि कौन्हेसि सब द्वार ॥ ३ ॥

मानुस = मनुष्य । भुगति = भुक्ति = भोजन । भूँजइ = भोग करता है । राजू = राज्य ।
 हसति = हस्ती । घोर = घोटक = घोड़ा । विरास्त = विलास । दरब = द्रव्य । गरब = गर्व ।
 अघाइ = अघा जाना = पूर्ण हो जाना = हप्त हो जाना । जिअन = जीवन । मौँचु = मृत्यु ।
 कोड = करोड = कोटि । दंदू = दन्द । निभरोसौ = जिस को किसी का भरोसा न हो =
 अत्यन्त दुर्बल । बरिआर = बलिष्ठ । द्वार = भस्म = राखौ ॥

मनुष्य को किया और उसे बडाई दिया । क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में मनुष्य सब से बड़ा गिना जाता है । अन्न को किया जिसे तिस मनुष्य ने भोजन के लिये पाया ॥ राजा को किया जो कि राज्य भोगता है । और तिस के साज के लिये हाथी और घोड़े को

किया ॥ तिस राजा के लिये बहुत विलास को किया, (क्षच, सिंहासन, सुन्दर भोजन आदि अनेक सुखोपभोग विलास हैं) । किसी को ठाकुर (मालिक) और किसी को दाम किया ॥ इव्य को किया जिस को हो कर (पा कर) गर्व (अभिमान) होता है । लोभ को किया जिस के कारण कोई अधाता नहीं (पूर्ण नहीं होता) ॥ जीवन को किया जिस को सदा (सर्वदा) सब कोई चाहता है । मृत्यु को किया जिस से कोई नहीं रहता है अर्थात् मृत्यु सब को मार लेती है ॥ सुख और करोड़ आनन्द को किया । दुःख, चिन्ता और इन्द्र अर्थात् ममता को किया ॥ किसी को भिन्नुक और किसी को धनी किया । सम्पत्ति (पुत्र, पौत्र, गो, धनादि वैभव) और अति धनी (कठिन) विपत्ति को किया ॥

किसी को अति दुर्बल किया और किसी को बली किया । सब बस्तु को छार-हो से किया और अन्न में फिर सब को छार कर दिया ॥ ३ ॥

चउपाई ।

कौन्हेसि अगर कस्तुरौ बेना । कौन्हेसि भौमसेनि अउ चेना ॥
 कौन्हेसि नाग मुखइ बिख बसा । कौन्हेसि मंच हरइ जो डसा ॥
 कौन्हेसि अमौँ जिअद जेहि पाई । कौन्हेसि बिख जो मौँचु तेहि खाई ॥
 कौन्हेसि जख मौठ रस भरौ । कौन्हेसि करुइ बेलि बहु फरौ ॥
 कौन्हेसि मधु लावइ लोइ माँखौ । कौन्हेसि भवंर पंखि अउ पाँखौ ॥
 कौन्हेसि लोवा उंदुर चाँटौ । कौन्हेसि बहुत रहहिं खनि माँटौ ॥
 कौन्हेसि राकस भूत परेता । कौन्हेसि भोकस देव दरता ॥

दोहा ।

कौन्हेसि सहस अठारह बरन बरन उपराजि ।
 भुगुति दौन्ह पुनि सब कहूँ सकल साजना साजि ॥ ४ ॥

अगर = सुगन्धित एक वृत्त । कस्तुरौ = कस्तुरौ = मृगमट । बेना = बेण = खस ।
 भौमसेनि = भौमसेनी कर्पूर । चेना = चौन देश का कर्पूर । मुखइ = मुखे = मुख में ।
 अमौँ = अमृत । पाई = पान कर । करुइ = कटु । मधु = शहद । माँखौ = मच्छिका = मक्खौ ।
 भवंर = भमर । पंखि = पंची । पाँखौ = जिन जन्तुओं को च्छतु-विशेष में पर उत्पन्न हो

जाता है । जैसे वर्षा ऋतु में दौँवक को । लोवा = लोमडौ । उंदुर = मूसा । चाँटौ = चौंटौ । राक्ष = राच्स । परेत = प्रेत । भोक्ष = बुभुच्चु = भुक्खड़ । देता = दैत्य । उपराजि = उत्पन्न कर ॥

अगर, कस्तुरी, और खस को किया । भौमसेनी और चौनी कपूर को किया ॥ नाग (सर्प) को किया जिस के सुख में विष बसता है । मन्त्र को किया जो डसे झये विष को हर लेता है ॥ अमृत को किया जिस को पान कर (प्राणी) जीता है । विष को किया, जो तिस को खाता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है । यहाँ “मौँचु” के स्थान में “मरइ” यह पाठ होने से सुन्दर अर्थ लग जाता है । जो तिस को खाता है वह मर जाता है ॥ ऊख को किया जिस में मौठा रस भरा रहता है । कडुई बेलि को किया जो कि बड़त फरती है ॥ मधु को किया जिस को ले कर मक्खी (कर्ते को) लगाती है । भ्रमर, पच्छी, और पाँखी को किया ॥ लोमडौ, मूसा, और चौंटौ को किया । बड़त ऐसा किया जो मट्टौ को खन कर रहते हैं ॥ राच्स, भृत और प्रेत को किया । भुक्खड़, देवता, और दैत्य को किया ॥

तरह तरह उत्पन्न कर अठारह हजार को किया । (हमारे यहाँ चौरासी लाख योनि है परन्तु यथा-कार ने अठार-ही हजार लिखा है । *मुसल्मानी मत में अठार-ही हजार योनि हैं) ॥ सब तरह की साजना (तयारी) साज कर (बना कर) सब को भोजन दिया । अर्थात् जिस को जैसा चाहिए वैसी सब सामग्री समेत भोजन को दिया ॥ ४ ॥

चउपाई ।

धनपति उहइ जेहि क संसारू । सबहि देइ निति घट न भँडारू ॥
 जावँत जगत हसति अउ चाँटा । सब कहँ भुगुति राति दिन बाँटा ॥
 ता करि दिसिठि सबहि उपराहौँ । मितर सतरु कोइ बिसरइ नाहौँ ॥
 पंखौ पतँग न बिसरइ कोई । परगट गुपुत जहाँ लगि होई ॥
 भोग-भुगुति बहु भाँति उपाई । सबहि खिआवइ आपु न खाई ॥
 ता कर इहइ जो खाना पिअना । सब कहँ देइ भुगुति अउ जिअना ॥
 सबहि आस ता करि हर साँसा । ओहि न काहु कइ आस निरासा ॥

* मुसल्मानों के एक मौलूद में लिखा है कि “हिशद हजार आलम” अर्थात् अठारह हजार योनि हैं । बड़त ये लींग कहते हैं कि यहाँ अठारह हजार से अनन्त समझना चाहिए ।

दोहा ।

जुग जुग देत घटा नहीं उभइ हाथ तस कीन्ह ।
अउर जो दौन्ह जगत मँह सो सब ता कर दौन्ह ॥ ५ ॥

निति = नित्य । जावँत = यावत । चाँटा = चौँटा । दिचिटि = दृष्टि । मितर = मित्र ।

सतरु = शत्रु । परगट = प्रगट । गुपुत = गुप्त । आस = आशा । साँसा = श्वास । जुग = युग ।
उभइ = उभय ॥

धनपति वही ईश्वर है जिस का कि यह संसार है । जो सब को नित्य (सब कुछ) देता है, परन्तु उस का भण्डारा नहीं घटता ॥ जगत में हाथी से ले कर चौंटे तक जितने प्राणी हैं, सब को रात दिन भोजन बाँटा करता है ॥ तिस की दृष्टि सब के ऊपर है । ऐसा कि मित्र शत्रु किसी को नहीं भूलता । (जो लोग ईश्वर से विमुख हैं, वे-ही ईश्वर के शत्रु हैं) ॥ पचौ और पतङ्ग (फतिंगे, घास में जो छिपे रहते हैं) किसी को नहीं भूलता । जहाँ तक कि प्रगट और गुप्त हैं । यहाँ प्रगट में पचौ और गुप्त में फतिंगे को क्रम से यहण किया है ॥ अनेक प्रकार के उपाय से अनेक भोग-भोजन सब को खिलाता है, परन्तु आप कुछ नहीं खाता । (जो रुचि लायक भोजन है, उसे भोग-भोजन कहते हैं) ॥ तिस ईश्वर का यही खाना पीना है, जो सब को भोजन और जीवन देता है । अर्थात् जैसे लोग खाने पीने से फ़स होते हैं, उसी प्रकार और लोगों को भोजन और जीवन देने में ईश्वर फ़स होता है ॥ सब किसी को हर एक श्वास में तिसी (ईश्वर) की आशा है । परन्तु वह ईश्वर किसी के आशा से नैराश्य नहीं है ॥

तिस प्रकार से उभय (दोनों) हाथों को किया है, अर्थात् फैलाया है, कि युग युग से देता चला आता है, (परन्तु भण्डारा घटा नहीं) । जगत् के बीच और जो कुछ दिया ज्ञाना (देख पड़ता) है, सो सब उसी का दिया ज्ञाना है । (संहिता-कारों के मत से ४३२०००० सौर वर्ष का एक युग होता है, ज्यौतिष वेदाङ्ग के मत से ५ सौर वर्ष का युग होता है) ॥ ५ ॥

चउपाई ।

आदि सोइ बरनउँ बड राजा । आदि-हु अंत राज जोहि छाजा ॥
सदा सरबदा राज करेई । अउ जोहि चहड राज तोहि देई ॥
छतरि अछतरि निछतरहि छावा । दोसर नाहिँ जो सरबरि पावा ॥

परबत ढाहि देखु सब लोगू । चाँटहि करइ हसति सरि जोगू ॥
 बजरहि तिन कइ मारि उडाई । तिनहि बजर कइ देइ बडाई ॥
 काहुहि भोग भुगुति सुख सारा । काहुहि भौख भवन-दुख मारा ॥
 ता कर कौन्ह न जानइ कोई । करइ सोइ मन चित्त न होई ॥

दोहा ।

सबइ नास्ति वह असथिर अइस साज जेहि केरि ।
 एक साजइ अउ भाँजइ चहइ सवाँरइ फेरि ॥ ६ ॥

सरवदा = सर्वद = सब कुछ देने-वाला । छतरि = चंचौ = जिस को चंच अर्थात् पर-परिचाण (दूसरे का पालन करना) ग्रन्ति है । अछतरि = विना चंच का कर के । * निछतरहि = विना चंच-वाले को । सरिबरि = बराबरी । बजरहि = बज्र को । तिन = छण । सारा = रचना किया = बनाया । भवन-दुख = घर का दुःख । असथिर = स्थिर । भाँजइ = भग्न करता है = तोड़ता है । सवाँरइ = रचना करे ॥

सोई बडे राजा का अर्थात् ईश्वर का पहले वर्णन करता हूँ । स्थिरि के आदि से अन्त तक जिस का राज शोभित है ॥ सब कुछ देने-वाला वह ईश्वर सदा राज करता है । और जिस को चाहे तिस को राज देता है ॥ जिस को चंच है उसे विना चंच का कर, विना चंच-वाले को (उसी चंच से) छावता है । दूसरा कोई नहीं है जो उस की बराबरी को पावे अर्थात् बराबरी कर सके ॥ लोग देखते हैं कि पर्वत को ढहा कर, एक चौंटे को हाथी के समता योग्य करता है । बज्र को छण कर मार कर उडा देता है । छण को बज्र कर बडाई देता है अर्थात् छण को श्रेष्ठ बना देता है ॥ किसी के लिये भोग भोजन और सुख रचना किया । किसी को भिजा और घर के दुःख से मार डाला ॥ तिस ईश्वर का किया कोई नहीं जानता । जो बात मन और चित्त में नहीं होती वही करता है (मन और चित्त के लिये ६५ वें दोहे की टीका देखो) ॥

संसार में सब बस्तु कुछ नहीं है, अर्थात् सब चञ्चल हैं, उत्पन्न झट्टे, और नाश झट्टे, परन्तु वह ईश्वर सर्वदा स्थिर है । ऐसा जिस ईश्वर का सब साज है, वह एक को माजता है, और दूसरे को बिगड़ा है, और चाहे, तो फिर (बिगडे झए को) रच डाले, अर्थात् जैसा का तैसा बना डाले ॥ ६ ॥

* चंचौ के स्थान में चंचौ अर्थात् जिस के शिर पर चंच (छाता) हो, ऐसा कर देने से, यहाँ दूसरा अर्थ भी हो जाता है ।

चउपाई ।

अलख अरूप अबरन सो करता । वह सब सउँ सब ओहि सउँ बरता ॥
परगट गुपुत सो सरब विआपौ । धरमौ चौन्ह चौन्ह नहिँ पापौ ॥
ना ओहि पूत न पिता न माता । ना ओहि कुटुँब न कोइ सँग नाता ॥
जना न काहु न कोइ ओहि जना । जहाँ लगि सब ता कर सिरजना ॥
वेइ सब कौन्ह जहाँ लगि कोई । वह न कौन्ह काहू कर होई ॥
हुत पहिलइ अउ अब हइ सोई । पुनि सो रहइ रहइ नहिँ कोई ॥
अउर जो होइ सो बाउर अंधा । दिन दुइ चारि मरइ कइ धंधा ॥

दोहा ।

जो वेइ चहा सो कौन्हेसि करइ जो चाहइ कौन्ह ।
बरजन-हार न कोई सबहि चाहि जिउ दीन्ह ॥७॥

अलख = अलक्ष्य । अबरन = अवर्ण = विना रङ्ग का, वा अवर्ण = वर्णन के योग्य नहीं ।
बरता = बटा झआ है । विआपौ = आपौ । सिरजना = रचना किया झआ । झन = था)
बाउर = बौरहा । कइ = कर के । धंधा = कार्य । चाहि = चाहना कर = इच्छा से ॥

वह जो कर्ता परब्रह्म ईश्वर है सो अलख, अरूप और अबरन (विना रङ्ग का, वा अवर्ण) है । वह सब से, और सब कोई उस से, बटे झये हैं (रस्सी की तरह) ॥ वह कहीं प्रगट रूप से, कहीं गुप्त रौति से, सर्वत्र व्याप्त है । परन्तु जो धर्मी हैं वे लोग तो इस ईश्वर को पहचानते हैं, और पापौ नहीं पहचानते ॥ न उस को पुत्र, न पिता, न माता है । न उस को कुटुम्ब है, और न किसी के संग उस का नाता (सम्बन्ध) है ॥ वह किसी को नहीं जना (उत्पन्न किया), और न उस को कोई उत्पन्न किया । परन्तु जहाँ तक सब है, वह सब उसी का रचा झआ है ॥ जहाँ तक जो कुछ है, सब उसी का किया झआ है, परन्तु वह किसी का किया नहीं है ॥ पहले भी वह था, और अब भी सोइ ईश्वर है । फिर (आगे) भी वही रहता है, और उसे कोड कोई नहीं रहता ॥ और जो होता है (संसार में) सो बौरहा और अंधा है । दो चार दिन धंधा (कार्य) कर मर जाता है ॥

जो उस ने चाहा सो किया, और जो करने चाहता है सो करता है । उस को कोई वर्जने-वाला नहीं है, सब को अपनी इच्छा से जीव दिया है ॥७॥

चउपाई ।

एहि विधि चौन्हु करहु गिआनू । जस पुरान मँह लिखा बखानू ॥
जौउ नाहिँ पइ जिअद गोसाई॑ । कर नाहौं पइ करइ सबाई॑ ॥
जौभ नाहिँ पइ सब किछु बोला । तन नाहौं जो डोलाउ सो डोला ॥
स्वन नाहिँ पइ सब किछु सुना । हिअ नाहौं गुननाँ सब गुना ॥
नयन नाहिँ पइ सब किछु देखा । कवन भाँति अस जाइ बिसेखा ॥
ना कोइ होइ हइ ओहि के रूपा । ना ओहि अस कोइ अइस अनूपा ॥
ना ओहि ठाऊँ न ओहि बिनु ठाऊँ । रूप रेख बिनु निरमर नाऊँ ॥

दोहा ।

ना वह मिला न बेहरा अइस रहा भरि पूरि ।
दिसिटिवंत कहूँ नौअरे अंध मुरख कहूँ दूरि ॥८॥

गिआनू = ज्ञान । सबाई॑ = सब को । डोलाउ = डोलाता है = चलाता है । स्वन =
अवण = कान । जाइ विसेखा = विशेष रूप से वर्णन किया जाय । बेहरा = अलग ।
दिसिटिवंत = दृष्टिवन ।

इस प्रकार से चौहो और ज्ञान करो, जैसा कि (उस ईश्वर का) पुराण में वर्खान
(वर्णन) लिखा है ॥ जौव नहौं है, पर वह गोसाई॑ (गो-खामी = सब इन्द्रियों का पति)
जीता है । उस को कर (हाथ) नहौं है, पर सब को करता है ॥ “उस को” का
सर्वत्र योजना करना चाहिए । जौभ नहौं है, पर सब कुछ बोलता है । तन (तनु =
शरीर) नहौं है, पर जो डोलाता है वही डोलता है । अवण नहौं है, पर सब कुछ
सुनता है । हिअ (हृदय) नहौं है, पर सब गुनना (विचार) को गुना (विचारा)
करता है ॥ नयन (नेत्र = आँख) नहौं है, पर सब कुछ देखता है । किस प्रकार से
ऐसे का विशेष रूप से वर्णन किया जाय ॥ उस के रूप के ऐसा न कोई होता है और न
कोई है । और न उस के ऐसा कोई है और न कोई ऐसा अनुपम है । यहाँ देहली दीप
न्याय से यदि “कोई” का दोनों ओर अन्यथ किया जाय तो यन्य लग जाता है ।
अथवा “अइस” के स्थान में “होइ” पाठ किया जाय, तो उस के ऐसा कोई अनुपम
नहौं होता है, यह ठौक अर्थ बैठ जाता है । ऐसा न करने से “अस” और “अइस”

दोनों शब्द एक-ही अर्थ के बोधक एक के अपेक्षा एक वर्थ पड़ जाते हैं ॥ न उस को स्थान है, और उस के विना कोई स्थान-ही नहीं है, अर्थात् वह सर्वत्र आप है । रुद्ध और रेखा (चिन्ह) के विना वह है, इसी से उस का निर्मल, मल कर के रहित, अर्थात् सच्चिदानन्द नाम पड़ा है ॥

न वह किसी से मिला है न किसी से अलग है, (संसार में) ऐसा भरा पूरा हो रहा है, कि देखने-वालों के तो नौशरे (नगौच) हैं, और अन्धे मूर्ख को दूर ॥ ८ ॥

चउपाई ।

अउर जो दीन्हेसि रतन अमोला । ता कर मरम न जानइ भोला ॥
दीन्हेसि रसना अउ रस भोग । दीन्हेसि दसन जो विहँसइ जोगू ॥
दीन्हेसि जग देखइ कहँ नयना । दीन्हेसि स्वन सुनइ कहँ बयना ॥
दीन्हेसि कंठ बोलि जेहि माँहा । दीन्हेसि कर-पङ्कज वर बाँहा ॥
दीन्हेसि चरन अनूप चलाहीै । सो पइ मरम जानु जेहि नाहीै ॥
जोबन मरम जानु पइ बूढा । मिला न तरुनापा जग ढूढा ॥
दुख कर मरम न जानइ राजा । दुखौ जानु जा कहँ दुख बाजा ॥

दोहा ।

कया क मरम जानु पइ रोगौ भोगौ रहइ निचिंत ।
सब कर मरम गोसाईै जानइ जो घट घट मँह निंत ॥ ९ ॥

रतन = रत्न । अमोला = अमूल्य । भोला = सौधा आदमी, भोलना = ज़िक्रा ।
दसन = दशन = दन्त । वयना = वचन । कर-पङ्कज = कर-पङ्कज = अङ्गूष्ठी । वर = श्रेष्ठ ।
बाहाँ = बाझ । चलाहीै = चलते हैं । तरुनापा = जवानी । बाजा = शब्द किया वा
बजनी किया = लडाई किया । कया = काय = शरीर । निचिंत = निश्चिन्त = विना
चिन्ता का । निंत = नित्य ।

और उस ईश्वर ने (इन्द्रिय-रूपी) अमूल्य रत्न को जो दिया है, सौधा आदमी
उस के मर्म को नहीं जानता ॥ (देखो) ज़िक्रा को दिया, और उस के भोग के लिये
अनेक रस को दिया । दाँतों को दिया जो हँसने के योग्य हैं ॥ संसार को देखने के
लिये नेत्र को दिया । वचन को सुनने के लिये कान को दिया । कण्ठ को दिया जिस

के बौच में बोली रहती है। अँगुली और श्रेष्ठ बाज़ को दिया ॥ अनुपम चरण को दिया जो कि चलते हैं। इन सब का मर्म सोई जानता है, जिस को कि ये सब नहीं हैं ॥ जवानी का मर्म निश्चय कर के (पद=अपि=निश्चय) बूढ़ा जानता है। क्योंकि उस ने जग में ढूँढ़ा परन्तु जवानी न मिली। बूढ़े की कमर झुँक जाती है, इस लिये वह पृथ्वी की ओर दृष्टि कर चलता है। कवि को उत्तेजा है, कि नौची दृष्टि कर के जो बूढ़ा चलता है, वह जवानी को ढूँढ़ रहा है, जो कि फिर नहीं मिलती ॥ राजा दुःख का मर्म नहीं जानता। दुःखी जो प्राणी है, जिस के ऊपर दुःख ने चढाई किया है, वह दुःख का मर्म जानता है ॥ यहाँ “सुख” पाठ अच्छा है क्योंकि राजा सुख का मर्म नहीं जानता, कि उस में क्या आनन्द है। जिस पर दुःख ने चढाई किया है, वह दुःख निवृत्त होने पर सुख का पूरा अनुभव करता है। राजा का तो ख़स की टट्टी के नौचे जन्म-ही ज़ज्ज्वल है, वह उस के सुख को कैसे जाने। जेठ की दुपहरी से झुलसा ज़ज्ज्वल यदि ख़स के टट्टी की छाया में आवे, तब उस को जान पड़ेगा, कि ख़स के टट्टी की छाया में क्या आनन्द है ॥

शरीर का मर्म रोगी जानता है, और भोगी तो निश्चिन्न रहता है, अर्थात् बेफिकिर हो अपनी-ही शरीर के ऐसा सब का शरीर समझता है। गोसाई, जो ईश्वर, नित्य सब के घट घट में रहता है, वह सब का मर्म जानता है ॥ इस दोहे में कई मात्रा बढ़ी ज़र्दी है ॥ ईसी प्रकार इस ग्रन्थ में दोहाओं की मात्रा प्रायः घट बढ़ है ॥ दोहाओं के मात्राओं का ठीक न रहना, और सर्वत्र सात सात चौपाई के अनन्तर दोहे का रहना, इन सब का कारण २१ वें दोहे में लिखा जायगा ॥ ८ ॥

चउपाई ।

अति अपार करता कर करना । बरनि न पारद काह्न बरना ॥
 सात सरग जउँ कागद करई । धरती सात समुद मसि भरई ॥
 जावँत जगत साख बन-ढाँखा । जावँत केस रोवँ पँखि पाँखा ॥
 जावँत खेह रेह जहँ ताँँ । मेघ बूँद अउ गगन तराई ॥
 सब लिखनी कइ लिखु संसारु । लिखि न जाइ गति समुद अपारु ॥
 अइस कौन्ह सब गुन परगटा । अब-हँ समुद बूँद नहिँ घटा ॥
 अइस जानि मन गरब न होई । गरब करद मन बाउर सोई ॥

दोहा ।

बड गुनवंत गोसाईँ चहइ सो होइ तेहि बेग ।
अउ अस गुनी सँवारइ जो गुन करइ अनेग ॥ १० ॥

पारद = पार हो सकता है । काळ्ह बरना = किसी भाँति = किसी प्रकार । साख = शाखा । बन-ढाँखा = वन के ढाँकने-वाले, अर्थात् वृक्ष । केस = केश = बार । रोवँ = रोम । पाँखा = पच । लिखनी = लेखनी = कलम । अनेग = अनेक ॥

कर्त्ता (परब्रह्म) का करना (करण, अर्थात् कर्त्तव्य) अति अपार है । किसी प्रकार वर्णन कर पार नहीं हो सकता ॥ सात खर्ग और धरती को यदि कागद करे, और सात समुद्र में मसि (स्थाही) को भरे ॥ जगत में जितने वृचों की शाखा । जितने (मनुष्यों के) बाल और रोम, जितने पच्चियों के पच ॥ जितनी जहाँ तक मिट्ठी और रेह । मेघ के बूँद, और आकाश के तारे हैं ॥ सब को कलम बना कर संसार (संसार भर के लिखने-वाले) लिखे । तो भी उस ईश्वर की समुद्र के ऐसी अपार जो गति है, वह लिखी न जाय ॥ ऐसा ईश्वर ने सब गुणों को प्रगट किया है (कि उन में आज तक रक्ती भर भेद नहीं झशा, ज्यों के त्यों बने हैं, इस पर समुद्र का एक दृष्टान्त दिखाते हैं) । आज तक समुद्र में एक बूँद नहीं घटा, अर्थात् जैसा का तैसा बना है ॥ ऐसा जान कर मन में गर्व न होना चाहिए । जो मन में गर्व करता है सो बौरहा है ॥

वह गोसाईँ ऐसा गुनवन्न (गुण से भरा है) है, कि जिस के लिये जो चाहता है, तिस को सो बेग (श्रौत्र) होता है । और ऐसा गुणी को बनाता है, जो स्वयं अनेक गुण करता है, अर्थात् जिस को स्वयं ऐसी शक्ति हो जाती है, कि अनेक गुण को बनावे । ऐसा ईश्वर ने किस को बनाया है । इस का सम्बन्ध अगली चौपाई में लगा कर, यन्थ-कार ने परब्रह्म का वर्णन समाप्त किया ॥ १० ॥

चउपाई ।

कौन्हेसि पुरुख एक निरमरा । नाउँ मुहम्मद पूनिउँ करा ॥
प्रथम जोति बिधि तेहि कइ साजौ । अउ तेहि प्रौति सिसिटि उपराजौ ॥
दौपक लेसि जगत कहूँ दौन्हा । भा निरमर जग मारग चौन्हा ॥
जाउँ नहिँ होत पुरुख उँजिआरा । हूँझि न परत पंथ अँधिआरा ॥

दोसरे ठाँ दई बेड़ लिखे । भण धरमी जेड पाढत सिखे ॥
जेड नहिं लौन्ह जनम भरि नाजँ । ता कहूँ कौन्ह नरक मँह ठाँ ॥
जगत बसौठ दई ओहि कौन्हा । दुहुँ जग तरा नाउँ जेड लौन्हा ॥

दोहा ।

गुन अउगुन विधि पूँछब होइहि लेख अउ जोख ।
वह बिनउब आगइ होइ करब जगत कर मोख ॥ ११ ॥

पूनिँ करा = पूर्णिमा की कला । लेसि = बार कर । पाढत = पाठ । बसौठ = दूत ।
अउगुन = अवगुण । पूँछब = पूँछेंगे । होइहि = होगा । बिनउब = बिनतौ करेंगे । करब =
करेंगे । मोख = मोच ॥

उस ईश्वर ने मुहम्मद नाम पूर्णिमा के चन्द्र के कला, ऐसा एक निर्मल पुरुष को किया ॥ विधि (ब्रह्मा) ने सब से पहले तिथि की ज्योति को सजा और तिसी के प्रसन्नार्थ सृष्टि को उत्पन्न किया ॥ (ब्रह्मा ने) जगत को दीपक बार कर दिया, अर्थात् जगत में मुहम्मद को दीपक के ऐसा प्रज्जलित किया । इसी लिये संसार (संसार के लोग) निर्मल हो गया (= भा), और मार्ग को पहचान लिया ॥ यदि ऐसा उँजियारा पुरुष न होता, तो अँधियारे में पन्थ (राह) न सूझ पड़ती ॥ वह दई (मुहम्मद देव) उन लोगों को दूसरे स्थान में लिखे, जो लोग कि उन के पढाये झये पाठ को सिख लिये ॥ और जिन लोगों ने जन्म भर (उन के पढाये झये पाठ का) नाम तक नहीं लिया । उन के लिये नरक में स्थान किया ॥ पिछली चौपाई में दूसरे स्थान से खर्ग लेना चाहिए । मुसल्मानों में प्रसिद्ध है, कि धर्मी के लिये खर्ग और पायियों के लिये नरक लिखा जाता है । उसी लेख के अनुसार प्रलय में विचार किया जाता है ॥ देव (ईश्वर) ने जगत में उस को (मुहम्मद को) अपना दूत किया (बनाया) । इस लिये जिसने (मुहम्मद का) नाम लिया, वह दोनों जग (यह लोक और परलोक) को तैर गया । मुहम्मद का नाम लेने से, इस लोक में मुहम्मद की क्षणा से सुख, और परलोक में, ईश्वर के दूत होने से, ईश्वर के यहाँ उस पुरुष की मुहम्मद ने जो प्रशङ्खा की, इस से सुख ॥

(प्रलय के समय में) ब्रह्मा गुण अवगुण पूँछेंगे, और लेखा (हिसाब) जोखा (तौल) होगा । वही मुहम्मद आगे हो कर बिनतौ करेंगे, और जगत का मोच करेंगे ॥ यहाँ यन्थ-कार ने विधि (ब्रह्मा) और ईश्वर में अभेद माना है ॥ ११ ॥

चउपाई ।

चारि मौत जो मुहमद ठाऊँ । चह्ल क दुहुँ जग निरमर नाऊँ ॥
 अबा बकर सिद्धौक सयाने । पहिलइ सिदिक दीन वेद आने ॥
 मुनि सो उमर खिताब सोहाए । भा जग अदल दीन जो आए ॥
 पुनि उसमान पँडित बड गुनौ । लिखा पुरान जो आयत सुनौ ॥
 चउथइ अलौ सिंघ बरिआरु । चढइ तो काँपइ सरग पतारु ॥
 चारिउ एक मतइ एक बाता । एक पंथ अउ एक सँधाता ॥
 बचन एक जो सुनावहिं साँचा । भा परवाँन दुहुँ जग बाँचा ॥

दोहा ।

जो पुरान विधि पठवा सोई पढत गरंथ ।

अउरु जो भूले आवतहि तेहि सुनि लागहिं पंथ ॥ १२ ॥

मौत = मित्र । मतइ = मते = मत मेँ । सँधात = संधात = साथ । परवाँन = प्रमाण ॥

मुहमद के स्थान मेँ जो चारो मित्र थे, उन चारों का दोनों जगत मेँ निर्मल नाम है ॥ पहले का नाम अबा बकर सिद्धौक (अबू बकर सिद्धौक) था, वह बडे सयाने (चतुरे) थे, उन्होंने (संसार मेँ) सिद्धौक दीन (सत्य धर्म) को आने, ले आये, अर्थात् प्रगट किया ॥ फिर दूसरे जो थे, सो उमर नाम के थे, जिन को कि (खलौफा की) पदवी शोभित थी । जो कि (जब मुहमद के) धर्म मेँ आए, तब जगत मेँ न्याय झआ, अर्थात् जगत न्याय से छाय गया ॥ फिर उनके अनन्तर, तौसरे उसमान नाम के थे, जो कि वडे पण्डित और गुणी थे, जिन्होंने कि उस पुरान (कोरान) को लिखा, जैसा कि आयतेँ (मन्त्रेँ) को (ईश्वर से) सुना ॥ चौथे अलौ नाम के सिंह के ऐसे बलिष्ठ थे । जब वे लडाई करने को चढँ, तो खर्ग और पाताल कँपने लगे ॥ चारो मित्र एक मत, एक बात, एक राह और एक साथ मेँ रहते थे ॥ चारो जो एक सत्य वचन को सुनाते हैं, वह (सर्वत्र) प्रमाण की गई, और दोनों जगत मेँ बाँची गई, अर्थात् आदर से पढ़ी गई । अथवा उस वचन का (जिस को) प्रमाण झआ, वह दोनों जग से बँच गया ॥

ब्रह्मा ने जिस पुरान (कोरान) को भेज दिया था, उसी ग्रन्थ को वे लोग पढ़ते हैं । और लोग (ईश्वर के यहाँ से) आवने मेँ जो (ईश्वर की राह को) भूल गये हैं, सो तिस ग्रन्थ को सुन कर पंथ (ईश्वर की राह) मेँ लग जाते हैं ॥ १२ ॥

इस प्रकार से अपने मत के आचार्य का वर्णन कर अब अपने समय के राजा का वर्णन यन्त्र-कार करता है ।

चउपाई ।

सेर साहि देहिलौ सुलतानू । चारि-उ खंड तपइ जस भानू ॥
आहौ छाज राज अउ पाटू । सब राजइ भुइ धरा लिलाटू ॥
जाति सूर अउ खाँडइ सूरा । अउ बुधिवंत सबइ गुन पूरा ॥
सूर-नवाँई नवो खँड भई । सात-उ दीप दुनौ सब नई ॥
तहँ लगि राज खरग बर लौन्हा । इसकंदर जुलकरन जो कौन्हा ॥
हाथ सुलेमाँ केरि अँगूठौ । जग कहँ जिअन दीन्ह तोहि मूठौ ॥
अउ अति गरु पुहुमि-पति भारौ । टेकि पुहुमि सब सिसिटि सँभारौ ॥

दोहा ।

दीन्ह असौस मुहमद करहु जुग हि जुग राज ।
पातिसाहि तुम्ह जगत के जग तुम्हार मुहताज ॥ १३ ॥

भानू = भानु = सूर्य । पाटू = पट = सिंहासन । लिलाटू = ललाट = मस्तक । खाँडइ = खाँडे मैं = तरवार मैं । सूर = बहादुर । बुधिवंत = बुद्धिमान् । सूर-नवाँई = बहादुरों की झुकावट अर्थात् नीचा होना । दुनौ = दुनिया = प्राणी लोग । नई = झुक गई = नीचे पड़ गई । खरग = खड़ । बर = बल । इसकंदर = सिकन्दर । जुलकरन = दो सौँगवाला । सुलेमान = यह्वदौ एक बादशाह । पुज्जमि-पति = पृथ्वीपति । पातिसाहि = बादशाह । मुहताज = भिखरमंगा = भिन्नुक ।

दिल्ली का सुलतान (बादशाह) शेर शाह (पृथ्वी के) चारो (खण्ड) भाग मैं अर्थात् पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसा तपता है जैसे सूर्य ॥ उसी को (शेर शाह को) राज्य और सिंहासन सोहता है, (उस के आगे) सब राजाओं ने पृथ्वी मैं अपने मस्तक को धरा अर्थात् रख दिया (हार मान कर प्रणाम करने मैं शिर को झुँका लिया) ॥ वह बादशाह जाति मैं सूर अर्थात् सूरबंश का है (सूर एक अफगानों के जाति का नाम है) । उसी जाति मैं शेर शाह उत्पन्न झ़आ था) और तलवार मैं भौ सूर अर्थात् बहादुर है । और बुद्धिमान और सब गुणों मैं पूरा है ॥ जम्बूदीप के नवो खण्डों (भारतवर्ष,

किन्नरवर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्यवर्ष, रम्यकवर्ष, भद्राश्वर्ष, केतुमालकवर्ष और दूलाटत) में (उस के आगे) बहादुरों की नवाँई झई अर्थात् बहादुरों को नौचा खाना पड़ा । और (उस के आगे) सातो दीप (जम्बूदीप, शाक, शाल्मल, कुश, कौच, गोमेदक और पुष्करदीप) की सब दुनिया (प्राणी) नय गई (झुँक गई, अर्थात् सब कोई उस के ग्रहण में आ गये) ॥ उस ने अपने खड़ के बल से तहाँ तक राज्य (अपने अधिकार में) ले लिया, जहाँ तक कि दो सौँगवाला सिकन्दर बादशाह ने किया था ॥

सिकन्दर के शिर में सौँग का होना परम्परा से प्रसिद्ध है । कहावत है कि एक दिन बीमार पड़ जाने से सिकन्दर के हजाम ने बाल बनाने के लिये अपने पुत्र बब्बन हजाम को भेजा । बाल बनाने के अनन्तर सिकन्दर ने डाँट कर बब्बन से कहा कि खबर्दार मेरे शिर में सौँग का होना किसी से न कहना, नहीं तो शिर कटवा लूँगा । उस का कहे विना पेट फूलने लगा, तब मनुष्यों से न कह कर, एक बगीचे में, जो बड़ा पुराना कटहर का पेंड था, उस से कह, अपने पेट को हल्का किया (जड़ कटहर किस से जा कर कहे?) । निदान विना कहे उस का भी यहाँ तक पेट फूला कि कुछ दिनों में सूख गया । एक बढ़दू ने उसे मोल ले कर, उस की दो सारंगी और एक सुन्दर तबला बनाया । कत्यकों ने उन सुन्दर सारंगियों को और तबले को मोल ले कर सिकन्दर के दर्बार में गाना सुनाने को गये । उन लोगों ने लाख उपाय किया परन्तु उन से कोई शब्द न निकले केवल एक सारंगी सौँग सौँग दूसरी किन किन कहे । इस पर तबले से आवाज निकले कि बब्बन हजाम । इस का भेद बादशाह को रखुल गया । बब्बन को बुला कर एकान्त में पूछा कि तुम सच कहो मेरे शिर में सौँग का होना तुम ने किसी से कहा? । अभय-दान पाने पर बब्बन ने कटहर से कहना कहा । अन्त में जान पड़ा कि उसी कटहर की ये सारंगियाँ और तबला हैं ॥

(शेर शाह के) हाथ में सुलेमान की अँगूठी थी, तिसी मूठी से (जिस में अँगूठी थी) जग को (जगत भर के प्राणियों को) जीवन दान दिया ॥

कहावत है कि जिस के हाथ में सुलेमान की अँगूठी हो, वह रात दिन लोगों को रुपया पैसा देता रहे, परन्तु उस की मूठी खाली न हो ॥

और वह भारी पृथ्वी-पति (बादशाह) अत्यन्त गुरु था, अर्थात् भारी था, कि पृथ्वी को टेक कर (रोक कर) सब सृष्टि को सँभार लिया, अर्थात् सृष्टि में जितने प्राणी थे सब का बोझा (पालन, आच्छादनादि का) अपने शिर पर उठा लिया ॥

मुहम्मद ने आशीर्वाद दिया कि तुम युग युग राज करो, (युग के लिये ५वें दोहे की टीका देखो) तुम जगत भर का बादशाह हो, और सारा जग (संसार) तुम्हारा मुहताज हो, अर्थात् सब कोई तुम से माँगने की आशा करे, और तुम सब के दाता कहावो। यहाँ मुहम्मद से मुसल्मानी मत के आचार्य और इस ग्रन्थ का कवि दोनों का शहण करने से अर्थ में भेद नहीं पड़ता ॥ १३ ॥

इस चौपाई में ग्रन्थ-कार जो शेर शाह को गुरु बनाया। उस का समर्थन अगली चौपाई में है ॥

चउपाई ।

बरनउँ सूर पुहुमि-पति राजा । पुहुमि न भार सहइ जेहि साजा ॥
हय-मय सेन चलइ जग पूरी । परबत टूटि उडहिँ होइ धूरी ॥
रइनि रेनु होइ रविहि गरासा । मानुस पंखि लेहिँ फिरि बासा ॥
भुइँ उडि अँतरिख गड़ मित मंडा । खँड खँड धरति सिसिटि ब्रहमंडा ॥
डोलइ गगन इँदर डरि काँपा । बासुकि जाइ पतारहि चाँपा ॥
मेह धसमसइ समुद सुखाहीँ । बन-खँड टूटि खेह मिलि जाहीँ ॥
अगिलहि काहु पानि खर बाँटा । पछिलहि काहु न काँदउ आँटा ॥

दोहा ।

जो गढ नण्ड नहिँ काहुही चलत होहिँ सब चूर ।
जबहि चढइ पुहुमी-पति सेर साहि जग-सूर ॥ १४ ॥

हय-मय = घोडे से भरी । रइनि = रात्रि = रजनी । रेनु = रेणु = धूरी । रविहि = रवि को = सूर्य को । गरासा = गास किया । बासा = वास-स्थान = बसेरा । मित = मृत = मृत्तिका = मट्ठी । मंडा = माँड दिया = मर्दन कर डाला । इँदर = इन्द्र । बासुकि = बासुकि = एक प्रकार का सर्प जो पृथ्वी के नीचे रहता है । चाँपा = चाँपाया = दबाया । धसमसइ = धँस जाता है । बन-खँड = बन-खण्ड = बन-विभाग । अगिलइ = आगे को खर = हण = घास । काँदउ = काँदो = कीचड । आँटा = पूरा पड़ा । नण्ड = झुँका ।

उस सूर जाति वा बहादुर और पृथ्वी के पति राजा (शेर शाह) का वर्णन करता है, अर्थात् कैसा गुरु राजा है उसका वर्णन करता है। जिस राजा के साज (तथारी)

का भार पृथ्वी नहीं सहती है ॥ (जिस समय) घोडे से भरौ सेना जग को पूरा कर अर्थात् पृथ्वी भर में फैल कर चलती है, (उस समय) पर्वत टूट कर धूर हो कर उडने लगते हैं ॥ धूर रात्रि हो कर सूर्य को घास लेती है, अर्थात् छिपा लेती है, मनुष्य और पक्षी (रात समझ कर) फिर कर (लौट कर) बसेरा लेने लगते हैं ॥ भूमि उड कर अन्तरिक्ष को चली गई, मृत्तिका ने धरती के खण्ड खण्ड (प्रत्येक विभाग) को, (विधि की) सृष्टि (मात्र) को और ब्रह्माण्ड को मर्दन कर डाला, अर्थात् सर्वत्र धूर व्याप्त हो गई, धूर छोड़ और कुछ नहीं दिखाई देता है ॥ आकाश धूमने लगता है, इन्द्र (देवताओं का राजा) उर कर काँपने लगता है, वासुकि जा कर पाताल को चाँपता है ॥ भेरु (देवताओं का पर्वत) नीचे धूंस जाता है, समुद्र सूख जाते हैं वन-विभाग टूट कर, अर्थात् छिन्न भिन्न हो कर, मट्टी में मिल जाते हैं ॥ आगे के (घोड़ों को) किसी किसी को पानी और घास बाँटा गया, (परन्तु) पिछले में किसी (घोड़ों) को काँदो तक न आँटा, अर्थात् न पूरा पड़ा ॥

जो गढ़ कभी भी नहीं झँके थे, वह सब जब पृथ्वी का पति जग का बहादुर शेर ग्राह चढ़ाई करता है (उस समय सेना के) चलते-ही चूर हो जाते हैं, अर्थात् ऐसा गुरु (भारौ) राजा है, कि उस के भार को कोई नहीं सँभार सकता ॥ १४ ॥

चउपाई ।

अदल कहउँ पुहुमौ जस होई । चाँटहि चलत न दुखवइ कोई ॥
नउसेरवाँ जो आदिल कहा । साहि अदल सरि सोउ न अहा ॥
अदल कौन्ह उमर कइ नाई । भइ आहा सगरौ दुनिआई ॥
परौ नाँथ कोइ छुआई न पारा । मारग मानुस सोन उछारा ॥
गोरु सिंध रेंगहिं एक बाटा । दून-उ पानि पिअहिं एक घाटा ॥
नौर खौर छानइ दरबारा । दूध पानि सब करइ निरारा ॥
धरम निआउ चलइ सत-भाखा । दूबर बरौ एक सम राखा ॥

दोहा ।

पुहुमौ सबइ असौसई जोरि जोरि कइ हाथ ।
गाँग जउँन जल जब लगि तब लगि अमर सो माथ ॥ १५ ॥

अदल = न्याय । नउसेरवाँ = नौशेरवाँ = एक बादशाह । आदिल = न्यायी । आहा = सावसी = वाह वाह = प्रशंसा । दुनिश्चार्दैँ = दुनिया में । नाँथ = नथ = स्त्रियों के नाक का एक आभूषण । पारा = सकता है । सोन = सोना = स्वर्ण । उक्कारा = उक्कालते हैं = लोकाते हैं । गोरू = गाय बैल इत्यादि जन्तु, जिन्हें पाल कर लोग चराते हैं । रँगहिँ = रँगते हैं = चलते हैं । नौर = जल । खौर = चौर = दुर्घ । निरारा = अलग । निअउ = न्याय । बरौ = बलौ । गाँग = गङ्गा । जउँन = यमुना ॥

(शेर शाह के समय में) पृथ्वी में जैसा न्याय होता है उस को कहता है, कि चलते में कोई चौंटे को भी नहीं दुःख देता है ॥ जो कि नौशेरवाँ न्यायी कहा गया है, शाह (शेर शाह) के न्याय की बराबरी में वह भी नहीं है, अर्थात् शेर शाह नौशेरवाँ से भी अधिक न्यायी है ॥ उमर (जिस की चर्चा १२ वें दोहे में कर आये हैं) के ऐसा (शेर शाह ने) न्याय किया । सगरौ (सब) दुनियाँ में आहा आहा हो गया, अर्थात् जहाँ देखो तहाँ शाह के न्याय के प्रशंसा की ध्वनि हो रही है ॥ (राह में) पडौ (गिरौ) झई नथ को कोई (उठाना तो दूर रहे) कु नहीं सकता । मार्ग में मनुष्य लोग सोने को उक्कालते हैं, अर्थात् सोने को लोकाते ज्यें चलते हैं, परन्तु किसी की सामर्थ्य नहीं कि छौने ॥ गोरू और सिंह एक-ही वाट (राह) में चलते हैं, अर्थात् बादशाह के न्याय के भय से आपस का वैर भाव सब छोड़ दिये हैं । दोनों (गोरू और सिंह) एक-ही घाट पर पानी पौते हैं ॥ (शेर शाह) दर्बार में पानी और दूध की छान करता है, (ऐसा छान करता है कि) दूध पानी सब अलग अलग कर देता है, अर्थात् जैसे दूध में पानी मिल जाने से दूध-ही ऐसा समझ पड़ता है, उसी प्रकार जिस सोकद्दमें में झूठ और सच दोनों मिल कर सब सच्च ही समझ पड़ता है, वहाँ भी रूब छान कर झूठ और सच अलग अलग कर डालता है ॥ धर्म न्याय और सत्य-भाषा (सत्यवचन) से चलता है । दुर्बल और बली को एक सा रखता है ॥

सब पृथ्वी (पृथ्वी पर के सब लोग) हाथ जोर जोर कर आशीर्वाद देती है, कि जब तक गङ्गा और यमुना में जल रहे तब तक वह जो माथ (सब के मस्तक के सदृश) है सो अमर रहे ॥ १५ ॥

चउपाई ।

पुनि रुपवंत बखानउँ काहा । जावँत जगत सबइ मुख चाहा ॥
ससि चउदसि जो दई सवाँरा । ते-हँ चाहि रूप उँजिआरा ॥

पाप जाई जउँ दरसन दौसा । जग जुहारि कइ हैङ्ग असौसा ॥
जइस भानु जग ऊपर तपा । सबइ रूप ओहि आगइ छपा ॥
अस भा स्वर पुरुख निरमरा । स्वर चाहि दस आगरि करा ॥
सउँह दिसिटि कइ हेरि न जाई । जोइ देखा सो रहा सिर नाई ॥
रूप सवाई दिन दिन चढा । विधि सुरूप जग ऊपर गढा ॥

दोहा ।

रूपवंत मनि माँथइ चाँद घाटि ओहि बाढि ।
मेदिनि दरस लोभानौ असतुति बिनवइ ठाढि ॥ १६ ॥

रूपवंत = रूपवान् । काहा = क्या । चाहा = चाहता है । चउदसि = चतुर्दशी । चाहि =
चय कर = बढ़ कर । दौसा = देखा । जुहारि = प्रणाम = सलाम । आगरि = अग्रा = श्रेष्ठ ।
सउँह = सैँह = समुख । हेरि = देख । माँथइ = माँथे में । चाँद = चन्द्र । मेदिनि =
मेदिनौ = पृथ्वी ॥

फिर (वह) ऐसा रूपवान है, कि क्या बखान करूँ । जगत में जितने लोग हैं, सब
(उस के) सुख को चाहते हैं ॥ ब्रह्मा ने चतुर्दशी के चन्द्रमा को जो बनाया है (पूर्णिमा
के चन्द्रमा में विशेष कर के कलङ्क देख पड़ता है इस लिये यहाँ उसे छोड़ दिया है)
तिस से भी बढ़ कर (उस का) उज्ज्वल रूप है ॥ यदि दर्शन दीख पडा, अर्थात् उस के
रूप का दर्शन हो गया तो पाप चला जाता है । जगत (जगत के सब लोग) सलाम
कर कर के (उसे) आशीर्वाद देता है ॥ जैसे जग के ऊपर सूर्य तपता है (उसी प्रकार
यह भी तप रहा है, इसी लिये) उस के आगे सब रूप किप गया ॥ ऐसा (वह) सूर
जाति वा बहादुर अथवा सूर्य निर्मल पुरुष झआ, कि सूर से बढ़ कर दश गुनी
(उस में) श्रेष्ठ कला है ॥ (पहली चौपाई में जिस सूर को यहण करना वही दूसरी में
भी क्रम से लेना चाहिए) । सामने दृष्टि कर (वह) देखा नहीं जाता । जिस ने देखा
वह शिर भुँका कर रह गया ॥ (उस का) दिन दिन सवाई रूप चढ़ता है । ब्रह्मा ने
उस का सुन्दर रूप जग के ऊपर गढा है, अर्थात् सब से बढ़ कर बनाया है ॥

ऐसा रूपवान है कि (उस के) माँथे में मणि (ज्योति) है । (जो बड़त रूपवान्
होता है, उस का माँथा ऐसा चमकता है, मानें उस में मणि है) । उस के (रूप के)
बाढ़ के आगे चाँद घट गया ।

मेदिनी (पृथ्वी पर के लोग) (उस के) दर्शन के लिये लुभा गई, खड़ी हो कर (उस की) सुति की विनय करती है, अर्थात् बड़े विनय से उस की सुति करती है ॥१६॥

चउपाई ।

पुनि दातार दई बड़ कौन्हा । अस जग दान न काढ़ दीन्हा ॥
 बलि विकरम दानी बड़ आहे । हातिम करन तिआगौ कहे ॥
 सेर साहि सरि पूज न कोऊ । समुद्र सुमेरु घटहिं निति दोऊ ॥
 दान डाँक बाजइ दरबारा । कौरति गई समुद्रही पारा ॥
 कंचन परसि सूर जग भण्ड । दारिद्र भागि दिसंतर गण्ड ॥
 जउ कोइ जाइ एक बेरि माँगा । जनमहु भण्ड न भूखा नाँगा ॥
 दस असमेध जग जोइ कौन्हा । दान पुनि सरि सोउ न दीन्हा ॥

दोहा ।

अइस दानि जग उपजा सेर साहि सुलतान ।
 ना अस भण्ड न होइही ना कोइ दोइ अस दान ॥१७॥

विकरम = विक्रम, अवन्ती का प्रसिद्ध दानी राजा, जिस का संबत् चलता है। हातिम = मुसल्मानों में प्रसिद्ध दानी। करन = कर्ण, भारत का प्रसिद्ध दानी। तिआगौ = त्यागी। डाँक = डङ्गा। दिसंतर = देशान्तर। असमेध = अश्वमेध। जग = यज्ञ। पुनि = पुष्ट ॥

फिर ईश्वर ने (उस को) बडा भारी दाता किया। ऐसा दान जग में किसी ने नहीं दिया ॥ बलि (पाताल का राजा जिस से भगवान् वामन-खूरुप हो कर साढे तीन पैर भूमि माँगी थी) और विक्रम बडे दानी थे (= आहे) । हातिम और कर्ण को भौ लोग त्यागी अर्थात् बडे दानी कहे हैं ॥ परन्तु शेर शाह की बराबरी में कोई नहीं पड़ँचा । (जिस के दान के आगे) समुद्र और सुमेरु दोनों नित्य घटते हैं, अर्थात् रबों के दान से समुद्र, और सुवर्ण के दान से सुमेरु, नित्य घट रहे हैं ॥ दर्वार में दान का डङ्गा बजता है, और समुद्र के पार कौर्ति (उस की) चली गई ॥ उस सूर को परसि (स्पर्श कर) संसार कञ्चन (सोना) हो गया, इस लिये दरिद्र भाग कर देशान्तर में चला गया, अर्थात् इस के राज्य से निकल कर दूसरे राज्य में चला गया ॥ यदि कोई जा कर (उस से) एक बेर भौ माँगा, तो फिर वह जन्म भर भूखा और नंगा न ज़आ ॥

जिसने दश अश्वमेध यज्ञ को किया है, सो भी (उसने भी) दान पुण्य में दूस की बराबरी नहीं दिया, अर्थात् नहीं किया ॥

ग्रेर शाह सुलतान (बादशाह) संसार में ऐसा दानी उत्पन्न ज्ञाना, कि दूस के ऐसा न कोई ज्ञाना, न कोई हेतागा, और न कोई ऐसा दान देता है (देह = देता है) ॥ १७ ॥
चउपाई ।

सद्ग्रद असरफ पौर पिच्चारा । तोइ मोहिँ पंथ दौन्ह उँजिआरा ॥
लेसा हिअद घेम कर दौआ । उठी जोति भा निरमर हौआ ॥
मारग हुता अँधेर अस्खा । भा अँजोर सब जाना बूझा ॥
खार समुदर पाप मोर मेला । बोहित धरम लौन्ह कद्द चेला ॥
उन्ह मोर करिअ पोढि कद्द गहा । पाण्डुँ तौर घाट जो अहा ॥
जा कहूँ होइ अइस कनहारा । ता कहूँ गहि लौइ लावद्द पारा ॥
दस्तगौर गाढे कद्द साथी । जहूँ अउगाह देहिँ तहूँ हाथी ॥
दोहा ।

जहाँगौर वेद चिसतौ निहकलंक जस चाँद ।
वेद मखटूम जगत के हउँ उन्ह के घर बाँद ॥ १८ ॥

सद्ग्रद = स्वेद । असरफ = अशरफ । पिच्चारा = प्यारा । घेम = प्रेम । दौआ = दौप = दौया । ज्ञता = धा । समुदर = समुद्र । मेला = डाल दिया । बोहित = बड़ी नाव । चेला = शिष्य । करिअ = कड़ी जो नाव को खोँचने के लिये नाव में लगी रहती है, कड़ी के बदले मज्जाह लोग छोटी नाव में खोँचने के लिये रस्सी भी लगा लेते हैं जिसे गोन कहते हैं । आज कल लोग उस डाँडे को करवारी कहते हैं, जो कि खेने के लिये नाव के अंगल बगल में बाँधा रहता है । पोढि कद्द = पुष्ट कर के = मजबूत कर के । गहा = पकड़ा । कनहारा = कर्णधार = पतवार को पकड़ने-हारा । दस्तगौर = हाथ पकड़ने-वाले = रक्षा करने-वाले । अउगाह = अवगाह = अगाध = अथाह । हाथी = हाथ । जहाँगौर = एक पदबी । चिसतौ = एक सुसल्लानीं की जाति । निहकलंक = निष्कलङ्क । मखटूम = मालिक = स्वामी । बाँद = बिना तनखाह का टहलुआ ॥

बादशाह को ईश्वर का अंश समझ कर, कवि ने पहले बादशाह का वर्णन किया, अब अपने गुरु-वरों का वर्णन करता है ॥

सैयद अश्वरफ यारे पौर (गुरु) थे, तिन्हों ने मुझ को उज्ज्वल पन्थ दिया, अर्थात् ईश्वर की सच्ची राह में प्रवृत्त किया ॥ (मेरे) हृदय में (ईश्वर के) प्रेम का दौया बार दिया, (जिस से) ज्योति उठी और हृदय निर्मल हो गया ॥ जो मार्ग असूझ और अँधेरा था, वह उज्ज्वल हो गया, (मैं) सब कुछ जान गया और समझ गया ॥

(उन्होंने) मेरे पाप को खारे समुद्र में डाल दिया, और (मुझे) चेला कर के अर्थात् शिष्य बना कर धर्म-रूपी नाव पर ले लिया, अर्थात् चढ़ा लिया ॥ उन्होंने मेरे (नाव की) कड़ी को मजबूत कर के पकड़ा, (जिस कारण) मैं तौर (टट) को पाया जहाँ कि घाट था ॥ जिस को ऐसा कर्ण-धार हो, तो वह कर्ण-धार तिस को पकड़ कर, ले कर पार लगा देता है ॥ वह हाथ पकड़ने-वाले और गाढ़े के (संकट समय के) साथी हैं । और जहाँ अधाह है तहाँ हाथ देते हैं, अर्थात् छूबती समय अपने हाथ को फैला देते हैं, जिस के आधार से छूबने-वाला बच जाता है ॥

उन की पदवी जहांगीर और जाति चिस्ती है । वे ऐसे निष्कलङ्क हैं, जैसा कि चन्द्र (दुइज का) । वे जगत् के स्वामी हैं मैं उन के घर का विना रूपये पैसे का ठहलुआ हूँ ॥ १८ ॥

चउपाई ।

तोहि घर रतन एक निरमरा । हाजी सेख सुभागद भरा ॥
 तोहि घर दुद दीपक उँजिआरे । पंथ देइ कहूँ दई सँवारे ॥
 सेख मुबारक पूनिउँ करा । सेख कमाल जगत् निरमरा ॥
 दुअउ अचल धुब डोलहिँ नाहीँ । भेह खिखिंद तिन्हु उपराहीँ ॥
 दीन्ह रूप अउ जोति गोसाईँ । कौन्ह खंभ दुहुँ जग कइ ताईँ ॥
 दुहुँ खंभ टेकी सब महौ । दुहुँके भार सिसिटि थिर रहौ ॥
 जो दरसइ अउ परसइ पाया । पाप हरा निरमर भइ काया ॥

दोहा ।

मुहमद तहाँ निचिंत पँथ जोहि सँग मुरसिद पौर ।
 जोहि रे नाउ अउ खेवक बेगि पाउ सो तौर ॥ १९ ॥

सुभागद = सुभाग्य । धुब = ध्रुव-तारा । ताईँ = तिन्हेँ । थिर = स्थिर । पाया = पैर ।

हरा = हर गया = नष्ट हो गया । मुरसिद् = गुरु । पौर = महानुभाव । नाउ = नाव ।
खेवक = खेने-वाला ।

तिन के (सैयद अश्रफ के) घर में, एक निर्मल रत्न, सुभाग्य से भरे, श्रेष्ठ हाजी झए ॥
तिन के (श्रेष्ठ हाजी के) घर में, देव ने (ईश्वर ने) (जगत् को) पथ देने के लिये दो
प्रज्ञलित दीपक बनाया, अर्थात् उत्पन्न किया ॥ एक का नाम श्रेष्ठ मुवारक, जिन की
पूर्णिमा के चन्द्र के ऐसी कला (शोभा) थी । दूसरे श्रेष्ठ कमाल, जो जगत् में निर्मल थे,
अर्थात् जिन में एक भी अवगुण नहीं था ॥ दोनों प्रव के ऐसे अचल (स्थिर) डोलते
नहीं थे, अर्थात् चलायमान नहीं होते थे । मेह जिस के ऊपर उत्तर प्रव, और खिखिंद,
कुखण्ड, जिस के ऊपर दक्षिण प्रव हैं, तिन दोनों पहाड़ों के भी ऊपर हैं ॥ गोमाई
(ईश्वर) ने (दोनों को) रूप और ज्योति दिया, और तिन दोनों को जग का खंभा
किया ॥ (ईश्वर ने) इन्हीं दोनों खंभों से सब मही (पृथ्वी) को रोक रक्खा, इन्हीं
दोनों के भार लेने से छृष्टि स्थिर रही है ॥ जो दर्शन करे और (इन के) पैर को
छूए, उन का (ज्ञानो) पाप नष्ट हो गया, और काया (शरीर) निर्मल हो गई ॥

मुहम्मद कवि कहते हैं, कि जिस के संग मैं (ऐसे) महानुभाव गुरु हैं, (वह जहाँ
हो). तहाँ-ही निश्चिन्त पथ है, अर्थात् उस की राह में किसी बात का डर नहीं ।
क्योंकि (रे मन) जिस को नाव और खेने-वाला है, सो (वह) शैतान तौर को पाता है,
अर्थात् शैतान पार हो जाता है ॥ यहाँ रे नौच-समोधन है । और गुरु को खेवक और
धर्म को नाव समझना चाहिए ॥ इस दोहे और इस के पिछले दोहे से स्पष्ट है, कि सैयद
अश्रफ मलिक मुहम्मद के मन्त्र-गुरु थे ॥ १६ ॥

चउपाई ।

गुरु मोहिदी खेवक मई सेवा । चलइ उताइल जोहिं कर खेवा ॥
अगुआ भण्ड सेख बुरहानू । पंथ लाइ जोहि दीन्ह गिआनू ॥
अलहदाद भल तोहि कर गुरु । दीन दुनौ रोसन सुरुखुरु ॥
सइअद मुहम्मद के वेद चेला । सिङ्ग पुरुख संगम जोइ खेला ॥
दानिआल गुरु पंथ लखाए । हजरत खाज खिजिर तोइ पाए ॥
भण परसन ओहि हजरत खाजे । लोइ मेरए जहं सइअद राजे ॥
ओहि सउँ मई पाई जब करनौ । उघरौ जीभ कथा कवि बरनौ ॥

दोहा ।

वेद सो गुरु हजँ चेला निति बिनवउँ भा चेर ।
ओहि हुत देखइ पाण्डुँ दिरिस गोसाईँ केर ॥२०॥

उताइल = शीघ्र । खेवा = बोझ से भरी नाव । अगुआ = आगे । पंथ = राह = मत ।
भल = अच्छे = श्रेष्ठ = भले । रोसन = प्रसिद्ध । सुखखुरु = सब के प्रिय । परसन = प्रसन्न ।
मेरए = मिलाए । करनौ = करणौ = योग्यता = लियाकत । उघरौ = रुलौ । बरनौ =
वर्णन किया । चेर = चेला = दास । दिरिस = दृश्य = देखने-योग्य रूप ॥


खेवक रूप जो मोहिदी (मुहिउद्दीन) जिन का खेवा बज्जत शीघ्र चलता है, मैं ने
उन की सेवा किया ॥ मोहिदी के अगुआ, अर्थात् अग (गुरु), शेख बुरहान झए, जिन्हेँ
ने जिस को (मोहिदी को) (अपने) पंथ (मत) में लगा कर ज्ञान दिया ॥ तिन के
(शेख बुरहान के) अच्छे गुरु अलहदाद (अलहदाद) थे, जो कि दीन (धर्म) में अर्थात्
धर्म के विषय में दुनिया में रोशन (प्रसिद्ध) और सर्व-प्रिय थे ॥ वे (अलहदाद) सैयद
मुहम्मद के चेले थे, जिन्हेँ ने सिद्ध-पुरुषों के सङ्गम (समाज) में खेल किया था, अर्थात्
बड़े बड़े सिद्धों को भी अपनी सिद्धाई से छका दिया था ॥ उन को (सैयद मुहम्मद को)
दानियाल गुरु ने पंथ (मत) को दिखाया, तिन्हेँ ने (दानियाल ने) हज़रत खाज
खिज़िर को पाया, अर्थात् उन से दानियाल की भेट हो गई ॥ हज़रत खाज खिज़िर उन
से (दानियाल से) प्रसन्न झए, और जहाँ सैयद राजी (सैयद राजी हामिद शाह) थे, वहाँ
ले जा कर (उन से) मिलाया, अर्थात् दानियाल को सैयद राजी का शिष्य बनाया ॥
इस प्रकार की गुरु परम्परा में जो मेरे गुरु मोहिदी हैं, उन से जब मैं ने योग्यता को
पाई, तब जौम रुलौ, और कवि (मैं) ने कथा का वर्णन किया ॥ अर्थात् उन के प्रसाद
से कवि झआ, और कथा (पदुमावती का वृत्तान्त) बनावने की शक्ति झई ॥

वे मोहिदी जो हैं, सो मेरे गुरु हैं, मैं (उन का) चेला हूँ, नित्य (उन का) दास
हो कर विनय करता हूँ, अर्थात् प्रत्यह उन की सुति किया करता हूँ। उन्हेँ से, अर्थात्
उन की जो छपा थी, उसी के प्रसाद से, ईश्वर का दृश्य रूप देखने पाया, अर्थात् उन्हेँ
के अनुग्रह से मैं भी सिद्ध हो गया ॥

मुसल्मान लोग मलिक मुहम्मद को निजामुद्दीन शैलिया के शिष्य परम्परा में कहते
हैं । इसी लिये मलिक मुहम्मद को चिलिया निजामिया कहते हैं । निजामुद्दीन शैलिया

मौर रहुमरो का विद्या-गुरु था । यह सन् १३२५ ई० में मरा है । इस का चेला सिराजुद्दीन, और सिराजुद्दीन का चेला शेख अलाउलहक़ था । अलाउलहक़ का पुत्र और शिष्य, पण्डोई का नूर कुतुब आलम था, जो कि सन् १४१५ ई० में मरा है । अलाउलहक़ का दूसरा शिष्य सैयद अशरफ जहांगीर था जिस की चर्चा १८ वें दोहे में कवि ने किया है । सैयद अशरफ का बड़ा प्रसिद्ध शिष्य शेख हाजी था । शेख हाजी के दो शिष्य थे एक का नाम शेख मुवारक, दूसरे का शेख कमाल । शेख नूर कुतुब आलम और सैयद अशरफ जहांगीर दोनों गुरु-भाई थे, और इन दोनों की आठवीं पीढ़ी में मलिक मुहम्मद ज्ञाए हैं ॥

मुसल्मान लोग इस प्रकार से इन के गुरु परम्परा को लिखते हैं ॥



इस गुरु परम्परा से और ग्रन्थ-कार के लेख से बहुत भेद है । लेख से तो स्पष्ट है कि मलिक मुहम्मद के मन्त्र-गुरु सैयद अशरफ और विद्या-गुरु मोहिदी थे ॥

कालपौ जो कि बुन्देल-खण्ड में है, वहाँ के रहने-वाले शेख बुरहान थे । ऐसा सुना जाता है, कि ये सौ वर्ष के हो कर ८७० हिजरी सन् (स. १५६२-६३६०) में मरे हैं ॥

गुरुओं के प्रसाद से जब मलिक मुहम्मद प्रसिद्ध कवि झए, तब अपनी प्रशंसा लिखने को तयार झए, नहीं तो अपनी प्रशंसा करना केवल अभिमान-सूचक है ॥ २० ॥

चउपाई ।

एक नयन कवि मुहम्मद गुनी । सोई बिमोहा जोई कवि सुनी ॥
 चाँद जइस जग बिधि अउतारा । दीन्ह कलंक कौन्ह उँजिआरा ॥
 जग सूझा एकद नयनाँहा । उआ सूक जस नखतन्ह माँहा ॥
 जउ लहि आँबहि डाम न होई । तउ लहि सुगँध बसाइ न सोई ॥
 कौन्ह समुदर पानि जउ खारा । तउ अति भण्ड अहुभ अपारा ॥
 जउ सुमेरु तिरसूल बिनासा । भा कंचन गिरि लागु अकासा ॥
 जउ लहि घरी कलंक न परा । काँचु होइ नहिँ कंचन करा ॥

दोहा ।

एक नयन जस दरपन अउ तेहि निरमर भाउ ।
 सब रुपवंतइ पाउँ गहि मुख जोहहिँ कद्र चाउ ॥ २१ ॥

बिमोहा = मोहित हो गया । अउतारा = अवतार दिया । नयनाँहा = नयन से = आँख से । उआ = उदय झआ । सूक = शुक यह । माँहा = मध्य = बौच । आँबहि = आम मैं । डाम = दर्भ = कुश के ऐसा बौर वा मञ्जरी । बसाइ = बासा जाता है । तिरसूल = चिशूल । चाउ = चाह = इच्छा ॥

(यद्यपि) मुहम्मद कवि को एक-ही नयन है, (तौ भौ) (मुहम्मद) ऐसे गुणी हैं, कि जिस कवि ने (इन की वाणी को) सुना सोई मोहित हो गया । कवि का अभिप्राय है कि यद्यपि मैं दोषी हूँ (काना होने से), तथापि उसी दोष के साथ मेरे मैं यह बड़ा भारी गुण है, कि मेरी कविता को जो सुनता है सोई आनन्द से मोहित हो जाता है ॥ ऐसा परम्परा से प्रसिद्ध है कि श्रीतला माता के निकलने से इन की एक आँख मारी गई, और चेहरा भौ खराब हो गया । एक बार एक राजा ने इन को न पहचान कर, महा कुरुप मुख को देख कर, बडे खर से कुछ व्यङ्ग बचन सुना कर हँसा, इस पर इन्होंने बडे धैर्य से उत्तर दिया कि “मोहिं का हँसि कि कोहरहि,” अर्थात् मुझे

हँसते हो, या कोहार को (जिस ने मेरी ऐसी-ही गढनि गढ़ी है), इस पर उस राजा को ऐसा ज्ञान हो गया, कि उसी-क्षण इन का शिष्य झ़आ ॥

ब्रह्मा ने (सुहम्मट को) जग में जैसा चाँद है ऐसा-ही अवतार दिया है, कलङ्क दिया तो उच्चल भी किया (जिस के प्रकाश से जगत् उच्चलित होता है), कवि का अभिप्राय है, कि जैसे चन्द्रमा में कलङ्क-रूपी दोष, उसी प्रकार काना होना मेरे में दोष । जिस प्रकार जगत् को प्रकाश करना यह चन्द्रमा में गुण, उसी प्रकार मेरी कविता-द्वारा जगत् को जो आनन्द होना, यह मेरे में गुण है ॥ (मुझे) एक-ही आँख से जग (भर) सूझ पड़ा, अर्थात् लोगों को दो आँख होती है, वे दो कोश तक भी पृथ्वी को नहीं देख सकते, और मैं एक-ही आँख से जग भर को देख लिया । जैसे नक्कों के बीच में शुक उदित है (उसी प्रकार मैं संसार के लोगों के बीच में उदित हूँ) ॥ वामन भगवान् को जब बलि माढे तीन पैर भूमि दान देता रहा, उस समय उस के गुरु शुक विघ्न करने के लिये जल की झारों में आ बैठे । संकल्प करतौ समय झारी से जल न गिरे, तब कौतुकी भगवान् ने कुशा से झारी के टोटी को साफ करने के बाज से शुक कौदहनी आँख फोड़ दिया, यह प्रसिद्ध कथा है ॥

शुक की उपमा से जान पड़ता है, कि कवि की दहनी आँख फूटी थी । कवि का अभिप्राय है, कि जैसे सब नक्कों के बीच काना शुक-ही अधिक प्रकाशवान् है, उसी प्रकार जगत् के लोगों में मैं सब से प्रसिद्ध हूँ ॥ जब तक आम मैं बौर (मञ्जरी) नहीं होता, तब तक वह आम सुगन्ध से नहीं बासा जाता ॥ आम के सब अंग को क्षेद क्षेद कर बौर उत्पन्न होते हैं । इस लिये क्षेद हो जाना यह दोष झ़आ, तो उसी के साथ सुगन्ध से बास जाना, यह गुण झ़आ ॥ (ब्रह्मा ने) जो समुद्र का पानी खारा किया, (तो उसी के साथ) समुद्र अत्यन्त असूझ और अपार झ़आ (जिस के समान कोई नहीं है) ॥ जो चिशूल से सुमेरु नष्ट किया गया, अर्थात् उस का पच काटा गया, तो उसी के साथ वह मोने का पहाड़ हो गया, और (इतना ऊँचा झ़आ कि) आकाश में लग गया ॥ पुराणों में कथा है कि पहले पहाड़ों के चिडियों के ऐसा पच होते थे । उन से वे उड़ कर जहाँ चाहते थे तहाँ जा कर गाँव के लोगों को चापड़ कर देते थे । इस पर इन्द्र ने वज्र से सब के पचों को काट डाला । सब से पहले सुमेरु का पच काटा गया, और उस के अनन्तर उस ने बड़ी बडाई पाई । इस लिये सुमेरु-ही का यहण कवि ने किया है । छन्द में वज्र का नाम समावेश न होने से चिशूल-ही को रख दिया ॥

(इन सब दृष्टान्तों से यह स्पष्ट होता है, कि) जिस घड़ी तक कलङ्क (किसी प्रकार का एक दोष) नहीं पड़ता, तब तक काँच (बे-गुण का मनुष्य) सोने के रूप (आदरणीय रूप) नहीं होता ॥

(मेरी) एक आँख ऐसी है जैसा दर्पण (आईना), और तिस दर्पण का निर्मल भाव है, अर्थात् जैसे निर्मल दर्पण का स्वभाव है, कि पण्डित वा चाण्डाल जो उस में देखे, सब का प्रतिविम्ब जैसा का तैसा देख पड़ता है, तिसी प्रकार मेरे नेत्र में सब लोगों का रूप जैसा का तैसा देख पड़ता है ॥ (यद्यपि मैं काना हूँ तथापि) सब रूपवान् लोग मेरे पैर को पकड़ कर इच्छा कर के (मेरे) मुख को जोहा (चुप चाप देखा) करते हैं ॥ कवि का सिद्धान्त है, कि विना एक दोष झए गुण नहीं उत्पन्न होता । इसी लिये इस ने अपने इस ग्रन्थ में भौ चौपाइओं की दो चौकड़ी के बदले, लँगड़ा कर, सात-ही पैर रखा, और दोहे के मात्रा को भौ प्रायः घट बढ़ कर दिया । इस में ग्रन्थ-कार का यह आनन्दरिक अभिप्राय है, कि मेरे भक्त लोग तो मेरे ग्रन्थ को आदर से पढ़े-होंगे, परन्तु इस प्रकार का ग्रन्थ में दोष रहने से मेरे प्रतिस्पद्ध लोग भौ हाथ्य-बुद्धि से इसे पढँगे । इस प्रकार मेरे ग्रन्थ का सर्वत्र प्रचार हो जायगा ॥ २१ ॥

चउपाई ।

चारि मौत कवि मुहमद पाए । जोरि मिताई सरि पहुँचाए ॥
 युसुफ मलिक पंडित अउ ग्यानौ । पहिलइ भेद बात बैद जानौ ॥
 पुनि सलार कादिम मति-माँहा । खाँडइ दान उभइ निति बाँहा ॥
 मिच्चाँ सलोने सिंघ अपारु । बौर खेत रन खरग जुशारु ॥
 सेख बडे बड सिङ्ग बखाना । कइ अदेस सिङ्गन्ह बड माना ॥
 चारिउ चतुरदसा गुन पढे । अउ संजोग गोसाईँ गढे ॥
 बिरिख जो आछहि चंदन पासा । चंदन होहिं बेधि तोहि बासा ॥

दोहा ।

मुहमद चारि-उ मौत मिलि भण जो एकइ चित्तु ।
 श्रहि जग साथ जो निबहा ओहि जग बिलुरहिं कित्तु ॥ २२ ॥

मति-माँहा = मतिमान् । उभइ = उभडती है = उठती है । खेत = चेत्र । रन = रण =

सङ्ग्राम । जुझारू = योद्धा = युद्ध करने-वाले । अर्देस = आर्देश = आज्ञा । चतुरदसा = चतुर्दश = चौदह । संजोग = संयोग = सङ्ग । विरिख = दृच । आक्षहि = अच्छा । बेधि = विद्ध हो कर । बासा = सुगन्ध । किन्तु = कुतः = क्यों ॥

मुहम्मद कवि ने चार मित्र को पाया, (जिन से) मिताई (मित्रता) को जोड़ कर (अपने को) उन की बराबरी में पड़ँचाया ॥ प्रथम मित्र मलिक यूसुफ, पछित और ज्ञानी थे, (ऐसे वे ज्ञानी थे कि सब से) पहले बातें का भेद जान जाते थे ॥ फिर दूसरे मतिमान् (बुद्धिमान्) सलार कादिम थे, जिन की बाँह नित्य खाँडे में (तलवार चलाने में) और दान में (दान देने में) उभडती है अर्थात् उठती है ॥ तौसरे सलोने मियाँ थे, जो अपार बौरों में सिंह थे, और रण-चेत्र में खङ्ग-योद्धा थे, अर्थात् तलवार से लड़ने-वाले थे । उन के ऐसा कोई तलवार नहीं चला सकता था ॥ चौथे मित्र शेख बडे थे, जिन को लोग बडा सिद्ध बखानते हैं, जिन के आर्देश (आज्ञा) को कर के सिद्ध लोगों ने भी (अपने को) बडा माना ॥ चारो मित्र चौदहो गुण (विद्या) को पढ़े थे (चार वेद, छ वेदाङ्ग, पुराण, मौमांसा, न्याय, और धर्म-शास्त्र ये-ही चौदह विद्या हैं), और ईश्वर ने चारो का एक संयोग (सङ्ग) गढ़ा था, अर्थात् बनाया था ॥ पहली चौपाई में जो लिखा है कि मैंने उन से मित्रता को जोड़ कर, अपने को उन की बराबरी में पड़ँचाया, इस से उनके समान होने में अपना सामर्थ्य प्रगट ज्ञाना, उस का निराकरण करने के लिये यह पिछली चौपाई लिखा है, कि मेरे में कुछ सामर्थ्य नहीं, कि उन के बराबर होऊँ, किन्तु जो दृच अच्छा (बढ़ियाँ) चन्दन के पास होते हैं, वे चन्दन के बास से विध कर आप चन्दन हो जाते हैं । इस में चन्दन का गुण है, न कि दृच का । कवि का अभिप्राय है, कि उसी प्रकार उन चारो चन्दन-रूपी मित्रों के पास रहने से, मैं भी उन्हीं लोगों के ऐसा हो गया ॥

चारो मित्रों से मिल कर मुहम्मद जो एक चित्त हो गये, अर्थात् उन चारों के चित्त में अपने चित्त को मिला लिया, इस लिये (जिन का) इस जग (लोक) में जो साथ निबह गया तो (वे) उस जग में कहाँ बिकुड़ते हैं, अर्थात् क्यों बिकुड़ेंगे ॥ २२ ॥

अब प्रसङ्ग से अपने ग्रन्थ के बनाने का स्थान कहते हैं ॥

चउपाई ।

जाएस नगर धरम-असथानू । तहाँ आइ कबि कौन्ह बखान ॥
 कइ बिनतौ पँडितन्ह सजँ भजा । टूट सँवारहु मेरवहु सजा ॥
 हउँ सब कवितन्ह कर पछ-लगा । किछु कहि चला तबल देइ डगा ॥
 हिअ भँडार नग अहइ जो पूँजी । खोली जीभ तारु कइ कूँजी ॥
 रतन पदारथ बोली बोला । सुरस पेम मधु भरौ अमोला ॥
 जेहि कइ बोलि विरह कइ घाया । कहैं तेहि भूख नौद कहैं घाया ॥
 फेरइ भेस रहइ भा तपा । धूरि लपेटा मानिक छपा ॥

दोहा ।

मुहमद कथा जो पेम कइ ना तेहि रकत न माँसु ।
 जोइ मुख देखा तेइ हँसा सुनि तेहि आएउ आँसु ॥ २३ ॥

असथानू = स्थान । भजा = सेवा किया । टूट = टूटा झआ = चुटि । मेरवङ्ग = मिला-दये । सजा = साज = शोभा-योग्य पद । कवितन्ह = कवित्त बनाने-वाले = कवि । पछ-लगा = पौछे लगने-वाला = पौछे चलने-वाला = अनुगामी । तबल = तबला = डुग्गी । डगा = डागा = डुग्गी बजाने की लकड़ी । पूँजी = मूल-धन । तारु = तालू वा ताला । कूँजी = कुञ्जी = चामी ॥

जायस नगर जो धर्म का स्थान है, तहाँ पर आ कर कवि ने (इस कथा का) बखान किया ॥ पण्डितों से विनतौ कर के (उन की) सेवा किया, (और कहा कि) टूटा अचर बनाइये, और इस में साज (शोभा-योग्य पद) को मिलाइये ॥ मैं सब कवियों का अनुगामी हूँ, डुग्गी के ऊपर लकड़ी को दे कर, अर्थात् डुग्गी को बजा कर कुछ कह चला हूँ, अर्थात् न मुझे आयह और न पाण्डित्य का अभिमान है, इस लिये सब पण्डित और कवि लोगों को मैं अपनी कविता सुनाता हूँ, और वे लोग जहाँ अनुचित कहे उसे मैं सुधारने पर प्रवृत्त हूँ । यहाँ ‘किछु कहि चलत बोल देइ डगा’ यह पाठ अच्छा है । यह पाठ उपलब्ध पुस्तकों में नहीं है, किन्तु मेरी कल्पना है तनिक पढ़ों के हेर फेर से ऐसा हो सकता है ॥ इस का तब ‘मैं बोल (वाक्य) रूपी डग (पैर) दे कर कुछ कह चलता हूँ’, यह अर्थ है ॥ हृदय-रूपी भण्डार में जो नग पूँजी है, जीभ को तालु की

कूँजौ बना कर उस पूँजौ को (मैं ने) खोला । यहाँ पर कवि ने अपने हृदय को भण्डारा, उस में जो अनेक पद पदार्थ भरे हैं, उसे नग (रत्न) जो कि आगे की चौपाई से स्थृष्ट है, तालु को उस भण्डारे का ताला और उस ताले की कुच्छी (चामी) जीभ को बनाया है । इस प्रकार से यहाँ रूपकालङ्कार है ॥

अनेक जो बोली बोला (कहा) है, वे रत्न-रूपी पदार्थ हैं । वे बोलियाँ कैसी हैं ? कि प्रेम-रूपी जो सुखादु रस (सुखादु रस) मधु (शहद) उस से भरी है, इसी लिये अमूल्य हैं ॥

प्रेम में ऐसी क्या बात है, जो कि अमूल्य है ? ऐसी कदाचित् शङ्का हो, तो उस के लिये आगे प्रेम का माहात्म्य कहते हैं ॥ जिस को विरह के बोली का, अर्थात् प्रेम का, घाव लग गया, तिस को कहाँ भूख, कहाँ नौँद, और कहाँ छाया (विश्राम) है ॥ वह पुरुष अपने भेष (वेष) को फेर लेता है, अर्थात् अपने स्वरूप को क्षिपा लेता है, और तपखौ (=तपा) हो कर रहता है । (उस की) ऐसी दशा हो जाती है, जैसे धूर से लपेटा माणिक्य क्षिपा हो ॥ यहाँ कवि का यह अभिप्राय है, कि जो प्राणी प्रेम-मय हो गया, वह माणिक्य रत्न के ऐसा है । वह रत्न न खो जाय, इस लिये वह संसार से विरक्त हो, वेष बदल कर, तपखौ बन कर रहता है ॥

मुहम्मद कवि कहते हैं, कि जो प्रेम की कथा (काय = शरीर) है, तिस में न रक्त है, न माँस है, अर्थात् अस्थि-मात्र है, क्योंकि ऊपर लिख आये हैं, कि प्रेमी को न भूख, न नौँद, न विश्राम, कुछ भी नहीं होता । इसी लिये शरीर का रक्त माँस गल जाता है । केवल अस्थि रह जाती है । इसी लिये जिस ने उस प्रेमी का मुख देखा, तिस ने हँस दिया । हँसने का तात्पर्य यह, कि लोगों ने उस को बौरहा समझ लिया है । (उन के हाथ को) सुन कर, तिस प्रेमी को आँस (अश्रु) आ जाती है, अर्थात् उस प्रेमी की दृष्टि तो सर्वदा उस प्रेम-ही की ओर है ; केवल कान से उन लोगों का सहास्य वचन को सुन कर, वह रोने लगता है, कि हाथ जगदिचित्र है, जिस में प्रेम नहीं वह भी कोई पुरुष है । सो उलटे ये बौरहे मुझ्मौ को बौरहा समझ हँसते हैं ॥ यहाँ प्रेम से ईश्वर के चरण में अनुराग होना है । अथवा तिस प्रेमी का वृत्तान्त सुन कर, कि यह ईश्वर-चरणानुरागी पुरुष है, पीछे से उस हँसने-वालों को ग्लानि से अश्रु आ जाती है, कि हाथ हाथ विना समझे मैं ने हँसा, अर्थात् हँस कर अपने शरीर को कलुषित किया ॥ २४ ॥

चउपाई ।

सन नउ सद् सद्तालिस अहे । कथा अरंभ बयन कवि कहे ॥
 सिंघल-दीप पदुमिनौ रानौ । रतन-सेन चितउर गढ आनौ ॥
 अलउद्दीन देहिलौ सुलतानू । राघउ-चेतन कौन्ह बखानू ॥
 सुना साहि गढ छेँका आई । हिंदू तुरुकन्ह भई लराई ॥
 आदि अंत जस गाथा अहौ । लिखि भाखा चउपाई कहौ ॥
 कवि बिआस रस कवँला पूरौ । दूरि सो निअर निअर सो दूरौ ॥
 निअरहि दूरि फूल जस काँठा । दूरि जो निअरहि जस गुर चाँठा ॥

दोहा ।

भवंर आइ बनखंड सउँ लेइ कवँल रस बास ।
 दादुर बास न पावई भलहि जो आछइ पास ॥ २४ ॥

इति असतुति-खंड ॥ १ ॥

नउ सद् = नव सै । सद्तालिस = सैतालीस । अहे = थे । गाथा = कथा = इतिहास ।
 बिआस = व्यास = जो कि कथा पुराण बाँचते हैं । कवँला = कमल । गुर = गुड । भवंर =
 भमर । दादुर = दर्दुर = मेघा । भलहि = भली-भाँति से = अच्छी तरह से । आछइ =
 श्रोमित है । पास = पार्श्व = निकट ॥

जब कथा के आरम्भ का वचन कवि ने कहा, अर्थात् जब कवि ने कथा का आरम्भ
 किया, उस समय हिजरी सन् नव सै सैतालीस था (सन् १५४० ईश्वी) ॥ अब संचेप
 से वाल्मीकि-मूल-रामायण के ऐसा कथा की भूमिका लिखते हैं, कि सिंघल-दीप में
 जो पदुमिनौ (पद्मिनी = पद्मावती) रानौ थी, उसे रतन-सेन (राजा रत्न-सेन) चितउर
 (चित्तवर) गढ में ले आया ॥ राघव-चेतन (एक व्यक्ति) ने उस पद्मावती के रूप का
 वर्णन दिल्ली के सुलतान (बादशाह) अलाउद्दीन से किया ॥ शाह (अलाउद्दीन) ने
 प्रशंसा को सुना, तैर आ कर (पद्मावती के लेने के लिये) गढ (चित्तौर-गढ) को छेँक
 (घेर) लिया । हिन्दू तुरकोँ में लडाई झड़ी ॥ इत्यादि आदि से अन्त तक जैसी कथा
 थी, सब भाषा चौपाई लिख कर कहा है । कोई 'लिखि दोहा चौपाई कहौ' ऐसा

पाठ कहते हैं ॥ भाषा से, कवि के देश की भाषा समझना, जिसे हम लोग आज पुरानी अवध की भाषा कह सकते हैं ॥ जन्म-स्थान छोड़ कर, जायस नगर में कवि का आना, और वहाँ पर कथा का प्रचार करना, इस पर दृष्टान्त दिखलाते हैं, कि कवि, वास और रस से पूरी (भरा झारा) कमल, इन से जो दूर हैं वे निकट, और जो निकट में हैं वे दूर हैं, जैसे काँटा फूल के निकट-ही है, परन्तु दूर है, अर्थात् फूल के गुण को वह कभी नहीं जानता, नहीं तो फूल में लपट कर रहता । इस लिये मानों वह फूल से दूर है । और जैसे चौंटा गुड़ के दूर रहता है, परन्तु निकट-ही है, अर्थात् चौंटा गुड़ से अन्यत्र कहीं दूर, अपनी विल में रहता है, परन्तु वायु-द्वारा गुड़ का सुगन्ध पाते-ही निकट हो जाता है ॥ निकट रहने पर दूर और दूर रहने पर भी जो निकट है, इस पर और एक दृष्टान्त दिखाते हैं, कि देखो भ्रमर वन-विभाग से, अर्थात् बज्जत दूर से, आ कर, कमल का बास लेता है, परन्तु दर्दुर जो भली भाँति से कमल के पास-ही शोभित है, उस कमल के बास को नहीं पाता ॥ कवि का भाव है, कि अवध की भाषा में काव्य होने से यद्यपि मुसल्लान लोग अनादर करेंगे, तथापि हिन्दू जो मुझ से बज्जत दूर हैं मेरे काव्य का आदर करेंगे । इसी प्रकार यह भी कवि का भाव है, कि मेरे जन्म-स्थान के लोग जो दिन रात मेरी कविता को सुना करते थे, कुछ भी आदर न किये; और जायस जो कि दूर है, वहाँ के लोगों ने बज्जत-ही आदर किया ॥ इस विषय में परम्परा से ऐसा प्रसिद्ध है, कि मलिक मुहम्मद पहले अपने जन्म-स्थान-ही में रह कर, पदुमावति के दो चार खण्डों को बना कर, गाया करते थे । इन के साथ साथ चेले लोग भी गाते गाते उन खण्डों को अभ्यास कर लिये ॥ एक चेला रमते रमते जायस में पड़ँचा, और जो खण्ड उसे अभ्यास था, उस का गाना आरम्भ किया । वहाँ का राजा उस खण्ड की कविता पर ऐसा मोहित झारा, कि उस चेले के साथ अपने सरदार को भेज, बडे आदर से मलिक मुहम्मद को अपने यहाँ बुलाया, और पूरी कथा बनाने के लिये प्रार्थना किया ॥ बज्जत लोगों से यह भी सुना जाता है, कि उस चेले को नागमती का बारह मासा याद था, और उसी को उस ने गाया था । उसी पर वहाँ का राजा मोहित हो गया, विशेष कर बारह मासे के इस दोहे पर ‘कवँल जो विगसत मान-सर, विनु जल गण्ड सुखाइ ।’ ॥ २४ ॥

इति स्तुति-खण्डं नाम प्रथम-खण्डं समाप्तम् ॥ १ ॥

अथ सिंघल-दीप-बरनन-खंड ॥ २ ॥

चउपाई ।

सिंघल-दीप कथा अब गावउँ । अउ सो पदुमिनि बरनि सुनावउँ ॥
 बरनक दरपन भाँति बिसेखा । जो जोहि रूप सो तइसइ देखा ॥
 धनि सो दीप जहँ दीपक नारौ । अउ सो पदुमिनि दइ अउतारौ ॥
 सात दीप बरनइ सब लोगू । एक-उ दीप न ओहि सरि जोगू ॥
 दिया-दीप नहिँ तस उजिआरा । सरन-दीप सरि होइ न पारा ॥
 जंबू-दीप कहउँ तस नाहौँ । लंक-दीप पूज न परिछाहौँ ॥
 दीप-कुँभसथल आरन परा । दीप-महुसथल मानुस-हरा ॥

दोहा ।

सब संसार पिरिथुमौँ आए सात-उ दीप ।
 एक-उ दीप न जतिम सिंघल-दीप समौप ॥ २५ ॥

पदुमिनि = पद्मिनी = पद्मावती । बरनक = वर्णक = वर्णन । धनि = धन्य । कुँभसथल
 = कुम्भस्थल । महुसथल = मधुस्थल । और जब गभसथल यह पाठ है, तब गभसथल =
 गर्भस्थल । पिरिथुमौँ = पृथिवी । जतिम = उन्नम ॥

*कवि कहता है, कि अब (सुति-खण्ड के अनन्तर) सिंघल-दीप के कथा को गावता
 हूँ, अर्थात् कहता हूँ, और उस पद्मिनी (के उन्नान को) वर्णन कर के सुनाता हूँ ॥ वर्णन
 करने में, यथार्थ बात नहौँ प्रगट होती. ऐसौ यदि कोई शङ्खा करे, तहाँ कहते है, कि

वर्णन एक विशेष दर्पण के भाँति है, इस लिये जो जिस रूप का है, सो तैसा-ही (उस दर्पण में) देख पड़ता है ॥ विशेष दर्पण कहने का यह भाव है कि बड़त से ऐसे भी दर्पण होते हैं, जिन में छोटे बड़े रूप देख पड़ते हैं । उन सबों का निराकरण करने के लिये विशेष पद दिया ॥ धन्य सो (वह) दीप है जहाँ नारी (स्त्री-लोग) दीपक हैं, अर्थात् दीप के शिखा सी उच्चल हैं, और जहाँ पर देव (ईश्वर) ने उस पन्नी का अवतार दिया ॥ सब लोग सात दीप का वर्णन करते हैं, (परन्तु) उस दीप के समता योग्य एक भी दीप नहीं है ॥ दिया-दीप अर्थात् सुन्दरी युवती का नेत्र, तैसा उच्चल नहीं है । सरन-दीप (अवण-दीप), अर्थात् सुन्दरी का कर्ण, उस (सिंघल-दीप) के तुल्य होने को समर्थ नहीं है ॥ जम्बू-दीप, अर्थात् सुन्दरी के केश पाश, को भी कहता हूँ, कि तैसा (सिंघल-दीप सा सुन्दर) नहीं है । लंक-दीप, अर्थात् सुन्दरी की कठि, (सिंघल-दीप की) परिक्षाहीं (क्षाया) की समता को नहीं पूजती, अर्थात् नहीं पाती ॥ कवि कहता है कि कुम्भस्थल-दीप, अर्थात् सुन्दरी का पयोधर, अरण्य (जङ्गल) में पड़ा है, अर्थात् किंपा झाड़ा है, इस लिये वह क्या समता करेगा । अरण्य से मुक्ताहार, वस्त्राच्छल इत्यादि समझना चाहिए । और मधुस्थल-दीप, अर्थात् सुन्दरी का गुद्धाङ्ग, मनुष्य को नाश करने-वाला है (क्योंकि संसार उसी विषय-हथणा में पड़ कर, वार वार मरा करता है), इस लिये ऐसा दुष्ट पापी अङ्ग क्या समता करेगा ॥ जब गमधार लाठ है, तब गर्भस्थल से सुन्दरी का उदर लेना, जिस में वार वार मनुष्य वास करता है, इसी क्षिये वह उदर मनुष्य को हरने-वाला, अर्थात् चोराने-वाला झाड़ा, तब वह चोर इस दीप की क्या समता करेगा ॥ कवि का अभिप्राय है, कि सुन्दरियों के सब उत्तम अङ्ग जब उस दीप की समता नहीं कर सकते, तब वहाँ की दीप-शिखा सी जो नारी है, उन की समता इतर सुन्दरियों से करना असम्भव है, अर्थात् उस दीप की नारी और उन के अङ्ग अनुपम हैं ॥ जैसे, कथा का प्रसङ्ग बैठाने के लिये, पञ्चतन्त्रादि में कर्पूर-दीप इत्यादि नाम कल्पना कर लिये हैं, उसी प्रकार जिस में स्नेष हो (अर्थात् दो अर्ध हो), ऐसा समझ कर, कवि ने दिया-दीप, सरन-दीप, कुम्भ-स्थल, और मधु-स्थल, ऐसा नाम कल्पना कर लिया है । जम्बू और लङ्घा में आप-ही द्वार्थ है इस लिये इन को यथार्थ-ही ले लिया ॥

संसार में सब पृथिवी भर सातो दीप आये हैं, अर्थात् द्वाये झये हैं, (परन्तु) सिंघल-दीप के समीप (निकट), अर्थात् उस के साथ तुलना करने में एक दीप भी नहीं उत्तम ठहरता है ॥ २५ ॥

चउपाई ।

गँधरब-सेन सुगंध नरेस्तु । सो राजा वह ता कर देह ॥
लंका सुना जो रावन राजू । ते-हु चाहि बड ता कर साजू ॥
छप्पन क्रोड^(१) कटक दर साजा । सबइ छतर-पति अउ गढ राजा ॥
सोरह सहस घोर घोर-सारा । सावँ-करन अउ बाँक तुखारा ॥
सात सहस इस्तौ सिंघली । जनु कबिलास इरावति बली ॥
असु-पतौ क सिर-मउर कहावइ । गज-पतौ क आँकुस गज नावइ ॥
नर-पतौ क अउ कहउ नरिंदू । भू-पतौ क जग दोसर इंदू ॥

दोहा ।

अइस चक्रवद्द राजा चह्न खंड भय होइ ।
सबइ आइ सिर नावहौँ सरिवर करइ न कोइ ॥ २६ ॥

गँधरब-सेन = गन्धर्व-सेन । नरेस्तु = नरेश । रावन राजू = रावन राजा । छतर-पति =
छत्रपति । सहस = सहस्र = हजार । घोर-सारा = घोडे की शाला = घोटक-शाला ।
सावँ-करन = श्याम-कर्ण = जिन के सब अङ्ग श्वेत केवल कान काले हैं । बाँक = वक्र =
तेज । तुखारा = घोडा । असु-पतौ = अश्वपति = घोडे पर चढने-वालों में श्रेष्ठ । सिर-
मउर = शिरो-मयूर = शिर पर मयूर के ऐसी टोपी । गज-पतौ = गजपति = हाथी पर
चढने-वालों में श्रेष्ठ । नर-पतौ = नर-पति = राजा । नरिंदू = नरेन्द्र । भू-पतौ = भू-पति =
पृथ्वी के पति = जिमौदार लोग, जिन के अधिकार में केवल जोतने बोने के लिये भूमि
हो । इंदू = इन्द्र । चक्रवद्द = चक्रवर्ती । सरिवर = बहस = सवाल जवाब ॥

गन्धर्व-सेन जो सुगन्ध (सुन्दर गन्ध से भरा, अर्थात् जिस के शरीर से सुगन्ध महकती
है) राजा, सो (वहाँ का) राजा है, और वह (सिंघल-द्वीप) तिसी (राजा) का देश
है ॥ लङ्का में जो रावण राजा सुना है, तिस से भी बड़ कर तिस का (गन्धर्व-सेन का)
बड़ा साज (तथारी) है ॥ छप्पन करोड कटक-दल (सेना का समूह) साजा झआ है,
सब (छप्पनों करोड) छत्रपति और (एक एक) गढ के राजा हैं ॥ (जिन के चलने में)
सेवक उन के शिर पर छत्र लगाते झए चले । (पहले बडे वीरों को यह प्रतिष्ठा प्राप्त

(१) तौसरे दोहे को ६वीं चौपाई देखो ।

होती थी।) (उस के) घोड़-सार में सोरह हजार घोड़े हैं, (जिन में बज्जत से) शाम-कर्ण और बाँके घोड़े हैं ॥ सिंघल देश के सात हजार हाथी हैं, जानेँ कैलास (शिव-पुरी, परन्तु यहाँ इन्द्र-पुरी) के बलौ ऐरावत हाथी हैं । (ऐरावत श्वेत हाथी होता है, और उस पर देवताओं का राजा इन्द्र चढ़ता है) ॥ (वह राजा) अश्व-पतियों का शिर-मौर कहाता है, गज-पतियों के गज (हाथी) को अङ्कुश से नवा देता है (झुँका देता है), और (मैं उसे) राजाओं का नरेन्द्र (मनुष्यों में इन्द्र), और भू-पतियों का दूसरा इन्द्र कहता है ॥ इन्द्र वर्षा का पति है। भू-पतियों को अन्न होने में वर्षा-ही का भरोसा है। वह विना इन्द्र की कृपा से नहीं होती। इस लिये इन्द्र बनाया है ॥ ‘नर-पती के कहउँ अउ नरिंदू’, इस पाठ में, यति-भङ्ग दोष है। यदि ‘कह-उँ-अउ’ ऐसा शब्द को काट कर यति बनावें तो शब्दावध दोष होता है ॥

ऐसा चक्रवर्ती राजा है कि चारों भाग में (पूर्व, प. उ. द.), (उस का) भय होता है, सब कोई आ कर (उस के सामने) शिर को नवाते हैं (झुँकाते हैं), और (उस के आगे) कोई सरबर नहीं करता है ॥ २६ ॥

चउपाई ।

जब-हि दीप निअरावा जाई । जनु कबिलास निअर भा आई ॥
 घन अँबराउँ लाग चहुँ पासा । उठे पुहुमि हुति लागु अकासा ॥
 तरिवर सबइ मलय गिरि लाई । भइ जग छाँह रइनि होइ छाई ॥
 मलय समौर सोहाई छाँहा । जेठ जाड लागइ तेहि माँहा ॥
 आहो छाँह रइनि होइ आवइ । हरिअर सबइ अकास देखावइ ॥
 पंथिक जउँ पहुँचइ सहि घामू । दुख बिसरइ सुख होइ बिसरामू ॥
 जेइ वह पाई छाँह अनूपा । बहुरि न आइ सहहिं यह धूपा ॥

दोहा ।

अस अँबराउँ सघन घन बरनि न पारउँ अंत ।

फूलइ फरइ छव-उ रितु जानउँ सदा बसंत ॥ २७ ॥

निअरावा = नगौच किया । घन = झुण्ड = ढेर का ढेर । अँबराउँ = आम-राज = अच्छे जाति का आम । जेठ = ज्येष्ठ महीना । पंथिक = पथिक = राही । सघन = गज्जन । छव-उ = छवो । जानउँ = जानेँ = मानेँ ॥

जिस घड़ी किसी ने जा कर (सिंघल) दीप को नगौच किया, अर्थात् जब कोई सिंघल के नगौच पड़ँचा, (उस घड़ी ऐसा समझ पड़ता है) जानेँ (वह) आ कर कैलास के नगौच झ़आ ॥ चारों ओर (च़ँ पासा) आम्र-राज के झुण्ड लगे हैं, जो पुर्वी से उठे हैं, और आकाश से जा कर लगे झ़ए हैं ॥ सब तस्वरेँ मेँ (जानेँ) मलय-गिरि (मलय-चन्दन) लगाया झ़आ है । (उन वृक्षों से) जग मेँ छाँह हो गई, और (सर्वत्र वह छाया) रात्रि हो कर छा गई ॥ वह छाया मलय-समौर (मलय-चन्दन-सहित वायु) से (ऐसी) शोभित झ़ई है, कि तिस के मध्य ज्येष्ठ महीने मेँ भी जाडा लगती है ॥ (कवि की उद्देश्य है कि निश्चय समझो) उसी छाया से (संसार मेँ वार वार) रात हो आती है, और (वही छाया) सब आकाश को हरिअर (हरा) दिखलाती है, अर्थात् उसी छाया का प्रतिविम्ब पड़ने से सब आकाश हरे वर्ण का हो गया है ॥ यदि घाम को सह कर कोई पथिक (वहाँ) पड़ँच जाय, तो (उस का) दुख भूल जाता है, सुख होता है और स्वस्थता (विश्राम) होती है ॥ जिन्हेँ ने उस अनुपम छाया को पाया, वे फिर (बज़रि) (इस संसार मेँ) आ कर इस धूप को नहीं सहते हैं ॥

ऐसा आम्र-राज का गज्ज्वन झुण्ड है, जिस का वर्णन कर के अन्त तक नहीं पार हो सकता है । कवि का अभिप्राय है कि जिन वृक्षों के छाया वर्णन मेँ सात चौपाई हो गई उन के वर्णन मेँ तो संभव है, कि एक यन्य तयार हो जाय ॥ छवों चतु (वहाँ) फूलती फरती हैं, जानेँ (उस दीप मेँ) सर्वदा वसन्त चतु है । चतुओं मेँ वसन्त चतु राजा है, इस से वसन्त का यहण किया है ॥ २७ ॥

चउपाई ।

फरे आँब अति सघन सोहाए । अउ जस फरे अधिक सिर नाए ॥
 कटहर डार पौँड सउँ पाके । बडहर सो अनूप अति ताके ॥
 खिरनौ पाकि खाँड असि मौठी । जाउँनि पाकि भवँर असि डौठी ॥
 नरिअर फरे फरौ फरहरौ । फरौ जानु इँदरासन-पुरौ ॥
 पुनि महुआ चुअ अधिक मिठास्त । मधु जस मौठ पुहुप जस वाहू ॥
 अउह खजहजा आउ न नाऊ । देखा सब राउन अवँराऊ ॥
 लाग सबइ जस अंब्रित साखा । रहइ लोभाइ सोइ जो चाखा ॥

दोहा ।

**गुआ सुपारी जाइफर सब फरे अपूरि ।
आस पास घनि इविलौ अउ घन तार खजूरि ॥ २८ ॥**

आँब = आम । नाए = झुँकाये हैं । पौँड = पेंडौ । ताके = देखने में । जाउँनि = जामुन = जमू । डौठौ = देख पडती है । फरङ्गरी = फरहरी = छोटे छोटे मेवे के टृच । दँदरासन = दन्द्रासन । चुअ्र = चूता है । पुङ्गप = पुष्प । वासू = वास = सुगन्ध । खजहजा = खाद्य टृच, जिन के फल खाये जाते हैं । अवँराऊँ = अमरावती = इन्द्र के बगीचा सा श्रेष्ठ बगीचा । अंत्रित = अमृत । गुआ = एक प्रकार की पूर्वी सोपारी । इविलौ = अमिलौ ॥

अत्यन्त सघन (गज्जन) आम फरे हैं और ग्रोभित हैं । और (जो आम) जैसा (अधिक) फरे हैं, तैसा-ही अधिक गिर झुँकाये हैं । तात्पर्य यह कि फल से भरे भी हैं, तौ-भी अभिमान से रहित हो कर नम हो गये हैं (गिर पुरुष के ऐसा) ॥ कटहर डार और पेंडौ से लग कर पके ज्ञए हैं । (इस टृच का यहौ स्वभाव है कि डार और पेंडौ में फरता है) । बडहर जो है सो देखने (ताके) में अति अनूप (अति सुन्दर) है । (इस का फूल डारें में ऐसा गुथा रहता है, कि देखने में बडा मनोहर जान पडता है) ॥ पकौ खिरनौ खाँड ऐसी मौठी है । पकौ जामुन मौरा सौ (कालौ) देख पडती है ॥ नरियर फरे हैं, फरहरी (सब) फरी है । (इस प्रकार से) फरी (वाटिका) ऐसी ग्रोभित है, जानौ दन्द्रासन-पुरी अर्थात् अमरावती है ॥ फिर अत्यन्त मौठा मङ्गचा चू रहा है । (वह), जैसा मधु (शहद) मौठा होता है, वैसा मौठा, और, जैसा पुष्प में वास होता है, वैसा (उस में) वास (सुगन्ध) है ॥ और जितने खजहजा (मेवे के टृच) हैं, जिन का नाम नहीं आता, उन सब को राव लोगों की अमरावती (वाटिका) में देखा ॥ ग्राखाओं में सब (फल) ऐसे लगे हैं जैसे अमृत, (उन को) जो चखता है सोई लोभाय रहता है ॥

गुआ, सुपारी, और जायफर सब (टृच) अपूर (भर पूर) फरे हैं ॥ आस पास (अगल बगल) घनि (गज्जन), अर्थात् बजत, अमिलौ और बजत तार, खजूर (लगे) हैं ॥ वाटिका के भौतर इन की ग्रोभा नहीं होती, इस लिये किनारे पर लगना लिखा है ॥

चौथी चौपाई का 'नरियर फरे भरी खुरङ्गरौ । फरी जानु दँदरासन-पुरी ॥' ऐसा पाठ उत्तम जान पडता है, तब 'नरियर फरे हैं (उन में) खुरङ्गरौ भरी है ।

(वाटिका ऐसी फरौ है) जानोँ इन्द्रासन-पुरी (अमरावती) फरौ झट है', यह अर्थ करना चाहिए ॥ गरी दो प्रकार की होती है, एक कड़ी त्रैर खाने में नीरस । दूसरी नर्म त्रैर खाने में मीठी, ऐसी मीठी त्रैर नर्म गरी को 'खुरुज्जरी' कहते हैं ॥ २८ ॥

चउपाई ।

बसहि॑ पंखि॑ बोलहि॑ बहु भाखा । करहि॑ हुलास देखि॑ कद्द साखा ॥
 भोर होत बासहि॑ चुहिचूहौ॑ । बोलहि॑ पांडुकि॑ एकद्द तूहौ॑ ॥
 सारउ सुआ जो॑ रहचह करहौ॑ । कुरहि॑ परेवा अउ करबरहौ॑ ॥
 पिउ पिउ लागद्द करद्द पपौहा । तुहौ॑ तुहौ॑ करि॑ गुडुरु खौहा ॥
 कुहू कुहू करि॑ कोइलि॑ राखा । अउ भंगराज बोल बहु भाखा ॥
 दहौ॑ दहौ॑ कद्द महरि॑ पुकारा । हारिल बिनवद्द आपनि॑ हारा ॥
 कुहुकहि॑ मोर सोहावन लागा । हेद्द कोराहर बोलहि॑ कागा ॥

दोहा ।

जावँत पंखि॑ कहौ॑ सब बद्धठे भरि॑ अवँराउ॑ ।
 आपनि॑ आपनि॑ भाखा लेहि॑ दई॑ कर नाउ॑ ॥ २९ ॥

झलास = उज्जास = आनन्द । बासहि॑ = फूलों के सुगन्ध से वास जाती है॑ । सारउ = सारा = दूर्वा = दूब । रहचह = चहचह = आनन्द के शब्द । कुरहि॑ = कुरकुर करते है॑ । परेवा = कबूतर = पारावत । करबरहौ॑ = कलबलाते है॑ = इधर से ऊधर उड़ते है॑ । भंगराज = भङ्गराज । कोराहर = कोलाहल । अवँराउ॑ = अमरावती ॥

उस अमरावती में पचौ बसते है॑, जो बज्ज भाषा (अनेक तरह की बोली) बोलते है॑ । और भाखा को देख कर (जिन में पहले कह आये है॑ कि 'लाग सबद्द जस अंत्रित भाखा' अर्थात् अमृत फल लगे है॑) झलास (मन में आनन्द) करते है॑ ॥ भोर (प्रातःकाल) होते-हो चुहिचूहौ॑ (फूल के रस को खाने-वाली चिडिया इस प्रान्त में प्रसिद्ध है, जिसे बज्जत लोग फुलचुहौ॑ वा फुलसुंधौ॑ कहते है॑) फूल के रस के सुगन्ध से बास जाती है॑ । और पाण्डुकौ॑ (पैँडुकौ॑ जो कबूतर के तरह होती है॑ । यह भी दूस प्रान्त में प्रसिद्ध है॑) 'एकद्द तूहौ॑' 'एकद्द तूहौ॑' बोलती है॑ । इस पचौ की बोली में ऐसी-ही धुनि॑ जान पड़ती है॑ ॥ सारउ, दूब के ऐसे जो सुआ (शुक) है॑, अर्थात् बडे

मनोहर मरकत के ऐसे जो शुक हैं, वे रहचह करते हैं (आपस में कल्पोल कर के बोलते हैं) । परेवा (कबूतर) कुरकुर करते हैं (इन की बोली में भी कुरकुर धुनि जान पड़ती है । कोई घुरघुर धुनि बतलाते हैं, उन के मत से घुरहिं यह पाठ है), और कलबलाते हैं, अर्थात् इधर से उधर उड़ते हैं ॥ पपौहा पौउ पौउ करने लगे हैं । (पपौहे की बोली से पौउ पौउ धुनि निकलती है) । गुदुरु तुहौं तुहौं कर के, खौहा, अर्थात् खौ खौ, करता है । अर्थात् इस की बोली में ‘तुहौं खौ’ ‘तुहौं खौ’ यह धुनि निकलती है ॥ यह पचौ हमारे प्रान्त में नहौं प्रसिद्ध है ॥ कोयज्ज कुह्व कुह्व कर रखे हैं, अर्थात् कुह्व कुह्व बोल रहे हैं (कुह्व कुह्व कोयल के बोली की धुनि है) । और मङ्गराज अनेक भाषा को बोलता है ॥ (इस का ऐसा स्वभाव है, कि जिस की बोली सुने, वैसा-ही बोलने लगे । यह बङ्ग-मूल्य और भुजङ्गे की तरह प्रसिद्ध पचौ है । धनी लोग बोली सुनने के लिये पालते भी हैं) ॥ महरि दही दही कर के पुकारती है । (दही दही इस के बोली की धुनि है । इस को बङ्गत लोग ग्वालिनि वा अहिरिनि कहते हैं । यह महोखे से कुछ छोटी, उसी जाति की इस देश में प्रसिद्ध है) । हारिल अपने हारे झए की बिनती करती है, अर्थात् इस की बोली से यही धुनि निकलती है कि ‘हा हारि गई’ ‘हा हारि गई’ । (यह पचौ सुगे की तरह हरे रंग का होता है, और बङ्गधा, वर, पौपर और पाकर पर रहता है । पृथ्वी पर नहौं उतरता । यदि पानी पीने के लिये उतरना पड़ा, तो पञ्चे में तण लिये झए उतरता है, और उसी के आधार से पानी पी कर पेंड पर चला जाता है । पृथ्वी पर गिरता है, तब पैर को ऊपर किये झए रहता है । इस देश में प्रसिद्ध है । खानेवाले इसे खाते भी हैं) ॥ मोर कुहकते हैं, जो (कुहकना) सोहावन (अच्छा) लगता है, (इस की बोली से कूँ कूँ धुनि होती है), और (जब) काग (कौए) बोलते हैं, (तब) कोलाहल हो जाता है, अथवा तब कोराहर होने लगता है, अर्थात् कर कर होने लगता है । (कौए की बोली की कर कर धुनि है) ॥

जिनने पचौ कहे हैं, अर्थात् प्रसिद्ध हैं, सब अमरावती भर बैठे हैं । और अपनी अपनी भाषा में सब देव (ईश्वर) का नाम लेते हैं ॥

तौसरी चौपाई में बङ्गत लोग ‘सारी सुआ जो रहचह करहौं’, यह पाठ कहते हैं, परन्तु सब पुस्तकों में सारज यही पाठ मिलता है । सारी (= सारिका = पहाड़ी मैना)

वाटिका का पचौ नहीं है । यह पहाड़ों में वा ऊँचे सखुए के वृक्षों में बसती है । इसी लिये जान पड़ता है कि कवि ने छोड़ दिया है ॥ २६ ॥

चउपाई ।

पद्ग पद्ग कूआँ बाउरौ । साजे बइठक अउ पाउरौ ॥
 अउरु कुंड सब ठाउँहि ठाऊँ । सब तौरथ अउ तिन्ह के नाऊँ ॥
 मठ मंडफ चहुँ पास सँवारे । तपा जपा सब आसन मारे ॥
 कोइ सु-रिखेसुर कोइ सनिआसौ । कोइ सु-राम-जति कोइ मसबासौ ॥
 कोइ सु-महेसुर जंगम जतौ । कोइ एक परखइ देबौ सतौ ॥
 कोई ब्रह्मचरज पँथ लागे । कोइ सु-दिगंबर आछहि नाँगे ॥
 कोई संत सिङ्ग कोइ जागौ । कोइ निरास पँथ बइठ बिआगौ ॥

दोहा ।

सेवरा खेवरा बान सब सिधि-साधक अउधूत ।
 आसन मारे बइठ सब जारहि आतम-भूत ॥ ३० ॥

पद्ग = पग = प्रग = पट = पैर । कूआँ = कूप । बाउरौ = बावलौ = वापौ । पाउरौ = पौरौ = द्वार वा सौढ़ौ । मठ = जहाँ विद्यार्थी वा साधु-लोग रहे । मंडफ = मण्डप, जो चारों ओर खुला रहे, केवल ऊपर ढाया रहे । तपा = तपस्त्री, जो पञ्चामि तापे, वा वृक्ष में उलटे टंग कर धूम पौए, वा और प्रकार से शरीर को कष्ट दे । जपा = जप करने-वाले, जो किसी देवता को वश करने के लिये उस के मन्त्र को, आसन लगा कर, जपते हैं । सु-रिखेसुर = सु-चृष्णीश्वर = चृष्णियों में श्रेष्ठ । जो मनुष्यों की शक्ति को उत्तमन कर जाते हैं, इन में साधारण योग्यतानुसार, चृष्णि, परमर्षि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि और देवर्षि, ये भेद हैं । वसिष्ठ और विश्वामित्र कौ लडाई में, वडी तपस्ता से, तब ज्ञानिय विश्वामित्र ब्रह्मर्षि ज्ञेह है । इस की कथा वास्त्रोक्ति-रामायण बालकाण्ड में प्रसिद्ध है । सनिआसौ = सन्नासौ, जो जीते-ही अपना कर्म-न्यास कर डालता है, अर्थात् मरने पर जो गति के लिये क्रिया कर्म किया जाता है, सो वे लोग जीते-ही कर डालते हैं, और शिखा सूत्र त्याग कर एक दण्ड धारण करते हैं । उस दण्ड को जीवन

पर्यन्त पृथ्वी पर गिरने नहीं देते, और अपने सब कर्म का साक्षी उसी दण्ड को समझते हैं । इन्हें दण्डी भी कहते हैं । कोई कोई तौन दण्ड धारण करते हैं । मरने के समय, अशक्त होने पर, जो सन्धास है, उसे आतुर सन्धास कहते हैं । उस को जो ग्रहण करता है, उसे आतुर सन्धासी कहते हैं ॥ राम-जति = राम-यति, जो राम की उपासना में विरक्त हो कर रहे, जैसे अयोध्या के वैरागी लोग ॥ मस-बासी = मास-वासी, जो एक स्थान पर मास भर वास करें, फिर दूसरे स्थान पर जा कर वहाँ भी एक महीना रह कर उसे भी छोड़ तौसरे, चौथे इत्यादि पर बसते रहे ॥ सु-महेश्वर = सु-माहेश्वर, जो अपनी आकृति महादेव (महेश्वर) के ऐसी बनाते हैं, अर्थात् जटा, चन्द्र, रुद्राच इत्यादि धारण करते हैं, और घर से विरक्त हो शिव का पूजन करते हैं ॥ जङ्गम, जो एक जगह न रहे, सर्वदा घूमा करें । प्रायः ये लोग वीरभद्र (जो कि दच के यज्ञ को विघ्नंस किया था) की उपासना करते हैं ॥ जती = यति, जो संयम अर्थात् आचार से रहे । जैनियों में बज्जधा यति होते हैं, और ये घरबाहू भी होते हैं ॥ देवी = वाम-देवी ॥ सती = दचिण देवी ॥ ब्रह्मचरज = ब्रह्मचर्य, जो यज्ञोपवीत होते-हो, — सन्ध्या गायत्री इत्यादि निय क्रिया है,—इस क्रिया को करते, गुरु के घर में रह कर, वेद को पढ़ता है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं ॥ दिगंबर = जिन का दशोदिशा-ही अम्बर (वस्त्र) है, जैसे परमहंस, नागा इत्यादि । वैष्णवों में भी दिगंबरी और निर्वाणी, निर्माही, इत्यादि अखाड़ा हैं । परन्तु इन अखाड़ाओं के साधु अब श्वेतवस्त्र धारण करते हैं ॥ जैनियों में भी दिगंबर होते हैं ॥ सन्त = जो भगवत्कथावाचार्ता का प्रेमी हो ॥ सिद्ध = जिसे अणिमा (छोटा हो जाना), महिमा (बड़ा हो जाना), लघिमा (हल्का हो जाना), गरिमा (गुरु हो जाना), प्राप्ति (चाहे जिसे कूले, जैसे अंगुली से चन्द्रविम्ब को), प्राकाम्य (जो मनोरथ हो, सो श्रीम प्र हो जाय), ईश्वर (चाहे जिस का प्रभु हो जाय) और वशिल (चाहे जिसे वश कर ले), ये आठो सिद्धि वश में हो ॥ योगी = जो योग जानता हो, समाधि लगाता हो ॥ विअोग = वियोग = किसी के वियोग से जो विरक्त हो गया हो ॥ सेवरा = यह झुण्ड के झुण्ड चलते हैं । शिर पर जटा और वस्त्र गेरुआ रखते हैं । अपने को शैव कहते हैं । अपने मूर्चेन्द्रिय की नश को तोड़ डालते हैं । और उस में (मूर्चेन्द्रिय में) एक पौतल की सिकड़ी बाँधे रहते हैं । अपनी चमत्कारी से सूखी जटा में से पानी निकाल देते हैं, और कहते हैं कि गङ्गा-जल है ॥ खेवरा, सेवरा-ही के एक भेद है, (जैसे गोसाइँओं में रुखड़, सूखड़, भूखड़, निरञ्जनी, इत्यादि भेद हैं) । हाथ में खप्पड़

लिये रहते हैं, और, गोरख-नाथियों के ऐसा, मद्य को सब के सामने दूध बना कर पी जाते हैं। खाली हाथ से केवल हथेलियों को मल मल कर चना, गोङ्ग इत्यादि निकास कर लोगों को दिखलाते हैं ॥ वान = वान-प्रस्थ, जो स्त्री-पुरुष साथ वन में जा कर तपस्या करते हैं, अर्थात् जो ब्राह्मण विद्या पढ़ने के अनन्तर, विवाह कर, फिर स्त्री के साथ वन में रहता है। इस का वर्णन मनु ने मनु-सृति में किया है ॥ सिधि-साधक = सिद्धि-साधक = अष्ट सिद्धि के साधने-वाले ॥ अवधूत = अवधूत, जो संसार के व्यवहार से अलग हो जाय। परमहंसों के ऐसा, प्रायः अवधूत भी मौन रहता है, और धूर लपेटे रहता है। गोरख-नाथ को लोग सच्चा अवधूत कहते हैं ॥ आत्म-भूत = आत्म-भूत = अपना भूत, अर्थात् अपने पाञ्चभौतिक (शरीर) को ॥

उष अमरावती में पैर पैर पर कूएँ और बावली हैं, (जिन पर विश्राम के लिये) बैठक सजे हैं, और सौंदियाँ लगी हैं ॥ और स्थान स्थान पर जो सब कुण्ड हैं वे सब तीर्थ (तीर्थ-स्वरूप) हैं, और तिन के नाम भी हैं, अर्थात् राम-कुण्ड, लक्ष्मण-कुण्ड, सौता-कुण्ड, द्रौपदी-कुण्ड, इत्यादि, उन के नाम रखे जाए हैं ॥ चारों तरफ (उन कुण्डों के) मठ और मण्डप बनाये गये हैं, जिन में तपस्त्री और जपी सब आसन मारे (आसन को लगाये) हैं ॥ कोई सु-चृष्टीश्वर, कोई सन्नासी, कोई राम-यति, कोई मास-वासी, कोई सु-माहेश्वर, कोई जग्न्म और कोई यति हैं । कोई एक देवी (वाम-देवी) को परखता है (परीक्षा करता है), अर्थात् वामोपासना में प्रवृत्त है, और कोई सती देवी (दक्षिण-देवी) को परखता है, अर्थात् शक्ति की उपासना करता है ॥ कोई ब्रह्मचर्य पथ में लगे हैं । कोई सुन्दर दिग्म्बर है, जो नझे होने पर भी अच्छे लगते हैं (आङ्गिहि) ॥ कोई सन्त, कोई सिद्धि, कोई योगी है । और कोई वियोगी (प्रेमी) निरास पथ (नैराश्य मार्ग = प्रेम-मार्ग) में बैठा है ॥

सेवरा, खेवरा, वान (वान-प्रस्थ), सिद्धि-साधक, और अवधूत, सब आसन मार कर बैठे हैं, और सब अपने शरीर को जराते हैं ॥ ३० ॥

चउपाई ।

मानसरोदक देखे काहा । भरा समुद्र जल अति अउगाहा ॥
पानि मोति असि निरमर तासू । अंब्रित आनि कपूर सु-बासू ॥
लंक-दीप कड़ सिला अनाई । बाँधा सरबर घाट बनाई ॥

खँड खँड सौढ़ी भई गरेरौ । उतरहिं चढ़हिं लोग चहुँ फेरौ ॥
 फूले कवँल रहे होइ राते । सहस सहस पखुरिन्ह कइ छाते ॥
 उलथहिं सौप मोति उतराहौँ । चुगहिं हंस अउ केलि कराहौँ ॥
 कनक पंख पदरहिं अति लोने । जानउँ चितर कौन्ह गढि सोने ॥

दोहा ।

ऊपर पाल चहुँ दिसा अंब्रित फर सब रुख ।
 देखि रूप सरबर कर गद्द पिअस अउ भूख ॥ ३१ ॥

मानसरोदक = मान-सर का पानौ । अउगाह = अवगाह = अथाह । शिला = शिला ।
 अनाई = मँगा कर । गरेरौ = गले के ऐसौ = घुमौआ । राते = रक्त = लाल । उलथहिं
 = उलटते हैँ । उतराहौँ = उतराय आती हैँ । पदरहिं = पौरते हैँ = तैरते हैँ ।
 चितर = चित्र । पाल = पालि = पालौ = तट = किनारा । पिअस = एास = पिपासा ॥

उस अमरावती के सरो-वर के जल को देखा क्या, जानेँ अति अथाह समुद्र के ऐसा
 जल भरा है ॥ जिस का पानौ मोतौ के ऐसा निर्मल है, मानेँ असृत को ला कर
 (आनि), कर्पूर से सु-वासित किया है ॥ लङ्का-दीप की शिला अर्थात् सुवर्ण की शिला
 मँगा कर, उस सरो-वर का घाट बना कर (सुन्दर रचना कर के) बाँधा गया है ॥
 खण्ड खण्ड (प्रत्येक भाग) मेँ घुमौआ सौढ़ी भई है, अर्थात् लगी है, जिन से चारों
 ओर (लोग) उतरते चढते हैँ ॥ उस सरो-वर मेँ कमल फूले हैँ, और लाल हो रहे
 हैँ । ऐसे कमल हैँ जिन मेँ हजार हजार पखुरिओँ के छाते (छत्र) हैँ । (जिन कमल
 के फूल मेँ सहस पखुरियाँ होती हैँ वस्तुतः वे-ही कमल हैँ । अमरकोश मेँ भी लिखा
 है कि 'सहस-पञ्चं कमलं, शत-पञ्चं कुशेश्यम्', अर्थात् जिस मेँ हजार पञ्च हो वह कमल,
 और जिस मेँ सौ पञ्च हो वह कुशेश्य कहलाता है ॥

हंस सौप को उलटते हैँ, (जिस से) मोतौ उतराय आती हैँ । और उन मोतियोँ
 को चुगते हैँ, और (आपस मेँ) केलि को करते हैँ ॥ (वे हंस) अति सुन्दर (अति
 लोने) सोने के पञ्च (पंख) से पैरते हैँ । जानेँ गढ कर सोने मेँ चित्र, अर्थात् विचित्र
 रूप, किया है । (कवि लोग सुन्दरता के लिये प्रायः सुवर्ण रूपी हंस को यहण करते
 हैँ । नैषध के प्रथम सर्ग मेँ भी लिखा है कि 'स तत्र चित्रं विचरन्तमन्तिके हिरण्यं
 हंसमबोधि नैषधः') ॥

उस सरो-वर के पालौ (तट) के ऊपर, चारों दिशा में, सब वृक्ष (रुख) अमृत फल
के लगे हैं । उस सरो-वर का रूप देख कर, यास और भूख गई, अर्थात् चलौ जातौ
हैं ॥ ३१ ॥

चउपाई ।

पानि भरइ आवहि॑ पनिहारौ । रूप सरूप पदुमिनौ नारौ ॥
पदुम गंध तिन्ह अंग बसाहौ॑ । भवँर लागि तिन्ह संग फिराहौ॑ ॥
लंक-सिंघिनौ सारँग-नयनौ । हंस-गाविनौ कोकिल-बयनौ ॥
आवहि॑ झुंड सु पाँतिहि॑ पाँतौ । गवँन सोहाइ॑ सु भाँतिहि॑ भाँतौ ॥
कनक-कलस मुख-चंद दिपाहौ॑ । रहसि केलि सउँ आवहि॑ जाहौ॑ ॥
जा सउँ वेद हेरहि॑ चखु नारौ । बाँक नयन जनु हनहि॑ कटारौ ॥
केस मेघावरि सिर ता पाई॑ । चमकहि॑ दसन बौजु कइ॑ नाई॑ ॥

दोहा ।

मानउँ मयन मूरतौ अछरौ बरन अनूप ।
जेहि कइ असि पनिहारौ सो रानौ केहि रूप ॥ ३२ ॥

लंक = लङ्क = कटि = कमर । सिंघिनौ = सिंहिनौ । सारँग = सारङ्ग = कमल ।
गाविनौ = गामिनौ । दिपाहौ॑ = दिपते हैं = चमकते हैं । रहसि = हँसौ ठड़ा । चरु =
चक्षु = नेत्र । हनहि॑ = मारतौ हैं । मेघावरि = मेघावलि॑ = मेघ के पङ्क्षि के ऐसा । ता
पाई॑ = पैर तक । बौजु = विद्युत = विजलौ ॥ मयन = मदन = काम-देव । अछरौ =
अप्सरा ॥

(जो) पनिहारौ पानौ भरने आतौ हैं, उन के रूप का सरूप (आकृति) पद्मिनौ
नारौ के ऐसा है, क्योंकि २५वें दोहे में कह आये हैं कि 'धनि सो दीप जहँ दीपक
नारौ' ॥ तिन के अङ्ग पद्म-गन्ध (कमल के सुगन्ध) सा गमकते हैं (बसाते हैं), अर्थात्
तिन के अङ्ग से पद्म के सुगन्ध का बास आता है । (जिन नारियों के अङ्ग में पद्म का गन्ध
हो, उन्हें पद्मिनौ कहते हैं । नारियों का विस्तार से लक्षण, अलाउद्दीन से राघव-चेतन
ने जहाँ नारियों का वर्णन किया है, तहाँ पर किया जायगा) । (जिस कारण से) भमर
लगे झए तिन के संग फिरा करते हैं ॥ वे पनिहारियाँ लङ्क-सिंहिनौ (सिंहिनौ के

कटि सौ जिन की कटि हो), सारङ्ग-नयनी (कमल सा जिन के नयन हो), हंस-गामिनी (हंस की गति सौ जिन की गति हो)। और कोकिला-वयनी (कोकिला सौ जिन की बोली हो) हैं ॥ (ऐसी पनिहारियाँ) झुण्ड की झुण्ड सुन्दर पङ्कि पङ्कि से आती हैं, अर्थात् दश दश बीस बीस का झुण्ड, एक साथ पाँती लगा कर, पानी भरने के लिये आती हैं । उन का सुन्दर भाँति भाँति का (तरह तरह का) गवँन (गमन = चाल) सोहाता है ॥ (शिर पर) सोने के कलश से चन्द्र-रूपी मुख (और) दिपते हैं (चमकते हैं)। (आपम में) हँसी और केलि से, अर्थात् हँसी और विनोद करती झईं, आती जाती हैं ॥ वे नारी (पनिहारियाँ) जिस से आँख लड़ाती हैं (हेरहिं), जानें (उसे अपनी) बाँक नयन (तिरछी आँख) से कटारी मार देती हैं (हनहिं), अर्थात् कटारी के चोट से जो मन को दुःख होता है, वैसा-ही उन के देखने से जो हृदय में मदनामि उत्पन्न हो जाती है, उस से मनुष्य के मन को दुःख व्याप्त हो जाता है ॥ काली घटा की पाँति की तरह (सेधावली की तरह) शिर से पैर तक केश हैं । उस में (उस काली घटा में) दशन (दाँत) विजली की तरह चमकते हैं ॥

(वे पनिहारियाँ) मानें काम की मूर्ति हैं, और उन का वर्ण अप्सरा से भी अनुपम (उत्तम) है । जिस रानी की ऐसी पनिहारियाँ हैं, (नहीं जानते कि) वह रानी (पद्मावती) किस रूप की होगी ॥ ३२ ॥

चउपाईं ।

ताल तलाउ सो बरनि न जाहौँ । रुझइ वार पार तोहिं नाहौँ ॥
 फूले कुमुद केति उँजिआरे । जानउँ उए गगन मँह तारे ॥
 उतरहिं मेघ चढहिं लेइ पानी । चमकहिं मंछ बौजु कइ बानी ॥
 पइरहिं पंखि सो संगहिं संगा । सेत पौत राते सब रंगा ॥
 चकई चकवा केलि कराहौँ । निसि क बिछोहा दिनहिं मिलाहौँ ॥
 कुरलहिं सारस भरे हुलासा । जिअन हमार मुअहिं छक पासा ॥
 केवा सोन ढेँक बग लेदौ । रहे अपूरि मौन जल-भेदौ ॥

दोहा ।

नग अमोल तिन्ह तालहिं दिनहिं बरहिं जस दीप ।
 जो मरजौआ होइ तोहिं सो पावइ वह सौप ॥ ३३ ॥

ताल = जो कोसें तक लम्बे होते हैं, और किसी के खोदे नहीं होते, किन्तु पृथ्वी के नीची पड़ जाने से होते हैं । तलाव = तडाग । वार = जिधर देखने-वाला खड़ा हो, उधर जो किनारा हो । पार = पाट का दूसरा किनारा । केति = कितने । मंड = बड़े मत्थ । बानी = वर्ण = सदृश । कुरल्हिं = क्रीड़हिं = क्रीड़ा करते हैं । केवा = कमल । सोन, ढँक, और लेदी प्रसिद्ध ताल के पच्ची हैं, इन को बज्जधा लोग खाते हैं । वग = वक = बकुला । मौन = मछली ॥ मरजीआ = मर कर जो जीते हैं, अर्थात् जो समुद्र में रब निकालने के लिये गोता लगाते हैं (गोता-खोर) । ये जब गोता लगाते हैं, तब मानों मर जाते हैं । फिर जब उतराते हैं, तब मानों जी जाते हैं । इसी लिये मरजीआ कहाते हैं ॥

उस अमरावती में जो ताल के ऐसे तलाव हैं, वे बरने नहीं जाते । तिन का वार पार (कुक भौ) नहीं सूझता है ॥ उन में कितने उज्ज्वल कुमुद (कोई) फूले हैं । उन की श्रोभा ऐसी है, जानों गगन (आकाश) में तारे उए हैं ॥ (उन में पानी लेने के लिये) मेघ उतरते हैं, और पानी ले कर (फिर आकाश को) चढ़ जाते हैं । उस समय पानी के साथ जो मेघ-मण्डल में बड़े बड़े मत्थ चले जाते हैं, वे विजली के सदृश चमकते हैं ॥ उन तालावों में सेत (श्वेत), पीत, और राते (लाल) सब रङ्ग के पच्ची सङ्ग सङ्ग में पैरते हैं (तैरते हैं) ॥ चकई और चकवा (आपस में) क्रीड़ा करते हैं । ये दोनों निशि (रात्रि) के विक्रोहा (वियोगी) हैं, इस लिये दिन-हीं में मिल लेते हैं । (यह कहावत है, कि सन्ध्या होते-ही चकई (= चकवा की स्त्री) और चकवे (चक्र = चकवाक) में वियोग हो जाता है, ताल के इस पार एक दूसरे पार दूसरा एक एक के शोक में रात्रि भर चिन्हाचा करते हैं) ॥ सारस उज्जास (आनन्द) में भरे आपस में क्रीड़ा करते हैं । और (कहते हैं कि सच्चा) जीना हम लोगों का है, जो एक साथ (पास) मरते हैं । (सारस के जोडे में ऐसी परस्पर प्रौति होती है, कि यदि एक पकड़ लिया जाय, तो दूसरा आप से आप उस के पास आ जाता है) । इस लिये एक के मरने पर दूसरा उसी स्थान पर आ कर अपना भी प्राण गवाँ देता है) ॥ केवा (कमल), सोन, ढँक, वक, लेदी, और जल को भेदने-वाली, अर्थात् जल के भौतर रहने-वाली मछली, ये सब (उन तालावों में) भर पूर (अपूरि) रहे हैं, अर्थात् भरे पड़े हैं ॥ उन तालों में अमूल्य नग (रब) भरे हैं, वे दिन-हीं में ऐसे बरते हैं, (चमकते हैं) जैसे दीप । उन तालावों में जो मरजीआ (गोता-खोर) हो, सो उस सौप को पावे, जिस में वे नग रहते हैं ॥ ३८ ॥

चौपाई ।

पुनि जो लागु बहु अंब्रित बारौ ।	फरौँ अनूप होइ रखवारौ ॥
नउ-रँग नौउँ सुरंग जँभौरौ ।	अउ बदाम बहु भेद अँजौरौ ॥
गलगल तुरुँज सदा-फर फरे ।	नारँग अति राते रस भरे ॥
किसिमिसि सेउ फरे नउ पाता ।	दारिउँ दाख देखि मन राता ॥
लागु सोहाई हरिफा-रेउरौ ।	उनइ रहौ केला कइ घउरौ ॥
फरे तूत कमरख अउ नउँजौ ।	राइ-करउँदा बेरि चिरउँजौ ॥
संख-दराउ छोहारा डौठे ।	अउरु खजहजा खाटे मौठे ॥

दोहा ।

पानि देहिं खँडवानौ कुअँहिं खाँड बहु मेलि ।
लागौ धरौ रहंट कइ सौचहिं अंब्रित बेलि ॥ ३४ ॥

नउ-रँग = नव-रङ्ग । नौउँ = निमू । जँभौरौ = जँभौर । गलगल = एक प्रकार का निमू । तुरुँज = तुरंज = निमू । सदा-फर = सर्वदा फरने-वाले । नारँग = नारङ्गी । सेउ = सेव । दारिउँ = दारिम = अनार । दाख = द्राक्ष = अङ्गूर । हरिफा-रेउरौ = हालफा-रेवडौ । घउरौ = घौर । नउँजौ = लैँजौ लौचौ । राइ-करउँदा = राय-करेँदा । संख-दराउ = शङ्ख-द्रावक = संख को गला देने-वाला निमू, यह उदर रोग के लिये बड़े काम का है । खजहजा = मेवे के टृच (२८वें दोहे की ६वें चौपाई को देखो) ॥ खँडवानौ = गडुआ = झारौ, यहाँ पर हजारा जिस से फूल, पेंड, सौचते हैं । धरौ = छोटी छोटी गगरौ । रहंट = चक्राकार जल निकालने का यन्त्र = एक प्रकार की पुरवट = आरघट (संख्त में) ॥

पुनः (फिर) और जो बड़त अमृत (के ऐसी) बारौ (बगीचा) लगौ हैं, जो अनुपम (उत्तम) फरौ हैं, और उन की रखवारौ होती है ॥ उन में नव-रङ्ग, सुरङ्ग और जँभौर निमू हैं, और बदाम और बड़त भेद के, अर्थात् तरह तरह के, अँजौर हैं ॥ गलगल, तुरुँज (तुरंज = निमू, इसे बिजौड़िया कहते हैं, दवा में बड़धा काम आता है), और सदा-फर फरे हैं, नारंग फरे हैं, जो रस भरे अति राते (रङ्ग सुख) हो गये हैं ॥ किसिमिसि और सेव नये पत्ते से भरे फरे हैं । (कोई नउ पाता से

नाशपाती लेते हैं, परन्तु यहाँ कवि का यही अभिप्राय जान पड़ता है, कि किसमिस (मज्जारा के ऐसा) और सेव (अमरुत के ऐसा) नथा पत्ता लेते-ही फरते हैं । दाढ़िम (अनार) और दाख (अङ्गूर) को देख कर, (उन में) मन रक्त (राता) हो जाता है, अर्थात् लग जाता है । यही मन चाहता है, कि इन्हें देखा कौजिए ॥ हालफा-रेवड़ी जो लगी है, वह अत्यन्त शोभित है । और केले का घौर (मारे बोझों के) झुँक (उनइ) रहा है ॥ दृत, कमरख, नउँजी, राध-करोँदा, बैर, और चिरैँजी ये सब फरे हैं ॥ संख-द्राव और छोहारा भौ (उन बगौचों में) देखे जाते हैं, अर्थात् हैं, और खट्टे मौठे, जिनने खजहजा (मेवे के वृक्ष) हैं, सब वहाँ पर देख पड़ते हैं, अर्थात् ऐसे मेवे के कोई वृक्ष नहीं जो वहाँ पर न लगे हों ॥

(मालौ लोग) कूचों में खाँड डाल कर (मेलि), हजारा से (इन मेवे के वृक्षों में) पानी देते हैं । और रहंट की घड़ी लगी झट्टे हैं, जिन से अमृत-रूपी जो बेलि (वज्जी = लता) हैं, उन्हें सौँचते हैं ॥ ३४ ॥

चउपाई ।

मुनि फुल-वारि लागु चहुँ पासा । बिरिख बेधि चंदन भइ बासा ॥
 बहुत फूल फूलौ घन-बेइलौ । केवरा चंपा कुंद चवैँल्लौ ॥
 सुरँग गुलाल कदम अउ कूजा । सुगँध-बकाउरि गँधरब पूजा ॥
 नागेसर सतिवरग नेवारौ । अउ सिंगार-हार फुलवारौ ॥
 सोनिजरद फूलौ सेवतौ । रूप-मंजरौ अउर मालतौ ॥
 जाही जूही बकुचन्ह लावा । पुहुप सुदरसन लागु सोहावा ॥
 मउलसिरौ बेइलि अउ करना । सबइ फूल फूले बहु बरना ॥

दोहा ।

तेहि सिर फूलचढहि वेड जेहि माथहि मनि भागु ।

आछहि सदा सुगँध भइ जनु बसंत अउ फागु ॥ ३५ ॥

घन-बेइलौ, केवरा (= केवडा), चम्पा, कुन्द, चवैँल्लौ (= चमेलौ), सुरँग, गुलाल, कदम (= कदम्ब), कूजा, सुगँध-बकाउरि (= सुगन्ध-बकावलौ = गुल-बकावलौ), नागेसर, सतिवरग (= सदवरग), नेवारौ, सिंगार-हार (= हरसिंगार = पारिजाता), सोनिजरद

सेवतौ (= सोने सौ पीली सेवतौ, वा सोनि-जरद और सेवतौ), रूप-मञ्जरी, मालतौ, जाहौ, जूहौ, सुदर्शन, मउलसिरी (= मौलसिरी), बेदलि (= बेला), और करना, ये सब फूलों के नाम हैं ॥

फिर उस बगीचे के चारों ओर फुलवारी लगी है, जो (अपने) वास (सुगन्ध) से वृक्षों को बेध कर चन्दन झट्ट है, अर्थात् उस के सुगन्ध के लगने से सब वृक्ष सुगन्धित हो गये हैं, इस लिये फुलवारी चन्दन हो गई है, (चन्दन का गुण धारण करती है। क्योंकि चन्दन में यह गुण है, कि उस की सुगन्ध लगने से, और वृक्ष भी वैसा-ही सुगन्धित हो जाते हैं)। घन-बेली बड़त फूल फूली झट्ट है, और उस फुलवारी में, केवडा, चम्पा, कुन्द, चमेली, सुरंग, गुलाल, कदम्ब, और कूजा लगे हैं, सुगन्ध-वकावली भी है, जो कि राजा गन्धर्व-सेन के पूजा-योग्य है, अर्थात् केवल राजा गन्धर्व-सेन के यहाँ उस के फूल पड़चते हैं, दूसरे को दुर्लभ हैं ॥ फुलवारी में नागेसर, *सदवरग, नेवारी और हर-सिंगार (भी) हैं ॥ सोनजर्द, सेवतौ, वा पीली सेवतौ, रूप-मञ्जरी, और मालतौ फूली झट्ट हैं ॥ जाहौ और जूहौ ढेर के ढेर (बकुचन्ह), अर्थात् बड़त, लगाई हैं । (इस फूल का धर्म है, कि एक लगाने से कुछ दिनों में हजारों हो जाते हैं)। सुदर्शन फूल भी लगा झआ शोभित है ॥ मौलसिरी, बेला, और करना फूले हैं, और अनेक वर्ण के फूल फूले हैं ॥

वे फूल जिस के शिर चढ़ते हैं, जिस के माथे में मणि (कान्ति) और भाग्य हो । (वहाँ) सर्वदा अच्छी सुगन्ध भर्द है, अर्थात् हो रही है, जानों (सर्वदा) वसन्त और फाग है ॥

बेला की साधारण चार जाति है, सुँगरा, मदन-वान, मोतिया, और बेदलि । सुँगरा के फूल में बड़त पञ्चियाँ होती हैं । मदन-वान का फूल लम्बा और कुछ नोखीला होता है । मोतिया का फूल मोती के ऐसा होता है । और बेदलि के फूल में पञ्चियाँ अलग अलग होती हैं । सुँगरे को घन-बेदलि भी कहते हैं । रूप-मञ्जरी चार प्रकार की होती है, दो गुलाबी, एक लाल, और एक श्वेत । श्वेत बड़त मिलती है, और तीन बड़त कम । करना एक प्रकार का निमू है, इस के फूल में सुगन्ध भी होता है । करने का अंतर कान में छोड़ने से, कान की पौड़ा अच्छी हो जाती है । (६०वें दोहे को देखो) ॥ ३५ ॥

* फारसी शब्द (५०) = सौ । बगं (پُر) = पक्षी । जिस में सौ पञ्चियाँ दें, अर्थात् हजारा ॥

चउपाई ।

सिंघल नगर देख पुनि बसा । धनि राजा असि जा करि दसा ॥
 ऊँचौ पवँरौ ऊँच अबासा । जनु कविलास इँदर कर बासा ॥
 राउ राँक सब घर घर सुखौ । जो दीखइ सो हँसता-मुखौ ॥
 रचि रचि साजे चंदन चउरा । पोते अगर मेद अउ गउरा ॥
 सब चउपारिन्ह चंदन खँभा । ओठँघि सभा-पति बइठे सभा ॥
 जनउँ सभा देओतन्हि कइ जूरौ । परइ दिसिटि इँदरासन पूरौ ॥
 सबइ गुनौ पंडित अउ ग्याता । संसकिरित सब के मुख बाता ॥

दोहा ।

आहक पंथ सँवारई जनु सिउ-लोक अनूप ।
 घर घर नारौ पदुमिनौ मोहहि दरसन रूप ॥ ३६ ॥

पवँरौ = पौरौ = डेवढौ । अबासा = आवास = निवास-स्थान । राँक = रङ्ग = दरिद्र
 चउरा = चौतरा । मेद = कस्तुरौ । गउरा = गोरोचन । चउपारि = चतुः-शाला = बैठक,
 जिस में चारों ओर रुलता रहे । देओतन्हि = देवताओं । ग्याता = ज्ञाता । संसकिरित =
 संस्कृत ॥ आहक = हाहा = गम्भई-विशेष ॥

फिर सिंघल-नगर बसा देखा गया है। (उस बमने को देख कर यही कहा जाता है, कि) धन्य वह (गम्भई-सेन) राजा है, जिस की ऐसी दशा है, अर्थात् भाग्योदय है ॥ (जिस स्थान पर राजा रहता है), उस की डेवढौ (दरवाजा) ऊँचौ है, और निवास-स्थान भी ऊँचा है। ऐसा ऊँचा निवास-स्थान, जानेँ इन्ह का वास-स्थान कैलास है। (इन्ह से यहाँ महेश से तात्पर्य है, क्योंकि महादेव का वास-स्थान कैलास है) ॥ क्या राजा, क्या रङ्ग, सदा (अपने) घर घर सुखौ हैं, और जो देख पड़ता है, सब हँसता-मुखौ (प्रसन्न-वदन) है ॥ सब कोई रच रच कर चन्दन का चजतरा सजे हैं, अगर, कस्तुरौ और गोरोचन (उस चजतरे में) पोते हैं ॥ जितने चउपार (चतुः-शाला) हैं, सब में चन्दन के खम्भे लगे हैं, जिन में (खम्भे में) ओठँघ (लग) कर सभा में (चतुः-शाला में) सभा-पति लोग बैठे हैं ॥ (उस घडौ ऐसी शोभा है), जानौ देवताओं की

सभा जुटी (जूरी), अर्थात् लगी, है, (चैर उस चतुः-शाला पर दृष्टि पड़ने से यही जान पड़ता है), जानौं इन्द्र के आसन (बैठक) की पुरी (अमरावती) पर दृष्टि पड़ती है ॥ सब गुणी, पण्डित, और ज्ञाता (विज्ञ) हैं । सब के मुख में संख्त की बात है, अर्थात् सब कोई संख्त बोलता है ॥

आहक (हाहा नाम का गन्धर्व) पन्थ (पथ = राह) को बनाता है, जानौं अनुपम शिव-लोक है (वह सिंघल नगर) । चैर वहाँ घर घर पद्मिनी रानी हैं, जो अपने रूप के दर्शन से, अर्थात् रूप को दिखा कर, सब को मोह लेती हैं (मोहती हैं) ॥ ३६ ॥

चउपाई ।

मुनि देखी सिंघल कइ हाटा । नउ-उ निद्वि लछिमौ सब पाटा ॥
 कनक हाट सब कुंकुँहि लौपी । बइठ महाजन सिंघल-दौपी ॥
 रचहिं हतउडा रूपहि ढारी । चितर कटाउ अनेक सँवारौ ॥
 सोन रूप भल भण्ड पसारा । धवर-सिरौ पटवन घर-बारा ॥
 रतन पदारथ मानिक मोतौ । हौरा पवंरि सौ अनवन जोतौ ॥
 अउ कपूर बेना कसतूरौ । चंदन अगर रहा भरि पूरौ ॥
 जोइ न हाट शहि लौन्ह बेसाहा । ता कहूँ आन हाट कित लाहा ॥

दोहा ।

कोई करइ बेसाहना काह्न केर बिकाइ ।
 कोई चलइ लाभ सउँ कोई मूर गवाँइ ॥ ३७ ॥

हाटा = हाट = हटा = बजार ॥ कुंकुँहि = कुंकुमा से = एक प्रकार की रोरी से ।
 हतउडा = हथौडा ; जिस से सोनार-लोग आभूषण बनाते हैं । रूपहि = रूप को, अर्थात् स्वरूप को । चितर = चित्र । कटाउ = कटाव = काट काट कर, अनेक फूल पत्ते की रचना । सोन = सोना = स्वर्ण । रूप = रूपा = रौप्य = चाँदी । पसार = प्रसार = फैलाव । धवर-सिरौ = धवल-श्री = उच्चल श्रोभा । पटवन = पट-बन्ध = पर्दा । पवंरि = डेवढौ । अनवन = जो बनने के योग्य न हो, अर्थात् अनुपम, वा अन्य अन्य = अनेक । जोतौ = प्रकाश । बेना = खस-हण । अगर = अगुरु, एक सुगन्धित काष । बेसाहा = खरौद की वस्तु । कित = कुतः = कहाँ । लाहा = लाभ ॥ बेसाहना = खरौद की वस्तु । मूर = मूल-धन ॥

फिर सिंघल के हाट को देखा । जहाँ नवो निधि की सब लक्ष्मी पटी है ॥ पद्म, महापद्म, शङ्ख, मकर, कच्चप, मुकुन्द, नन्द, नौल, और खर्व, ये नवो निधि हैं । सोने की बाजार सब कुंकुमा से लौपी छई है । उस में सिंघल-दीप के महाजन बैठे हैं ॥ (साँचे में) स्त्रूप (मूर्त्ति) को ढार कर, तरह तरह के चित्र और कटाव को बना कर, हथौडे से (पौट पौट कर, जहाँ कुछ कसर रह गई है, उसे) बनाते हैं ॥ (उस हाट में) सोने और चाँदी का अच्छा फैलाव छआ है, अर्थात् बैंचने के लिये, जहाँ देखो, तहाँ सोने रूपे के खेलौने इत्यादि फैलाये छए हैं । घर के बार, अर्थात् द्वार, में पर्दे लगे हैं, जिन की उज्ज्वल शोभा है, अर्थात् श्वेत वर्ण के सब पर्दे शोभित हैं ॥ रन के पदार्थ, माणिक्य, मोती, और हीरे डेवढियों में जडे हैं, जिन की ज्योति अनुपम है । (कोई अनवन का अनेक अर्थ करते हैं, अर्थात् जिन की अनेक प्रकार की ज्योति है) ॥ और कर्पूर, खस, कस्तूरी, चन्दन और अगर (हाट में) पूरे तौर से, अर्थात् चारों ओर, भर रहे हैं ॥ जिधर देखो, तिधर सुगन्ध से हाट महमह महक रही है ॥ जिन्हें ने इस हाट में नहीं खरीद किया, उन को दूसरी हाट में कहाँ लाभ, अर्थात् ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जो इस हाट में न बिकता हो, और जो पदार्थ इस में नहीं है, सो फिर दूसरी हाट में कहाँ लाभ हो, क्योंकि सब हाटों से बढ़ कर, यह हाट है ॥

कोई खरीद कर रहा है, किसी का (पदार्थ) बिक रहा है । कोई लाभ उठा कर, और कोई मूर को भी गवाँ कर, वहाँ से चलते हैं ॥ ३७ ॥

चउपाई ।

मुनि सिंगार हाट धनि देसा । कड़ सिंगार तहँ बइठौं बेसा ॥
 मुख तँबोल तन चौर कुसुंभौ । कानन्ह कनक जराऊ खुंभौ ॥
 हाथ बौन सुनि मिरिग भुलाहौँ । सुर मोहहि सुनि पइग न जाहौँ ॥
 भउँहँ धनुख तिन्ह नयन अहेरौ । मारहि बान सानि सउँ फेरौ ॥
 अलक कपोल डोलु हँसि देहौँ । लाड कटाछ मारि जिउ लेहौँ ॥
 कुच कंचुकि जानउँ जुग सारौ । अंचल देहि सुभाव-हि ढारौ ॥
 केत खेलार हार तिन्ह पासा । हाथ आरि होइ चलहि निरासा ॥

दोहा ।

चेटक लाइ हरहि॑ मन जउ लहि॑ गँठि॑ होइ॑ फेटि॑ ।
साँठि॑-नाँठि॑ उठि॑ भण॑ बटाऊ ना पहिचानि॑ न भेटि॑ ॥३८॥

सिंगार = श्वङ्गार । धनि = धन्य । बेसा = वेश्या । तंबोल = ताम्बूल । तन = तनु = शरीर, वा पतला । चौर = वस्त्र । कुसुंभी = कुसुमी = कुसुम-रङ्ग का । खुंभी = खुँभिया = काँप । बौन = बौणा । मिरिग = मृग । सुर = खर । पदग = पग = प्रग = पद । भजँह = भू । अहेरी = अहेर करने-वाला । सानि = सान = शाण, जिस पर वाण, कूरी, इत्यादि फिरा कर चोखे किये जाते हैं । अल्क = लट । कपोल = गाल । कटाछ = कटाच । कंचुकि = कञ्जुकी = चोलिया = चोली । जुग = युग = दो । सारी = पासा ॥ चेटक = चटक मटक से टोना लगा देना, वा दूत । गँठि = ग्रन्थी = गठरी (हृपये पैसे की) । फेटि = फेट = कमर में लपेटा झाड़ा वस्त्र । साँठि-नाँठि = बे पैसे कौड़ी के । साँठ ऊख को कहते हैं, और नाँठ नष्ट का अपभ्रंश है, अर्थात् वह ऊख, जो कि नष्ट, अर्थात् नौरस हो गई हो, यह शब्दार्थ है । अब निर्धनी के अर्थ में प्रचलित है । बटाऊ = बाट चलने-वाला = राही ॥

फिर श्वङ्गार की हाट, अर्थात् जहाँ रूप बिकते हैं, वह धन्य देश (स्थान) है । तहाँ श्वङ्गार किये वेश्यायें बैठी हैं ॥ मुख में ताम्बूल (पान) खाये हैं, शरीर में कुसुम-रङ्ग का वस्त्र पहिने हैं, वा कुसुम-रङ्ग का पतला वस्त्र पहिने हैं (जिस में ऊपर से अंग का झलक देख पडे) । मानें में जडाऊ (नग से जड़ी झई) सोने की काँप, वा कर्ण-फूल, पहिने हैं ॥ हाथ में बौणा को लिये हैं, जिन के शब्द को सुन कर मृग (हरिण) भूल जाते हैं । और उस के खर को सुन कर ऐसे मोह जाते हैं कि एक पैर नहीं चलते, अर्थात् चित्र से खडे रहते हैं ॥ उन की आँखें गिकारी भौंह-रूपी धनुष से, मान पर फेर कर, वाण को मारती हैं । यहाँ दृष्टि-पात को वाण, और कटाच को मान समझना चाहिये, और इधर उधर पुतलियों का फेरना, मानें उस दृष्टिपात-रूपी वाण पर मान फेरना है ॥ गालें पर जो लट लटकती हैं, वह उन के हँस देने पर डोखने लगती हैं, अर्थात् डोख कर पथिकों को अपने पास बुलाती हैं । वे वेश्यायें (पथिकों के सनुख होने पर) कटाच को लगा कर, अर्थात् अपनी बाँकी चितवन से, जीव मार लेती हैं, अर्थात् मूर्छित कर देती है ॥ चोली के भौतर उन के

कुच (सून) जानों दो पासे हैं, जिन को स्वभाव-ही से अंचल ढार देते हैं, अर्थात् मैदान में फेंक देते हैं। कवि का यहाँ पर ऐसा आशय है, कि पश्चिकों को लुभाने के लिये वेश्यायें स्वभाव-ही से चण चण पर जो अच्छल कुच पर से हटा लेती हैं, इस से पश्चिकों के दृष्टि-गोचर वे कुच हो जाते हैं, सो मानों अंचल ने पश्चिकों के सामने कुच-छपी पासाओं को फेंक दिया, कि यदि खेलाड़ी हो, तो आओ, और इन पासों से खेलो ॥ तिन्ह पासों से कितने खेलाड़ी हार गये हैं । और हाथ झाड़ कर निरास हो कर चले जाते हैं, अर्थात् ऐसे जादू के बे पासे हैं, कि उन से, यदि कोई खेले, तो वेश्याओं से प्रत्यक्ष में हार जाय । जुआरी जब हार जाता है, तब हाथ को साफ करने के लिये, झाड़ देता है, वस्तुतः वह झाड़ता नहौं किन्तु मन में पछता कर हाथ मलता है ॥

जब तक कमर में गंठरी (रूपये पैसे की) रहती है, तब तक चटक मटक से टोना सा लगा कर, वा दून को लगा कर, मन को हर लेती है । और जब निर्धनी हो जाता है, तब ऐसी चेष्टा करती है, जानों न कभीं की भेंट न पहिचान है । इस लिये वह बेचारा उठ कर, बटाऊ हो जाता है, अर्थात् अपने कर्तव्यता को शोचता, वहाँ से चलता होता है ॥

यहाँ दीमा के स्थान में, तुक मिलाने के लिये, यदि कवि ने देसा किया हो, ऐसा मानो, तो पहच्छी चौपाई का अर्थ ‘फिर इट्टार हाट को धन्य, अर्थात् विचिच्च, देखा,’ यह करना चाहिए ॥ सातवीं चौपाई में ‘तिन्ह पासा’ का तिन (वेश्याओं) के पास (निकट) कितने खेलाड़ी हार गये, यह भी अर्थ कर सकते हो ॥ ३८ ॥

चउपाई ।

लौड़ लौड़ फूल बड़ठि फुलवारी । पान अपूरब धरे सँवारी ॥
 सैँधा सबड बद्धु लौड़ गाँधी । बहुल कपूर खिरउरी बाँधी ॥
 कतहँ पंडित पढ़हिँ पुरानू । धरम पंथ कर करहिँ बखानू ॥
 कतहँ कथा कहइ किछु कोई । कतहँ नाँच कोड भल होई ॥
 कतहँ छरहटा पेखन लावा । कतहँ पखंडी काठ नचावा ॥
 कतहँ नाद सबद होइ भखा । कतहँ नाटक-चेटक-कला ॥
 कतहँ काहु ठग बिदिआ लाई । कतहँ लेहिँ मानुस बउराई ॥

दोहा ।

चरपट चार गँठि-छोरा मिले रहहिँ तेहि नाँच ।
जो तेहि हाट सजग रहइ गँठि ता करि पद बाँच ॥ ३६ ॥

फुलवारी = फूल-वाली = फूल बैंचने-वाली । अपूर्व = अपूर्व । सेँधा = सुगन्ध-द्रव्य = अँतर फुलेल । गँधी = गन्धी = अँतर फुलेल बैंचने-वाला । बड्डत = बड्डत । खिरउरी = खिरौरी = मसालेदार खैर की गोली, जिस से पान में विशेष स्वाद उत्पन्न होता है । हमारे प्रदेशों में बड्डत प्रसिद्ध है, जैसे यज्जनों में मूँग, तिळ, और कोहडे, इत्यादि से 'मुँगौरी', 'तिलौरी', 'कोहडौरी', इत्यादि शब्द बने हैं, उसी प्रकार खैर से 'खिरौरी' ड्डआ है । कोड = कूर्दन = कूदना । करहटा = नकल करने-वाले = चार (भस्म) जपेटने-वाले । पेखन = प्रेक्षण = दृश्य = मेला । पखंडी = पाखण्डी = धूर्त = कठ-पुतली नचाने-वाला । नाटक-कला = नट लोगों की बाजी-गरी । चेटक-कला = चटक मटक से टोना लगा देने-वाली कला, जिस से मनुष्य विवश हो जाय । बिदिआ = विद्या । बउराई = बौरहा ॥ चरपट = चपाट = मूर्ख, जो जबरदस्ती अपने जोर से दूसरे की चौज को क्छीन ले । गँठि-छोरा = गठरी को क्छीन लेने-वाले, = चाई । सजग = सञ्चित = सावधान । पद = अपि = निश्चय से ॥

(उस हाट में) फूल बैंचने-वाली मालिन फूलों को ले ले कर बैठी है । और बना कर (सँवारि) अपूर्व (जो कि पहले न देखा गया हो) पान को धरे ड्डई है ॥ गन्धी सब सुगन्ध द्रव्य को ले कर, और बड्डत कपूर के साथ खिरौरी बाँध कर बैठा है । (यहाँ 'बड्डत' के स्थान में 'मेलि' यह पाठ अच्छा है । तब 'गन्धी सब सुगन्ध द्रव्य को ले कर बैठा है' और कपूर डाल कर (मेलि) खिरौरी को बाँधा है, अर्थात् बनाया है) ॥ कहौं पलिंत पुराण को पढ़ते हैं, और धर्म-पथ का वर्णन करते हैं ॥ कहौं पर कोई कुछ कथा कहता है । कहौं पर अच्छी तरह नाँच और कूद हो रहा है ॥ कहौं पर नकल करने-वाला मेला लगा रखा है । कहौं पर कठ-पुतली नचाने-वाला काठ-ही को (काठ की पुतलियों को) नचा रहा है ॥ कहौं पर (वाद्य का) नाद हो रहा है, जिस का शब्द भला (जान पड़ता) है ॥ कहौं पर नटों का खेल, और चालाकों का हथ-फेर सम्बन्धी खेल हो रहा है ॥ कहौं पर ठग ने किसी के ऊपर (ठगने के लिये) अपनी विद्या को लगाया है । कहौं पर लोग (अपने यन्त्र मन्त्र से) मनुष्य को बौरहा कर लेते हैं ॥

जबरदस्त, चोर, और चार्ड उन नाँचों से मिले रहते हैं, अर्थात् ऊपर जो कह आये हैं, कि कहीं कहीं अच्छी तरह से नाँच कूद हो रहा है, वहाँ पर उसी नाँच कूद से ये सब मिले रहते हैं। इस लिये जो कोई तिस हाट में सावधान रहता है, तिसी की निश्चय कर के गँठरी बचती है ॥ २८ ॥

चउपाई ।

पुनि आए सिंघल-गढ पासा । का बरनउँ जनु लागु अकासा ॥
 तरहि कुरम बासुकि कद पौठी । ऊपर इँद्र-लोक पर डौठी ॥
 परा खोह चहुँ दिसि तस बाँका । काँपइ जाइ नहिँ झाँका ॥
 अगम अस्त्र देखि डर खाई । परइ सो सपत पतारहि जाई ॥
 नउ पउरी बाँकी नउ खंडा । नउ-उ जो चढइ जाइ ब्रह्मंडा ॥
 कंचन कोट जरे कउ सौसा । नखतन्ह भरी बौजु जनु दौसा ॥
 लंका चाहि ऊँच गढ ताका । निरखि न जाइ दिसिटि मन थाका ॥

दोहा ।

हिंश न समाइ दिसिटि नहिँ जानउँ ठाड सुमेरु ।
 कहुँ लगि कहउँ उँचाई कहुँ लगि बरनउँ फेरु ॥ ४० ॥

कुरम = कूर्म = कच्छप। बासुकि = वासुकि-नाग। खोह = खन्धक। कउ = कद-उ = कई ॥

फिर सिंघल-गढ के पास जो आए, (तो देखने से बुद्धि घकित हो जाती है)। उस का क्या वर्णन करूँ। (इतना ऊँचा है), जानेँ आकाश में लगा ज्ञाना है ॥ तले (तरहि) तो (वह) कूर्म और वासुकि के पौठ तक चला गया है, और उस के ऊपर देखने से इन्द्र-लोक पर दृष्टि पड़ती है, अर्थात् इस की नौँच कूर्म और वासुकि के पौठ पर है, और ऊँचा इतना है, कि उस पर से इन्द्र-लोक देख पड़ता है। (कूर्म और वासुकि-नाग पृथ्वी के आधारों से हैं। पुराणों में कथा है, कि कूर्म, वाराह, शेष-नाग, वासुकि-नाग, और दिग्गज, ये सब पृथ्वी को धारण किये हैं, जिस से यह नीचे को नहीं जाती। कभीं कभीं ये लोग जब बोझे से थक कर श्वास लेते हैं, तब भू-कम्प होता है)। तैसा कठिन (बाँका) उस गढ के चारों ओर खन्धक पड़ा है, कि झाँका नहीं जाता,

झाँकने से जाँघ कँपने लगती है ॥ अगम्य और असूझ उस खन्धक को देख कर, ऐसा डर (भय) उत्पन्न होता है, कि वह भय (शरीर) खाने लगता है । (यदि) कोई उस में पड़ जाय (गिर जाय), तो वह सातवें पाताल में चला जाय, अर्थात् खन्धक की गहराई सातवें पाताल तक चली गई है । अतल, वितल, सुतल, तत्त्वातल, महातल, रसातल, और पाताल ये सात नीचे के लोक हैं, जिन में सातवाँ पाताल है (भागवत, पञ्चम-खन्ध, २४वीं अध्याय के ७वें श्लोक को देखो) । उस गढ़ में नव खण्ड है, और बड़ी दुर्गम (बाँकी) नव डेवढ़ी है । नवों डेवढियों पर जो चढ जाय, वह (जानें) ब्रह्माण्ड पर चढ गया, अर्थात् वह गढ़ नव-महला है, प्रत्येक महल पर चढने के लिये एक एक डेवढ़ी है । नवों को लाँघ कर, तब ऊपर पङ्कचना होता है, ऊपर पङ्कचने पर जान पड़ता है, कि ब्रह्माण्ड के ऊपर पङ्कच गये । मिद्दान्त शिरोमणि में भास्कराचार्य ने लिखा है कि—

ज्योतिः शास्त्रविदो वदन्ति नभसः कचामिमां योजनैः ।

तद्ब्रह्माण्डकटाहसम्पृष्टते केचिक्कगुर्वैष्टनं — दत्यादि

अर्थात् जिस ब्रह्माण्ड के भौतर पृथ्वी, यह, नचन्नादि, और सब लोक हैं, वह दो कराएँ के सम्पुट ऐसा है, जिस का घेरा १८७१७६८२००००००००० योजन है॥ वह कोट (गढ) सोने का है, और उस में कई प्रकार के सौसे लगे हैं। उस से उस की ऐसी ग्रोभा है, जानों नचन्नों से भरी विजली देख पड़ती है॥ सुवर्ण विजली, और सौसे नचन्न के सदृश समझो। उस गढ को लड़ा से भौ ऊँचा देखा। निरख नहीं जाता, निरखने से (निरीचण करने से) दृष्टि और मन थक जाते हैं॥

(उस गढ़ की सब रचना) न हृदय में समाती, और न दृष्टि में समाती। जान पड़ता है कि गढ़ नहीं, सुमेरु पर्वत खड़ा है। कहाँ तक उस की उँचाई कहँ, और कहाँ तक उस के फेर (परिधि) का वर्णन करँ॥ कवि का आशय है, कि जब वह मन और दृष्टि से बाहर है, और उन में समाय नहीं सकता, तब कहाँ तक उस का वर्णन हो सकता है॥ सुमेरु सुवर्ण का पर्वत है, और उस के चारों ओर नच्च धूमती हैं, इस लिये सुमेरु का उपमा देना योग्य है॥ ४६-४० दोहे में गावने-वाले अपने मन से कई पद मिला दिये हैं, जिन को मैं ने निकाल दिया है, क्योंकि छन्दो-भज्ज दोष पड़ता था॥ ४०॥

चउपाई ।

निति गढ बाँचि चलइ ससि सूरा । नाहिं त होइ बाजि रथ चूरा ॥
 पउरौ नउ-उ बजर कइ साजौ । सहस सहस तहं बइठे पाजौ ॥
 फिरहिं पाँच कोटवार सो भवंरौ । काँपइ पाउँ चंपत वेइ पउरौ ॥
 पउरिहि पउरि सिंह गढि काढे । डरपहिं राइ देखि तिन्ह ठाढे ॥
 बहु बिधान वेइ नाहर गढे । जनु गाजहिं चाहहिं सिर चढे ॥
 टारहिं पूँछि पसारहिं जौहा । कुंजर डरहिं कि गुंजरि लौहा ॥
 कनक-सिंला गढि सौढी लाईँ । जगमगाहिं गढ जपर ताईँ ॥

दोहा ।

नउ-उ खंड नउ पउरौ अउ तेहि बजर केवार ।
 चारि बसेरे सउँ चढइ सत सउँ चढइ जो पार ॥ ४१ ॥

बाँचि = बचा कर । ससि = शशि = चन्द्रमा । सूरा = सूर = सूर्य । बाजि = बाजौ = घोडा । चूरा = चूर = चूर्ण । बजर = वज्र । पाजौ = पञ्चि = पैदल सिपाहौ = योद्धा । कोटवार = कोट-पाल = कोतवाल । भवंरौ = भ्रमण = फेरा । राइ = राजा । नाहर = सिंह । टारहिं = टारते हैं = दधर उधर हिलाते हैं । पसारहिं = फैलाते हैं । जौहा = जिङ्गा = जीभ । कुंजर = हस्ती । गुंजरि = गुञ्जार कर = शब्द कर । लौहा = इता है ॥
 बसेरा = निवास-स्थान । पार = समर्थ = कुशल ॥

चन्द्रमा और सूर्य उस गढ (गाढ = दुर्ग = किला) को बचा कर निय चलते हैं, नहीं तो उन के घोडे और रथ चूर हो जाते (गढ के ठोकर से) । (इस से अत्यन्त गढ की उचाई सिद्ध झई, कि सूर्य चन्द्र की कच्चा भी उस के अधो भाग-ही में है, और पुराणों में कथा है, कि मेरु के चारों ओर चन्द्र, सूर्य घूमते हैं । पिछले दोहे में गढ को सुमेरु कहा है, इस लिये पूर्णेपमा यहाँ पर झई) ॥ नवो डेवढी वज्र की सजौ झई है, तहाँ हजार हजार योद्धा लोग बैठे हैं ॥ और पाँच कोतवाल जो हैं सो भवंरौ फिरा करते हैं, अर्थात् दिन रात कोट के चारों ओर फेरा किया करते हैं । इस लिये उन पौरियों पर पैर चंपते-ही कंपता है ॥ पौरी पौरी पर सिंह गढ कर काढे हैं, अर्थात् बनाये गये हैं । जिन्हें खडे देख कर राजा लोग (सज्जा सिंह समझ कर) उरते

हैं ॥ बड़त विधान (विधि) से वे सिंह गढे छए हैं, अर्थात् सच्चे सिंह से उन से कुछ भेद नहीं समझ पड़ता है । वे ऐसे जान पड़ते हैं, जानें गरजते हैं, और शिर पर चढ़ा चाहते हैं ॥ वे पूँछ को हिलाते हैं, और जीभ को फैलाते हैं । (इस चेष्टा को देख कर) हाथी डरते हैं, कि ये सिंह गुच्छार कर अब लिया चाहते हैं ॥ शोने की शिला को गढ़ कर (गढ़ में) थौढ़ी लगाई गई है, जो कि गढ़ के ऊपर तक जगमगाती है ॥

नवो खण्ड में नव डेवटियाँ हैं, और तिन में वज्र के केवाडे लगे हैं । जो कोई सत्य से, अर्थात् निष्कपट व्यवहार से, चढ़ने में समर्थ है, वह चार दिन बसेरा कर (टिक कर), तब (उस गढ़ पर) चढ़ता है, अर्थात् जिस को उस के सत्य व्यवहार से चढ़ने की आज्ञा मिलती है, उसे गढ़ पर चढ़ने में चार दिन लगते हैं ॥

यहाँ पर गढ़ को श्रौर, और दो आँख, दो कान, दो नासिका के पूरे, और दो गुच्छेन्द्रिय ये नव पौरी, और प्राण अपानादि पाँच वायु को कोतवाल, हड्डियों को वज्र कपाट, रोमादिकों को घोड़ा, और अन्तःकरण-स्थ आत्मा को गढ़ का राजा मानने से, अर्थात् इसे सकता है ॥ ४१ ॥

चउपाई ।

नवउँ पउरि पर दसउँ दुआरा । तेहि पर बाजु राज-घरिआरा ॥
 घरौ सो बइठि गनइ घरिआरौ । पहर पहर सो आपनि बारौ ॥
 जबहिं घरौ पूजइ वह मारा । घरौ घरौ घरिआर पुकारा ॥
 परा जो डाँड जगत सब डाँडा । का निचिंत माँटौ के भाँडा ॥
 तुम्ह तेहि चाक चढे होइ काँचे । आण्ड फिरइ न थिर होइ बाँचे ॥
 घरौ जोँ भरइ घटइ तुम्ह आज । का निचिंत सोअहु रे बटाज ॥
 पहरहि पहर गजर निति हेई । हिआ निसोगा जागु न सोई ॥

दोहा ।

मुहमद जौअन जल भरन रहट घरौ कइ रौति ।
 घरौ जो आइ जौअन भरौ ढरौ जनम गा बौति ॥ ४२ ॥

राज-घरिआरा = राजा का घण्टा । इस की पहले सूरत घरियार (जल-यन्त्र) के ऐसी होती थी । इसी लिये इस का घरियार नाम छआ । घरौ = घटौ = जल-घटौ । पहले यह दश पल तासे की छ अङ्गूल ऊँची, और बारह अङ्गूल विसृत गोलार्द्ध के आकार की ऐसी बनती थी, जिस में साठ पल पानी भरे । इस के नीचे तीन मासा और एक मासे की तिहाई सोने से जो गोल चार अङ्गूल लम्बा तार बने, उस से क्वेद किया जाता था, उसी क्वेद से कुण्ड में वा जल-पूर्ण पात्र में घटौ को छोड़ देने से, साठ पल वा एक घड़ी (नाड़ी) में वह भर जाती थी । ऐसा-ही ज्यौतिष मिद्धान्त में श्रीपति ने, जो कि ८६१ श्लाका (१०३८ ई०) में थे, लिखा है,—

‘शुल्वस्य दिग्मिर्विहितं पलैर्यत् षडङ्गुलोच्चं द्विगुणायतास्यम् ।

तदम्भसा षष्ठिपलैः प्रपूर्यं पात्रं घटार्द्धप्रतिमं घटौ स्यात् ॥१॥

सत्र्यंशमाषत्रयनिर्मिता या चेन्नः शलाका चतुरङ्गुला स्यात् ।

विद्धुं तथा प्राक्तनमत्र पात्रं प्रपूर्यते नाडिकया इमुना तत् ॥२॥

घरिआरौ = घण्टा बजाने-वाला । पहर = प्रहर । बारौ = वार = क्रम = पारौ । डाँड़ = डण्डा = घण्टा बजाने की लकड़ी । डाँड़ा = डाँटा = डपेटा । निचिंत = निश्चिन्त = बेफिकिर । भाँडा = भाण्ड = वर्तन । चाक = चक, कोहार का । काँचे = कचे । घिर = स्थिर । आऊ = आयु । गजर = गर्जर = गजल । निसोगा = निश्गोक = निश्वय कर के जिसे शोक हो, अर्थात् अभागा । सोई = सो कर ॥ रहट = पुरवट = आरघट । जौचन = जौवन = जिन्दगी वा जल ॥

नवीँ पौरी के ऊपर एक दशवाँ ढार है, तिस पर राजा का घण्टा बजता है ॥ घण्टा बजाने-वाला जो है, सो बैठ कर घड़ी को गिना करता है । ऐसा वे बजाने-वाले पहर पहर पर अपनी अपनी पारौ में करते हैं, अर्थात् पहर पहर पर पहरा बदला जाता है । तब एक एक की पारौ आती है ॥ जब घड़ी (जल-घड़ी) भरती है (पूजती है) तब वह बजाने-वाला (घण्टे पर लकड़ी से) चोट मारता है, (इस प्रकार से) घड़ी घड़ी पर घण्टा पुकारा करता है ॥ घण्टे पर जो डण्डा पड़ता है, सो (जानेँ) सब जगत (सब मनुष्य) को डाँटता है, कि हे मट्टी के वर्तन क्या निश्चिन्त हो ॥ (तुम्हें नहीं मालूम कि) तुम कचे हो कर तिस ईश्वर के चाक पर चढ़े हो, (इस लिये) तुम (इधर से उधर) फिरने के लिये आये हो । स्थिर हो कर बैंच नहीं सकते ॥ और ज्योँ ज्योँ घड़ी भरती है, त्योँ त्योँ तुम्हारी आयु घटती है, (इस प्रकार जब तुम्हारी

ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਥਾਂ) ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਫਿਰ (ਬਟਾਊ) ਤੁਸੁ ਕਿਆ ਨਿਖਿਨ ਸੌਤੇ ਹੋ ॥ ਕਿਵਿ ਕਹਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਖੂਰ੍ਧ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਪਛਾਰ ਪਛਾਰ ਪਹਾਰ ਪਹਾਰ ਨਿਤ ਗਜ਼ਲ ਝੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, (ਪਰਨਤੁ) ਯਹ ਨਿਸ਼ਗਾ (ਅਭਾਗਾ) ਹਵਦਾ ਸੋ ਕਰ ਜਾਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥

ਸੁਹਸ਼ਾਦ ਕਿਵਿ ਕਹਤੇ ਹੈਂ, ਕਿ ਪੁਰਵਟ ਆਤ ਘਡੀ ਮੌਜੈ ਸੌ ਜਲ ਮਰਨੇ ਕੀ ਰੌਤਿ ਹੈ, ਵੈਸਾ-ਹੈ ਯਹ (ਮਨੁਥ ਕਾ) ਜੀਵਨ ਹੈ । ਜੋ ਘਡੀ ਆ ਕਰ ਜੀਵਨ ਕੋ ਮਰੌ, ਵਹੀ ਫਿਰ ਢਰ ਗੜ੍ਹ, ਅਰਥਾਤ् ਖਾਲੀ ਹੋ ਗੜ੍ਹ, (ਏਸਾ-ਹੈ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਈ) ਜਨਮ ਬੈਤ ਗਿਆ ॥ ਏਕ ਅਰੰਧ ਮੌਜੈ ਘਡੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ, ਆਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਨਦਗੀ, ਦੂਜੇ ਮੌਜੈ ਘਡੀ ਦੇ ਜਲ-ਘਡੀ, ਆਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਲ ਸਮਝ੍ਹੇ ॥ ੪੨ ॥

ਚਤੁਪਾਈ ।

ਗਢ ਪਰ ਨੌਰ ਖੌਰ ਦੁੜ ਨਦੀ । ਪਾਨਿ ਮਰਹਿੱ ਜਡਸੇ ਦੁਰੁਪਦੀ ॥
 ਅਤਰੁ ਕੁਂਡ ਏਕ ਸੋਤੈ ਚੂਰੂ । ਪਾਨੀ ਅੰਬਿਤ ਕੀਚੁ ਕਪੂਰੂ ॥
 ਓਹਿ ਕ ਪਾਨਿ ਰਾਜਾ ਪਈ ਪੌਤ੍ਰਾ । ਬਿਰਿਧ ਹੋਈ ਨਹਿੱ ਜਉ ਲਾਹਿ ਜੀਅਾ ॥
 ਕਂਚਨ ਬਿਰਿਖ ਏਕ ਤੇਹਿ ਪਾਸਾ । ਜਸ ਕਲਪ-ਤਰੁ ਇੱਦਰ ਕਵਿਲਾਸਾ ॥
 ਮੂਲ ਪਤਾਰ ਸਰਗ ਓਹਿ ਸਾਖਾ । ਅਮਰ ਬੇਲਿ ਕੋ ਪਾਉ ਕੋ ਚਾਖਾ ॥
 ਚਾਂਦ ਪਾਤ ਅਤ ਫੂਲ ਤਰਾਈ । ਹੋਈ ਉੱਜਿਅਾਰ ਨਗਰ ਜਹੁੰ ਤਾਈ ॥
 ਵਹ ਫਰ ਪਾਵੈ ਤਪਿ ਕਈ ਕੋਈ । ਬਿਰਿਧ ਖਾਈ ਨਉ ਜੀਵਨ ਹੋਈ ॥

ਦੋਹਾ ।

ਰਾਜਾ ਭਣ ਮਿਖਾਰੌ ਸੁਨਿ ਓਹਿ ਅੰਬਿਤ ਭੋਗ ।

ਜੋਈ ਪਾਵਾ ਸੋ ਅਮਰ ਭਾ ਨ ਕਿਛੁ ਵਿਅਾਧਿ ਨ ਰੋਗ ॥ ੪੩ ॥

ਨੌਰ = ਜਲ । ਖੌਰ = ਚੌਰ ਦੇ ਪਕਾ ਚਾਵਲ । ਦੁਰੁਪਦੀ = ਦ੍ਰੌਪਦੀ । ਪਈ = ਪਰਨਤੁ ।
 ਬਿਰਿਧ = ਵੁਦ੍ਧ । ਬਿਰਿਖ = ਵੁਚ । ਕਲਪਤਰੁ = ਕਲਪ-ਤਰੁ = ਕਲਪ-ਵੁਚ । ਪਤਾਰ = ਪਾਤਾਲ ।
 ਸਰਗ = ਸ਼ਰਗ । ਸਾਖਾ = ਸ਼ਾਖਾ । ਬੇਲਿ = ਵੱਜੀ = ਲਜਾ । ਜੀਵਨ = ਯੌਵਨ । ਵਿਅਾਧਿ =
 ਵਾਧਿ ॥

ਗਢ ਪਰ ਨੌਰ ਆਤ ਖੌਰ ਨਾਮ ਕੀ ਦੀ ਨਦਿਧਾਂ ਹੈਂ । ਅਰਥਾਤ् ਏਕ ਕਾ ਪਾਨੀ ਤੋ ਪਾਨੀ-
 ਹੈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਾ ਪਾਨੀ ਖੌਰ ਹੈ । ਯੇ ਨਦਿਧਾਂ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਪਾਨੀ ਮਰਤੀ ਹੈਂ, ਅਰਥਾਤ्
 ਵਹਾਂ ਦੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਦੇਤੀ ਹੈਂ, ਜੈਥੇ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਪਾਂਚੋ ਪਾਂਡਵੋਂ ਕੀ ਸ਼ਕੀ । (ਮਹਾਭਾਰਤ ਮੌਜੈ
 ਹੈ, ਕਿ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਥੋਡਾ ਭੌ ਮੋਜਨ ਬਨਾ ਕਰ, ਸਥ ਕਿਸੀ ਕੀ ਖਿਲਾ ਦੇਤੀ ਥੀ, ਆਤ

भण्डारा नहीं खाली होता था । जब वह खा लेती थी, तब भण्डारा खाली हो जाता था (महाभारत, वनपर्व, २ अध्याय का ७२—७४ झोक देखो) । कवि का अभिप्राय है, कि दोनों नदियों में भौ द्रौपदी का सा धर्म है, कि सब लोग नौर और खौर को यथेच्छ रात दिन पौआ करते हैं, परन्तु घटती नहीं । (नदियाँ ज्यों की त्यों उन से भरी रहती हैं) ॥ और एक मोती के चूर्ण का बना कुण्ड है, जिस का कौचड़ कपूर और पानी अमृत है ॥ परन्तु (जैसे सब के लिये दोनों नदियाँ सुलभ हैं, वैसा यह कुण्ड नहीं है) । इस का पानी केवल राजा-ही पौता है । इसी कारण जब तक जीता है, वृद्ध नहीं होता ॥ तिस कुण्ड के पास एक कञ्चन (सोना) का वृच्छ है, (उस की ऐसी शोभा है), जैसे राजा इन्द्र के यहाँ कैलास में कल्प-वृच्छ शोभित हो ॥ यहाँ भौ कैलास से अमरावती समझना चाहिए । उस वृच्छ का मूल (जड़) पाताल, और ग्रामा स्वर्ग तक (चलौ गई) है । ऐसी अमर-करने-वाली वेलि (वेलि के फल) को कौन पावे और कौन चक्खे, अर्थात् अत्यन्त काठिन्य से कोई भाग्यवान् पावे तो पावे ॥ उस वृच्छ के पन्ने (पात = पत्र) चन्द्रमा, और फूल तारा-गण हैं, (इसी कारण रात को) जहाँ तक शहर है, तहाँ तक उसी से उजेजा होता है ॥ कोई तपस्या कर के (तपि) उस फल को पाता है । उस फल को वृद्ध खाय, तो उस का भौ नया यौवन हो जाय ॥

उस अमृत भोग (फल) को सुन कर (कितने) राजा भिखारी हो गये, अर्थात् राज-पाट छोड़ दिये । जो (उस फल को) पाया, वह अमर हो गया, (फिर) उस को न कुछ व्याधि हो और न रोग ॥ यहाँ व्याधि से शरीर के बाहर का रोग, और रोग से आधि, अर्थात् शरीर के भौतर का रोग, समझो ॥ ४३ ॥

चतुर्पाई ।

गढ़ पर बसहिँ भारि गढ़-पतौ । असु-पति गज-पति भू-नर-पतौ ॥
 सब क धउरहर सोनइ साजा । अउ अपने अपने घर राजा ॥
 रूपवंत धनवंत सभागे । परस-पखान पउरि तिन्ह लागे ॥
 भोग बिरास सदा सब माना । दुख चिंता कोइ जनम न जाना ॥
 मँदिर मँदिर सब के चउपारी । बइठि कुअँर सब खेलहिँ सारी ॥
 पासा ढरइ खेलि भलि ह्वाई । खरग दान सरि पूज न कोई ॥
 भाँट बरनि कहि कौरति भली । पावहिँ घोर हसति सिंघली ॥

दोहा ।

मँदिर मँदिर फुलवारी चेआ चंदन बास ।
निसि दिन रहइ बसंत तह्य छ्वो रितु बरहो मास ॥ ४४ ॥

झारि = बराय कर = झाड़ कर = केवल = खाली । असु-पती = अश्व-पति । धउर-हर = धरहरा = ध्रुवहर = ध्रुव के ऐसा ऊँचा स्थान । परस-पखान = स्पर्श-पाषाण = पारस । विरास = विलास । चउपारी = चतुः-पाट = चतुः-शाला = बैठक । सारी = पासा । खरग = खड़ । सिंघल = सिंघल का ॥ बरहो = बारहो ॥

गढ के ऊपर झार कर के, अर्थात् केवल, गढ-पति, अश्व-पति, गज-पति, भू-पति और नर-पति लोग बसते हैं । औरों को अधिकार नहीं कि गढ के ऊपर बसें ॥ जिन के अधिकार में एकाध गढ़ो हो, वे गढ-पति कहलाते हैं । जिन के अधिकार में कुछ घोडे और हाथी हैं, वे क्रम से अश्व-पति और गज-पति कहे जाते हैं । जिन के अधिकार में कुछ भूमि और कुछ मनुष्य अर्थात् सिपाही हैं, उन्हें क्रम से भू-पति और नर-पति कहते हैं । सब लोगों के धरहरे (उच्च-स्थान) सोने से सजे हैं, और वे सब अपने अपने घर में राजा-ही के ऐसे हैं, अर्थात् राजा जिस प्रकार का सुख भोगता है, वैसा-ही ये लोग भी भोगते हैं ॥ सब लोग सर्वदा भोग और विलास-ही को मानते हैं, अर्थात् भोग विलास-ही में समय को व्यतीत करते हैं, कोई जन्म भर में भी दुःख और चिन्ता को नहीं जानते, कि क्या पदार्थ है ॥ दून्द्रियों की सुख-साधन सामग्री को भोग कहते हैं, और बाहर की श्रोमा को विलास कहते हैं ॥ सब के मन्दिर मन्दिर में बैठक (चउपारी) है, वहाँ (गढ-पति, अश्व-पति इत्यादि के) कुञ्चर (बालक) सब बैठ कर पासा (सारी) खेलते हैं ॥ पासा ढारा (फेंका) जाता है, और अच्छी तरह से खेल होती है । यह न कोई समझे, कि वे कुञ्चर केवल खेल-ही में दिन बिताते हैं, इस लिये अगली चौपाई में वर्णन करते हैं, कि खड़ (चलाने) और दान (देने) में उन कुञ्चरों की बराबरी में कोई नहीं पड़ता (पूजा), अर्थात् वे कुञ्चर खड़ चलाने में और दान देने में बड़े बहादुर हैं ॥ भाँट लोग उन कुञ्चरों की वर्णना कर, और अच्छी तरह से (कविता कर), उन की कीर्ति कह कर, घोडे और सिंघल के हाथी पाते हैं । अर्थात् कुञ्चर लोग ऐसे उदार हैं, कि एक एक प्रशंसा में घोडे और हाथिओं से भाँटों को अद्याच्य कर देते हैं ॥

मन्दिर मन्दिर में फुलवारी से चोश्रा और चन्दन के वास आते हैं । तहाँ पर छवों
चतु, और बारहो महीने में, रात दिन वसन्त चतु रहती है ॥ केवल छवों चतु-ही
के कहने से बारहो महीना का बोध हो जाता है । पृथक् महीनों का कहना दाव्यार्थ
है । अर्थात् अपने अर्थ को पुष्ट करने के लिये, महीनों को भी पृथक् कहा है ॥ ४४ ॥

चउपाई ।

पुनि चलि देखा राज-दुआरू । महि घूबिंच्च पाइअ नहिँ बारू ॥
हसति सिंघली बाँधे बारा । जनु सजौउ सब ठाढ पहारा ॥
कवन-उ सेत पौत रतनारे । कवन-उ हरे धूम अउ कारे ॥
बरनहिँ बरन गगन जनु भेघा । अउ तोहि गगन पौठि जस ठेघा ॥
सिंघल के बरनउँ सिंघली । एक एक चाहि एक एक बली ॥
गिरि पहार हसतौ सब पेलहिँ । विरिख उचारि फारि मुख मेलहिँ ॥
माँते निमते गरजहिँ बाँधे । निसि दिन रहहिँ महाउत काँधे ॥

दोहा ।

धरनौ भार न अँगवई पाउँ धरत उठ हालि ।

कुरुम टूट फन फाटई तिन्ह हसतिन्ह के चालि ॥ ४५ ॥

दुआर = द्वार = दरवाजा । महि = मही = पृथ्वी । घूबिंच्च = घूमिये । पाइअ = पाइये ।
बारू = बारा = बार = द्वार । सजौउ = सजौव । कवन-उ = कश्चन = को इपि = कोई ।
सेत = श्वेत । पौत = पौला । रतनारे = रक्ष = लाल । हरे = हरित । ठेघा = आधार ।
पेलहिँ = ढकेलतौ है । माँते = मत्त = मस्त । निमते = विना मत के, वे-समझ, जो कहना
न माने । महाउत = महामात्र = पीलवान् ॥ धरनौ = धरणी = पृथ्वी । अँगवई = अङ्गौ-
कार करती है = सहती है । कुरुम = कुर्म = कच्छप ॥

फिर चल कर राज-द्वार को देखा, जहाँ सब पृथ्वी घूमिये (परन्तु) द्वार न पाइये ।
अर्थात् दूरनी भौर चारों ओर से डटी रहती है, जिस से समझ नहीं पड़ता, कि किस
ओर द्वार है ॥ द्वार पर सिंघल के चाथी बाँधे हैं । वे ऐसे जान पड़ते हैं, जानें
सहित जीव के (जिन्दा हो कर) सब पहाड़ खड़े हैं ॥ कोई श्वेत, कोई पौले, कोई

लाल, कोई हरे, कोई धूर्म से, और कोई काले हैं ॥ (पौले, लाल, हरे रंग के हाथी नहीं देखने में आये हैं । रंग से रंग देने से रंग बदल जा सकता है)। जानेँ गगन (आकाश) में वर्ण वर्ण (रंग-रंग) के मेघे (बादल) हैं । और तिस आकाश में उन की पौठ ऐसी जान पड़ती है, जैसे ठेंधा (आधार)। अर्थात् वे हस्ती इतने ऊँचे हैं, जानेँ अपनी पौठ से आकाश को रोके ड्रए हैं ॥ सिंघल के हाथियों का वर्णन करता हूँ, कि एक से एक बढ़ कर, और एक से एक बल्लौ हैं ॥ सब हाथी गिरि और पहाड़ को ढकेल देते हैं, और वृक्ष को उखाड़ कर (उचारि), और उन्हें फाड़ फाड़ कर, मुख में डालते हैं । (यहाँ गिरि से बड़ा पहाड़, और पहाड़ से साधारण पर्वत लेना चाहिए । यदि गिरि के स्थान में 'गिर' पाठ हो, तो अच्छा । तब चौपाई का अर्थ 'सब हस्ती (जब) ढकेलते हैं, (तब) पहाड़ गिर पड़ता है', ऐसा करना चाहिये) ॥ मस्त हाथी बे-समझ हो कर, बंधे ड्रए गरजते हैं, (इसी कारण उपद्रव के भय से) उन के कन्धे पर रात दिन महावत रहते हैं ॥

पाँव के धरते-ही, पृथ्वी उन के भार को नहीं सह सकती, हिल उठती है । उन हाथियों के चाल से कूर्म की पौठ टूट जाती है, और ग्रेष का फण फट जाता है ॥ ४५ ॥

चउपाई ।

पुनि बाँधे रजवार तुरंगा । का बरनउँ जस उन्ह के रंगा ॥
 लौले समुँद चाल जग जाने । हाँसुल भवँर किआह बखाने ॥
 हरे कुरंग महुअ बहु भाँतौ । गरर कोकाह बुलाह सो पाँतौ ॥
 तौख तुखार चाँडि अउ बाँके । तरपहिँ तवहिँ नाँचि बिनु हाँके ॥
 मन तइँ अगुमन डोलहिँ बागा । देत उसाँस गगन सिर लागा ॥
 पावहिँ साँस समुँद पर धावहिँ । बूड न पाऊं पार होइ आवहिँ ॥
 थिर न रहहिँ रिस लोह चबाहीौ । भाँजहिँ पूँछि सौस उपराहीौ ॥

दोहा ।

अस तुखार सब देखे जनु मन के रथ-बाह ।
 नयन पलक पहुँचावहीौ जहँ पहुँचइ कोइ चाह ॥ ४६ ॥

तुरंग = घोडा । लीले = नीले रंग का घोडा, आज कल भी इसी नाम से प्रसिद्ध है (नीलो नीलक एवाश्व इति जयादित्य-कृते इश्वैद्यके) ॥ समुँद = समुद्र के फेन सा जिस घोडे का रंग हो, इसे आज कल कोई समंद कोई बदामी कहता है ॥ हाँसुल = कुमैत-हिनाई, अर्थात् मेहदी के रङ्ग सा सब बदन हो, और चारों पैर कुछ काला लिये ॥ भवंर = भैंरे का सा रंग, जिसे आज कल मुश्की कहते हैं ॥ किअह = (कियाह) जिस घोडे का रंग पके ताड के फल के ऐसा हो, (पक्तालनिभो वाजी कियाहः परिकौर्त्तिः—इति जयादित्य-कृते इश्वैद्यके) ॥ हरे = हरे रंग का घोडा, इस रङ्ग का घोडा दुर्लभ है नहीं मिलता। पुराण में कथा है, कि सूर्य के रथ में हरे घोडे हैं । कवि ने प्रशंसार्थ लिख दिया है ॥ कुरंग = कुलंग = लाखौरौ, जिस का रंग लाह के ऐसा हो, इसे नीला कुमैत कहते हैं ॥ मङ्गअ = मङ्गए के ऐसा जिस का रंग हो ॥ गरर = इसे आज कल लोग गर्व कहते हैं । जिस के एक रोएं लाल, और एक सफेद, खिँचडी हो ॥ कोकाह = कोका, सफेद घोडे को कहते हैं, (शेतः कोकाह इत्युक्तः—इति जयादित्य-कृते इश्वैद्यके) । बुलाह = बोल्लाह, जिस के गर्दन और पूँछ के बाल पीले हैं (बोल्लाहस्त्वयमेव स्यात् पाण्डुकेशरवालधिरिति हेम-चन्द्रः) । इन घोडँके लिये सन् १८८६ में छपानं० ५७४ वङ्गाल एशियाटिक सोसाइटी के अश्व-वैद्यक के तौसरे अध्याय के १००—११० श्लोक और टीका देखो ॥ तौख = तौक्षण = तेज । तुखार = घोडा । चांडि = चण्ड = प्रचण्ड = बडे बली । बाँके = बङ्ग = टर्रे = कठिन । तरपहिं = तडपहिं = तडपते हैं । तवहिं = तपहिं = तपते हैं, जैसे आग के ऊपर पैर पड़ जाने से, पैर को छन छन पटकते हैं ॥ अगुमन = अगाड़ी = पहले । डोलहिं = डोलते हैं = चलते हैं । बाग = रास, जिसे पकड़ कर घोडे को हाँकते हैं, जो कि लगाम में लगाई जाती है, हिन्दुस्तानी सूत की, बिलायती चमड़े की, होती है । (इसी बाग में जो घोडे को बाँधने के लिये डोरौ लगा देते हैं, उसे बाग-डोर कहते हैं । उसांस = उच्छास = यहाँ, घोडे के चलाने के लिये “हँ”, ऐसा इशारा ॥ साँस = श्वास, यहाँ इशारा ॥ रिष = रोष से । लोह = लगाम । चवाहीं = चबाते हैं । भाँजहिं = भाँजते हैं = फेरते हैं । सौष = शौष = शिर ॥ उपराहीं = ऊपर-ही = ऊपर ॥ रथ-वाह = रथ हाँकने-वाला = सूत = कोच-वान = गाड़ी-वान ॥ पलक = पलक भँजने में जो काल ॥

फिर राज-द्वार पर घोडे बँधे हैं, उन के जैसे रङ्ग हैं, उन का क्या वर्णन करूँ ॥ कोई लीले और समुँद हैं, जिन की चाल को जग (जगत् के सब लोग) जानता है,

कोई हाँसुल कोई भवंर और कोई किआह बखाने जाते हैं, अर्थात् कहे जाते हैं ॥ बङ्गत प्रकार (भाँति) के हरे, कुरंग (कुलंग) और मङ्गआ हैं, (इन घोड़ों के हल्का और गहिरा रङ्ग हो जाने से अनेक भेद होते हैं), गर्व, कोकाह, और बुलाह जो हैं, सो पाँती के पाँती हैं, अर्थात् पृथक् पृथक् एक एक कतार में बंधे हैं ॥ ऐसे तौद्धण, प्रचण्ड और बाँके घोडे हैं, कि विना हाँके-ही नाँच (नाँच नाँच) कर तडपते और तपते हैं ॥ बाग से, अर्थात् बाग को लेते-ही, मन से भी आगे चलते हैं, अर्थात् मन की गति से भी अधिक गति है । इश्वरा देते-ही आकाश में (उन के) शिर लग जाते हैं, अर्थात् ऐसे उड़ते हैं, कि उन के शिर आकाश में लग जाते हैं ॥ जब इश्वरा पाते हैं, तब समुद्र पर दौड़ते हैं । (इस तेजी से दौड़ते हैं, कि) पैर ढूबने नहीं पाता, और पार हो जाते हैं ॥ स्थिर नहीं रहते, रोष से (हर घड़ी) लगाम चवाया करते हैं, और शिर के ऊपर पूँछ फेरा करते हैं ॥

(वहाँ पर) ऐसे घोडे देखे, जानो मन के हाँकने-वाले हैं । और जहाँ कोई पङ्क्षचना चाहे, तहाँ नयन (आँख) के पलक भँजने में पङ्क्षचाते हैं ॥ ४६ ॥

चउपाई ।

राज-सभा पुनि देख बईठी । इँदर-सभा जनु परि गद डौठी ॥
धनि राजा असि सभा सँवारी । जानउँ फूलि रही फुलवारी ॥
मुकुट बाँधि सब बइठे राजा । दर निसान सब जिन्ह के बाजा ॥
रूपवंत मनि दिपद लिलाटा । माँथद छात बइठ सब पाटा ॥
माँनउँ कवँल सरो-बर फूले । सभा क रूप देखि मन भूले ॥
पान कपूर मेद कसतूरी । सुगँध बास सब रही अपूरी ॥
माँझ ऊँच इँद्रासन साजा । गँधरव-सेन बइठ तहँ राजा ॥

दोहा ।

छतर गगन लग ता कर स्त्र तवद्व जस आपु ।
सभा कवँल अस बिगसद माँथद बड परतापु ॥ ४७ ॥

दर = दल = सेना । निसान = निशान = डंका । मनि = मणि । दिपद = दिपता है = बरता है । लिलाटा = ललाट = मस्तक । माँथद = माँथे में । छात = क्वच । पाटा = पट्ट

चउपाई ।

राजइ लौन्ह ऊभि कइ साँसा । अइस बोलि जनि बोलु निरासा ॥
 भलेहि पेम हइ कठिन दुहेला । दुइ जग तरा पेम जेइ खेला ॥
 भौतर दुख जो पेम मधु राखा । गंजन मरन सहइ जो चाखा ॥
 जो नहिं सौस पेम पँथ लावा । सो पिरिथुमिं मँह काहे क आवा ॥
 अब मई पेम फाँद सिर मेला । पाउँ न ठेलु राखु कइ चेला ॥
 पेम-बार सो कहइ जो देखा । जेइ न देख का जान बिसेखा ॥
 तब लगि दुख पिरितम नहिं भेटा । मिला तो गण्ड जनम दुख मैटा ॥

दोहा ।

जस अनूप तुइ देखी नख-सिख बरन सिंगार ।
 हइ मौहिं आस मिलइ कइ जउँ मेरवइ करतार ॥ १०० ॥

इति राजा-सुआ-संवाद-खंड ॥ ६ ॥

ऊभि = ऊब कर = उदिग्ग हो कर । साँसा = श्वास । निराशा = निराशा = आशा से रहित । भलेहि = भले से । पेम = प्रेम । दुहेला = दुर्हेला = दुष्ट-खेल = दुःख से भरा । मधु = शहद । गंजन = गञ्जन = मान-धंस = अपमान । मरन = मरण । सहइ = सहता है । चाखा = चाषा = चूसा = खादु लिया । सौस = शौष = शिर । पँथ = पन्थ = राह । पिरिथुमिं = पृथिवी = भूमि । मेला = डाला । पाउँ = पैर । ठेलु = टाल = हटाव । राखु = रख । कइ = कर के । चेला = शिथ्य । बार = द्वार । बिसेखा = विशेष । पिरितम = प्रीतम = प्रियतम = सब से धारा । नख = नह । सिख = शिखा = चोटी । बरन = वर्णय = वर्णन कर । सिंगार = शृङ्गार । आस = आशा = उमेद । जउँ = यदि । मेरवइ = मिलावे । करतार = कर्त्तारः = ब्रह्मा ॥

(शुक के कहने पर) राजा ने ऊब कर (घबडा कर) श्वास लिया, (और कहने लगा, कि) ऐसी निराश बोलौ मत (जनि) बोल ॥ भले से दुःख से भरा (दुहेला) प्रेम कठिन है, (परन्तु) उस प्रेम से जिस ने खेला वह दोनों जग को तर जाता है,

अनुकरण । अह-निसि = अहर्निश = दिन-रात । चिल्लाई = चिज्जाता है । रोम = रोष = क्रोध । नागन्ह = सर्पाँ को । पाँडुक = पाण्डुक = पेंडुकी । गिउ = ग्रीवा = गला । चाहि = इच्छा कर के = चाह से । तौतर = तिन्निरपचौ । निति-हि = निय-हि = निय-है । दोख = दोष = पाप । कित = क्यों । मोख = मोच ॥

(शुक ने कहा, कि) राजा प्रेम को सुनते-है मन में न भूलो । प्रेम कठिन होता है । इस के लिये शिर दे दे तब (तो) (यह प्रेम) छाजता है (सोहता है), अर्थात् विना शिर दिये प्रेम की ग्रोभा नहीं ॥ प्रेम के फन्दे में यदि पड़ा, तो (फिर वह) नहीं छूटता । बज्जतेँ ने जी दे दिया (परन्तु प्रेम का) फन्दा नहीं टूटा, अर्थात् जी के सङ्ग-हीं गया ॥ जितना गिरिगिट छन्द को धरता है, अर्थात् रूप को बदलता है, तितना (इस प्रेम मार्ग में) दुःख है । (इस में पड़ कर प्राणी) चण चण में लाल, पौला, और चण में श्वेत होता रहता है ॥ प्रेम-ही को जान कर, मयूर जो है, सो वज-वासी झच्चा, अर्थात् गृह से विरक्त झच्चा, (और इस के) रोम रोम में नग-वासी (नाग-पाश) के फन्दे पड़े ॥ वही (सो) नग-वासी फन्दा घूम घूम कर (फिर फिर) (इस के) पचों में पड़ा, (इसी कारण यह) उड़ नहीं सकता, और कैद हो कर, अरुझा रहता है, अर्थात् फँसा रहता है (मयूर के रोचें और पचों के ऊपर जो चिच-कारी है, सो नाग-पाश फन्दे के ऐसी जान पड़ती है) ॥ (फँसने-ही से दुःखी हो कर) मुण्डँ मुण्डँ (मरा, मरा) ऐसा चिज्जाता है, और उसी रोम से, (कि नाग-पाश के फन्दे में मैं फँसा हूँ), नागों को धर कर (पकड़ कर) खाता है ॥ पेंडुकी और शुक के कण्ठ में भी वही (फन्दे का) चिक्क है, (सो) जिस के गले में (फन्दा) पड़ा, वह चाह से (अपना) जी देता है ॥

तौतर के गले में जो फन्दा है, (उसी लिये) (वह) निय-है (अपने) दोष को पुकारता है । (ऐसा न होता, तो) वह (सो) क्यों पुकार कर (हँकारि) गले में फन्दे को डालता (मेलद), और क्या मारने से मोच होता है, अर्थात् नहीं होता ॥ यहाँ कवि को उत्तेजा है, कि तौतर के गले में जो कण्ठ-रूपी फन्दा है, उसी से दुःखी हो कर, तौतर बोलता है, जिस की बोली सुन, व्याधे उसे फन्दे में फँसा लेते हैं, और मार डालते हैं, तब, जी के जाने पर भी, उस के गले का फन्दा नहीं टूटता, इस लिये ऊपर जो कह आये हैं, कि “जीउ दौन्ह बज्ज फाँद न टूटा” यह बज्जत ठौक है ॥६८॥